

सरल गीता ।

ग्रन्थ प्रकाशक समिति, काशी

ग्रन्थ-प्रकाशक समिति पु. सं. १.

सरल गीता ।

(श्रीमद्भगवद्गीताका सरल हिन्दी अनुवाद)

How can a man learn to know himself?
Never by meditating but by doing. Endeavour
to do thy duty, and thou wilt at once
know what in thee lies. *Goethe*

लेखक और प्रकाशक

लक्ष्मण नारायण गर्दे ।

ग्रन्थ-प्रकाशक समिति, काशी ।

सर्वाधिकार रक्षित हैं ।

प्रकाशक-लक्ष्मण नारायण गर्डे, मंत्री ग्रन्थ प्रकाशक
समिति, नं. ४ पत्थरगली, बनारस सिटी ।

मुद्रक—बी० एल० पावगी, हितचिन्तक प्रेस,
रामघाट, बनारस सिटी ।

प्रस्तावना ।

(प्रथम संस्करण)

श्रीमद्भगवद्गीताका सरल हिन्दी अनुवाद आज आप लोगों-की सेवामें बड़े प्रेमसे उपस्थित करते हैं । इसे पढ़ने और इसपर विचार करनेके लिये आपको कष्ट देनेका एक विशेष कारण है और वह आपकी और हमारी दुरवस्था है । हम लोग यदि अपने देशकी दशापर विचार न करेंगे तो और कौन करेगा ?

हम हिन्दू लोग इस समय कितने गिरे हुए हैं इसका विचार करनेसे छाती फटने लगती है । संसारके सभी देश अपनी ऐहिक उन्नति कर विज्ञानका विचार कर रहे हैं और हम अभी खानेपीनेकी उलझनेसे ही फुरसत नहीं पाते; विज्ञानका क्या आक विचार करेंगे !

इस समय अपनी उन्नतिका मार्ग स्पष्ट नहीं दिखायी देता । कोई कहता है मुसलमानोंको शुद्ध कर लो और अपनी संख्या बढ़ाओ और धर्मका प्रचार करो । कोई कहता है वर्णाश्रम धर्मकी स्थापना करो और कोई कहता है जन्मसिद्ध ब्राह्मणों और श्रत्रियोंके सामने शिर नवाओ । कोई कहता है खेतीकी उन्नति करो और कोई कहता है खेती छोड़ो—उसमें सिधा हानिके और कुछ न होगा ; और व्यवसाय-वाणिज्य करो, १० । ऐसे समय आज हजारों वर्षोंसे जिस भगवद्गीताको हम मानते आये हैं उसकी भी सम्मति ले लेना हमारा कर्तव्य है ।

हमें अपनी उन्नतिका मार्ग निष्कण्टक करना है । इस लिये पहिले हमारा आदर्श स्थिर हो जाना चाहिये । आदर्श यदि सामने न रहे तो भटकनेको संभावना है ।

भारतवर्षमें प्रधानतः दो प्रकारके विद्वान् हैं; एक वे लोग जो संस्कृतका ही अध्ययन करते हैं और नवीन आविष्कृतताओंको

नहीं समझना चाहते: और दूसरे वे लोग हैं जो प्राचीन विचारोंको एकदम तलाक देकर नये सिरेसे—पश्चात्य पद्धतिसे अपनी उन्नति चाहते हैं। एकके विचारसे पारमार्थिक उन्नति ही उन्नति है और दूसरेके विचारसे पारमार्थिक उन्नति अथवा प्राचीन सद्ग्रन्थोंके आदर्शका विचार छोड़ कर सांपत्तिक उन्नति करना ही पुरुषार्थ है। परन्तु पहिले विचारके लोग देशकालका विचार न करनेके कारण अपने अध्ययनका उपयोग नहीं कर सकते। और दूसरे विचारके लोग भारतवर्षमें वैसी ही अवस्था उत्पन्न करना चाहते हैं जैसी इस समय पाश्चात्य देशवासियोंकी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी अवस्था हमारी वर्तमान अवस्थासे बहुत ही अच्छी है। परन्तु उसमें एक दोष है—वह यह है कि उससे संसारमें समता, स्वतंत्रता और एकता नहीं फैलती ! जो देश चाहता है वह अच्छे बुरे मार्गसे अपनी उन्नति करता है। परन्तु हिन्दूओंका यह आदर्श नहीं है कि दूसरोंका माल हड़प कर स्वयं धनवान् हों। जिस उन्नतिमें ब्रह्म विचार नहीं वह उन्नति नहीं, मृगजल है—वह निरी माया है। सच्ची उन्नति वह है जिससे हृदय संतुष्ट हो; शरीर बलवान् हो, अपना धन कोई न लूटने पावे और दूसरा भी शान्ति और सुखके साथ जीवित निर्वाह करे। परन्तु इस विचारका इतना अतिरेक कदापि न होना चाहिये जितना भारतवर्षमें हुआ। समयका विचार करके ही उन्नतिको यत्न करना चाहिये।

संसारिक समता और एकताका आदर्श हमारे सामने वैदिक कालसे है। गीताका भी यही आदर्श है। परन्तु इस आदर्शपर विचार ही हम लोग करते रहे और आलसी बनकर हमने सर्वस्व खो दिया। उक्त उच्च आदर्श सामने रख कर हमें इस समय अपने अधिकारोंको समझ कर जीवन सुखी

बनानेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये । गीता यह नहीं सिखलाती कि जंगलमें जाकर तपस्या करते रहो । गीता सिखलाती है कि परमात्माका अधीनता स्वीकार करो । सब प्रकारके भयसे स्वतंत्र हो जाओ । ऐहिक उन्नति ही पारमार्थिक उन्नतिका मूल है । ऐहिक उन्नति क्या है ? तेजस्वी और बलवान् शरीर, धन और अधिकार । जिसे अपनी संपत्तिपर अधिकार नहीं वह क्या कभी निरोगी और धनी बन सकता है ? जिसका शरीर अपने कालमें नहीं वह क्या पारमार्थिक उन्नति करेगा ? इस लिये ऐहिक उन्नति ही प्रधान है । परन्तु ऐहिक उन्नति करते करते विलास और भोगमें बह जानेका डर रहता है । इसलिये परमात्माका विचार करते हुए इस उन्नतिका यत्न करना चाहिये ।

गीताकारने उन कर्तव्योंपर बड़ा जोर दिया है जो हिन्दुओंके नित्य करनेके कर्तव्य हैं । इनका नित्य पालन करनेसे आत्म-विचार और संसारसे अपना संबंध ध्यानमें रहता है । इन कर्तव्योंको नित्य निर्वाह कर बल, तेज, आरोग्य और मानसिक उन्नतिका यत्न करनेसे मनुष्य कृतकार्य होता है । ऐसे मनुष्य जिस देशमें फैल जायेंगे वह संसारके लिये आदर्श होगा । यह तो हुआ व्याक्तिगत कर्तव्य ; परन्तु इतने ही महत्वका सामाजिक कर्तव्य भी है । जैसा समाज होगा वैसा ही उसका एक एक व्यक्ति होगा । इसलिये समाजकी उन्नति अवनतिका विचार कर समाजकी उन्नतिका उपाय करना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है । इस कर्तव्यको पालन करनेसे ही मनुष्यकी बुद्धि विशाल और हृदय उदार होता है ; और ब्रह्मसाक्षात्कारका यही मार्ग है ।

इस प्रकार गीतामें ऐहिक और पारमार्थिक उन्नतिका एक ही साथ मार्ग बतला दिया गया है । जो लोग इससे लाभ उठावेंगे वे अपनी व्यक्तिगत उन्नति कर समाजके उद्धार कार्यमें

हाथ बटावेंगे ।

इस समय देशकी और कास अपनी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण करना ही हमारा कर्तव्य है । किस प्रकारसे यह कर्तव्य सिद्ध होगा इसका विस्तारपूर्वक विचार गीतामें किया गया है ।

सरल गीता लिखनेमें गूढ़ विषयोंको सरल पद्धतिसे समझानेकी यथाशक्ति चेष्टा की गयी है इसलिये इसका नाम सरल गीता, उचिन ही जान पड़ता है । इसके आगेके पृष्ठोंमें आप अनुवाद पढ़ियेगा तो आप ही मालूम हो जायगा कि कहांतक उद्देश्य सफल हुआ है । गीतारंभ करनेसे पहिले यूद्धका पूर्व वृत्तान्त भी जोड़ दिया है जिसमें महाभारतसे गीताका संबंध प्रकट हो । अन्तमें गीताके सिद्धान्तोंका लेखरूपसे संक्षेपमें विवेचन किया है जिसमें एक बारके अनुवाद पाठसे जो बातें समझमें नहीं आती वे साधारण पाठकोंकी भली भांति समझमें आ जाय ।

श्रीमद्भगवद्गीताको हम भारतवर्सा अपना धार्मिक ग्रन्थ मानते हैं । हजारों लोग उसका नित्य पाठ करते हैं । ऐसे ग्रन्थके विषयमें लोगोंको जितनी अधिक बातें मालूम होंगी उतना ही अधिक कल्याण होगा । इस दृष्टिसे यह यत्न किया गया है— उसका फल हम अपने उन्हीं देशबंधुओंको समर्पित करते हैं जिनका और हमारा स्वार्थ एक ही है ।

काशी, ता० २० दिसम्बर

१९१२.

विनीत—

लक्ष्मण नारायण गर्दे ।

प्रस्तावना ।

(द्वितीय संस्करण ।)

प्रथम संस्करण हमने जिस प्रेमसे आप लोगोंका भेंट किया उसी प्रेमसे उसे आप लोगोंने अपनाया इसलिये दूने उत्साहसे आज दूसरा संस्करण प्रकाशित करते हैं । इस संस्करणमें ' पूर्ववृत्तान्त ' बढ़ा दिया गया है और वह पहिलेसे अधिक मनोरंजक भी हुआ होगा ; अनुवादकी भाषामें थोड़ा परिवर्तन कर दिया है और वह पहिलेसे और भी सरल करनेकी चेष्टा की है । आशा है, तीसरा संस्करण भी शीघ्र ही निकालना पड़ेगा ; क्योंकि अब भारतके मोहकी रात समाप्त होकर अभ्युदयकालकी पौ फटनेका समय है और इसलिये अब गीतामृतकी जाह्नवी भारतवासियोंका चित्त अवश्य हरण करेगी ।

काशी, भाद्रपद शुक्ल ११ शी)

सं १९७१

विनीत-

) लक्ष्मण नारायण गर्दे ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।



पूर्ववृत्तान्त ।

कुरु, दुष्यन्त, भरत, ययाति, पुरु, प्रतीप, आदि मनस्वीं और पुण्यात्मा राजाओंके जन्मसे पुनीत हुए कुरुकुलमें शान्तनु नामक राजा भी बहुत प्रसिद्ध हुआ । उसने अपने पिता प्रतीपकी आज्ञासे गंगा नाम्नी स्वर्गांगनासे विवाह किया था । विवाहसे पूर्व गंगाने उससे यह शर्त कराली थी कि यदि तुम मेरे किसी कार्यसे कुपित होंगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी । गंगासे शान्तनुको आठ पुत्र हुए । परन्तु सातको तो गंगाने गंगाप्रवाहमें बहा दिया । आठवेंको भी वह बहा देना चाहती थी परन्तु शान्तनुको इस समय अपनी शर्तका स्मरण न रहा और क्रुद्ध होकर उसने गंगाको बहुत कुछ भलाबुरा सुनाया । इसपर गंगा उसे छोड़कर चली गयी । शान्तनुको इससे बहुत दुःख हुआ । परन्तु आठवें पुत्रके प्राण बचे । इसका नाम देवव्रत रखा गया । शान्तनुने इसे युवराज्याभिषेक कराया और उस समयकी प्रथाके अनुसार वेदादि और शस्त्रास्त्र विद्या सिखानेका प्रवन्ध कर दिया ।

एक दिन यमुना नदीके तीरपर शान्तनु टहल रहा था । वहाँ उसने सत्यवती नामकी एक धीवर कन्याको देखा । देखतेही उसके रूप और लावण्यपर वह इतना मुग्ध हो गया कि तुरत उसके पिताके पास जाकर उसने उसके साथ विवाह करनेकी अपनी इच्छा प्रकट की । धीवरने कहा कि यदि आप सत्यवतीसे चाहनेवाले पुत्रको ही अपना उत्तराधिकारी और युवराज बनानेकी प्रतिज्ञा करे तो मैं राजी हूँ । शान्तनुको अब चिन्ता पड़ी कि प्रियपुत्र देवव्रतके अधिकारपर पानी फेर देना कैसे हो सकता है और यदि ऐसा न करूँ तो सत्यवती भी मुझे नहीं मिलनेकी !

वह उदास होकर घर लौट आया ! पिताका उदास चेहरा देखकर देवव्रतने इसका कारण पूछा । पर शान्तनुने टालटोलकी बातें फहकर असल बात छिपा रखी । तब एक वृद्ध मंत्रीसे देवव्रतको सब हाल मालूम हुआ । देवव्रत तुरन्त उस धीवरके पास गया और उससे बोला कि मैंने राजपाट त्याग दिया—सत्यवतीका पुत्र ही अधिकारी होगा । पर धीवरने सोचा कि इसने राज भले ही छोड़ दिया पर इसके लड़के थोड़ेही पेटा करनेवाले हैं । देवव्रतने धीवरके इस आशयको जानकर प्रतिज्ञा की कि, मैं आजन्म ब्रह्मचारी बना रहूंगा । यह सुनकर धीवरने सत्यवतीको राजासे ब्याह देना स्वीकार किया । देवव्रतकी यह पितृभक्ति और स्वार्थत्याग देखकर तथा पिताके सुखके लिये राज्य-वैभव और स्त्रीसुख आजन्म न भोगनेकी घोर प्रतिज्ञा सुनकर आकाशसे देवताओंने पुष्पवृष्टि की और ' भीष्मोऽयं ' यह आकाशवाणी भी हुई । अनन्तर भीष्म अपनी माता-सत्यवती को रथपर बैठाकर पिताके पास ले आये । पुत्रका यह व्यवहार देखकर शान्तनुने उसे ' इच्छामृत्यु ' का वर दिया ।

सत्यवतीके त्रिजांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए । विचित्रवीर्यके बचपनमें ही शान्तनुका देहान्त हुआ । तब भीष्मने त्रिजांगदको सिंहासनपर बैठाया और आप राजकार्य करने लगे । परन्तु त्रिजांगद नामकेही एक गन्धर्वसे कुम्भक्षेत्रमें उसका तीन वर्ष बराबर युद्ध हुआ और अन्तमें त्रिजांगदकी वहां मृत्यु हुई । तब विचित्रवीर्य सिंहासनपर बैठे । काशीराजकी अंबिका और अंबालिका नाम्नी कन्याओंसे इनका विवाह हुआ । परन्तु सात ही वर्ष स्त्री और राज्यका सुख भोगकर विचित्रवीर्य परलोक सिधारे । तब सत्यवती बहुत ही शोकाकुल हुई और अब भीष्मको छोड़ राज्यका कोई सहारा न देख उसने

भीष्मसे कहा:—“ मेरे दोनों पुत्र विना सन्तान ही इह लोकासे चले गये हैं; अब कुलकी सन्तानवृद्धि और राजका हित तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है । इसलिये तुम नियोगसे इन कन्याओंके सन्तान पैदा करो अथवा स्वयं राज्याधिकारी हो विवाह करके भारतकुलकी रक्षा करो । ” परन्तु भीष्मने अपनी प्रतिज्ञा भंग न की । उन्होंने कहा:—“ सत्यवती, सत्य और धर्मको इस प्रकार त्याग न दो । पंच महाभूत भी एक बार अपने गन्ध, रूप, स्पर्श आदि गुणोंको छोड़ देंगे, सूर्यका तेज भी नष्ट हो जायगा, चन्द्र अपनी शीतलताको छोड़ देगा ; पर मैं कदापि अपने सत्य व्रतसे विचलित न हूंगा ।

परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः ।

यद्वाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथं चन ॥

साक्षात् त्रैलोक्यके राज्यके लिये अथवा उससे भी श्रेष्ठ किसी सुखके लिये मैं सत्यको न छोड़ूंगा!”

देशोद्धारके लिये ऐसे ही सत्यवती महात्माओंकी आवश्यकता होती है । भीष्मने सत्यवतीको किसी वेदवेत्ता और तपोनिष्ठ ब्राह्मणसे नियोग द्वारा पुत्रोत्पत्ति करानेकी सलाह दी । तदनुसार कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्याससे सत्यवतीने प्रार्थना की और व्यासजीने नियोग विधिसे अंबिकासे धृतराष्ट्र, अंबालिकासे पांडु, और अंबिकाकी दासीसे विदुरको जन्म दिया । व्यासजीने कह दिया था कि गर्भ धारणके समय जिसकी जैसी दशा रहेगी वैसे ही पुत्र उत्पन्न होंगे, तदनुसार धृतराष्ट्र जन्मांध, पांडु पीले रंगका (और इसीलिये उसका नाम पांडु हुआ) और विदुर सद्गुणी, धर्मात्मा और बुद्धिमान् हुआ ।

भीष्मने अपने तीनों भतीजोंका यथायोग्य लालन-पालन करके उन्हें तपस्वी और ज्ञानी मुनियों द्वारा वेद, इतिहास, पुराण, नीतिशास्त्र, धनुर्विद्या तथा अस्त्रविद्यामें निपुण किया । तीनों बालक जब बड़े हुए तब भीष्मने उन्हें राज्य सौंप देना चाहा और और धृतराष्ट्र जन्मान्ध तथा विदुर दासीपुत्र थे इसलिये राज्य-धिकारी होनेके लिये उन्हें अयोग्य जान भीष्मने पांडुको राजा बनाया । गांधार देशके राजा सुबलकी कन्या गान्धारीसे धृतराष्ट्रका विवाह हुआ । इस गांधारीके विषयमें भारतमें कहा है कि इसने जब सुना कि, मेरे भावी पति अंधे हैं तो उसने भी (यह सोच कर कि जब मेरे पति दृष्टिसुखसे वंचित हैं तो मुझे भी उसकी क्या आवश्यकता है ?) उस दिनसे देहछाड़नेतक अपनी आंखों-पर पट्टी बांध रखी थी !! पांडुके दो विवाह हुए । एक राजा कुन्तीभोजकी लड़की कुन्तिके साथ और दूसरा मद्रदेशकी राज-कन्या माद्रीके साथ । विदुरका विवाह देवक नामके राजाकी पारसवी कन्याके साथ किया गया । पांडुने कुन्तिको स्वयंवरमें और माद्रीको दिग्विजय करके प्राप्त किया था । इस दिग्विजयके पश्चात् पांडु राजा मृगया करनेके हेतु हिमालयके एक वनमें चला गया । दोनों स्त्रियां भी साथ थीं । वहीं पांडुके पांच पुत्र हुए: युद्धिष्ठिर, भीष्म और अर्जुनकुन्तिसे, तथा नकुल और सहदेव माद्रीसे । कुछ काल उपरान्त वहीं पांडुका देहान्त हुआ और माद्री पतिके साथ ही सती जाकर स्वर्गलोक तिधार गयी । यह वृत्तान्त शतशृंग पर्वतपर हुआ । वहांके ऋषि लोग कुन्ति और उसके पांचों बेटोंको भीष्मके पास ले आये । जब पांडु और माद्रीके स्वर्गरोहणका समाचार मालूम हुआ तब भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुरने उनकी उत्तरक्रिया की । सत्यवती अपनी दोनों बहुओंको साथ ले तपोवनमें चली गयी । इधर धृतराष्ट्रके

एक सौ पुत्र, एक दासीपुत्र और एक कन्या हुई। सबसे बड़े पुत्र-का नाम दुर्योधन रखा गया।

अब धृतराष्ट्रके एक सौ पुत्र और पांच पांडव एक साथ रहने लगे। पांडव हिमालयमें पले थे और कौरव राजमहलमें। इससे बचपनकी धीमाधीमागी, कुस्तीकसरत और तरह तरहके खेलोंमें पांडवोंको कौरव नहीं पा सकते थे। विशेष कर, भीम, जो सबसे बली था, बड़ा उत्पाती था और मौके बेमौके कौरवोंको खूब तंग करता था। पांच पांचको बगलमें दबाकर नदीमें गोता लगाता और जब उनका दम घुटने लगता तो छोड़ देता। उसी प्रकार जब कौरव पेड़पर चढ़ते तो यह जवान नीचे से पेड़को पकड़ कर इस जोरसे हिलाता कि कौरव पटापट नीचे गिर पड़ते थे। इस तरह एक नहीं अनेक प्रकारसे वह इन्हें तंग करता था। इससे कौरव, विशेष करके दुर्योधन बचपनसे ही पांडवोंसे, खासकर भीमसे मनही मन कुढ़ा करता था। एक दिन उसने जलक्रीड़ाके निमित्त गंगा किनारे जानेका निश्चय किया और पांडवोंको भी वहां बुलाया। नदीतीरके बागमें भोजनका प्रबन्ध हुआ। वहां भीमको जो थाली परोसी गयी थी उसमें दुर्योधनने कालकूट विष मिला दिया था, इसलिये कि भीम किसी प्रकारसे मर जाय तो पीछा छूटे। भीमका हृदय स्वच्छ था—उसे क्या सन्देह होने लगा? उसने खूब भोजन किया। भोजनके पश्चात् सब लोग नदीमें उतरे। बहुत देरतक तैरने के बाद निकल आये और कपड़े पहिनकर रातको वहीं बागमें सो रहे। परन्तु भीमपर विषने असर किया और वह वहीं तटपर पड़ा रहा। दुर्योधनने मजबूत बेलियोंसे उसकी गठरी कसके बाध कर उसे नदीमें ढकेल दिया और आप भी बागमें चला आया। दुसरे दिन सबेरे कौरव घर आये; परन्तु पांडव भीमका दृढ़ने

लगे । उन्होंने बागमें, नदीकिनारे और आस पास चारों तरफ तलाश किया पर कहीं पता नहीं चला ! आखिर यह सोचकर कि वह शायद घर चला गया हो, घर आये । पर जब वहाँ भी न देखा तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ । कुन्तिके शोकका तो पारावार न रहा । उसे विदुरने समझाया कि भीमके आयुकी डार बहुत मजबूत है-कहीं न कहीं वह सुरक्षित है इसमें सन्देह नहीं । और वास्तवमें ऐसाही हुआ । दुर्योधनने जब उसे ढकल दिया तो वह नीचे थाहमें जा बैठा । वहाँ बड़े बड़े सांपोंने उसे डंस लिया जिससे ' विषस्य विषमौषधम् ' के अनुसार उसका विष उतरा । जब वह होशमें आया तो सारी कथा उसे याद आयी और एकवार अपने पितामह वासुकि के यहाँसे अमृत पान करके घर चला आया । उसने सारी कथा युधिष्ठिरको कह सुनायी । युधिष्ठिरने दुर्योधनकी इस करतूतको छिपा रखनेकी सलाह दी । इसके बाद फिर एकवार दुर्योधनने भीमके भोजनमें विष मिलाया था । पर उसका उसपर कुछ भी असर न हुआ क्योंकि वासुकीके यहाँ उसने अमृत पीया था । ईश्वरकी कृपा होती है तो इसी प्रकारसे विषका अमृत होता है ।

इस प्रकार उधमउन्पातमें दिन बीत जाना अनुचित समझकर धृतराष्ट्रने इन सबको कृपाचार्यके पास धनुर्विद्या सीखनेके लिये भेज दिया । कुछ काल पश्चात् द्रोणाचार्यके हस्तलाघवकी विख्याति सुनकर भीष्मने उन्हींको इन वालकोंको अस्त्रविद्या सिखानेके लिये नियुक्त किया । अर्जुनकी बुद्धिमत्ता, ग्राहकशक्ति और चतुर्य देखकर द्रोणाचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए । अर्जुन वारुणास्त्रकी परीक्षामें उत्तीर्ण हुआ ; उसने अंधेरेमें निशाना मारनेका अभ्यास करके ' शब्दवेधित्व ' हस्तगत किया । अस्त्र-निक्षेपके समय अर्जुनकी एकाग्रता पूर्ण हुआ करती थी । इन सब

बातोंसे आचार्य प्रसन्न थे। एक बार गंगास्नान करते हुए द्रोणाचार्यका पैर किसी घड़ियालने पकड़ लिया। उस समय अर्जुननेही अपने शब्दवेधित्वका उपयोग करके पानीमें तीर छोड़ा और घड़ियालको जानसे मार डाला। एक दिन अपने शिष्योंका कौशल भीष्म, भृतराष्ट्र आदिको दिखलानेकी इच्छासे द्रोणाचार्यने नगरके बाहर एक बड़ी रंगभूमि तैयार करायी। वहां सब राजपुत्रोंने अपना अपना युद्धकौशल दिखलाया। दुर्योधन और भीमके बीच गदायुद्ध हुआ। जब दोनों ही जान लड़ाकर लड़ने लगे तब द्रोणाचार्यने अश्वत्थामाको भेजकर उन्हें अलग कर दिया। अर्जुनके आते ही लोग जयघोष करने लगे। सब राजपुत्रोंसे इसकी विशेष कुशलता देखकर लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। परन्तु दुर्योधनादि कौरवोंकी द्वेषाग्नि इससे भभक उठने लगी। इसी बीच रणांगणमें कर्ण उतर पड़ा। उसने कहा;—“अर्जी, क्या डींग हांकते हो, तुमने जो जो काम कर दिखाये हैं वे मैं भी तुमसे अच्छी तरहसे कर दिखाता हूं।” यह कहकर अर्जुनके सारे कौशल उसने भी दिखा दिये। यह देखकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्जुनने कर्णसे कहा;—‘ तुम्हे तो यहां किसीने बुलाया नहीं था।’ कर्ण बोला;—‘ रंग भूमि सबके लिये एकसी है; जो चाहे, यहां आ सकता है। अगर कुछ मनमें हो तो बातोंसे नहीं, बाणोंसे कर दिखाओ!’ युद्ध नियमके अनुसार द्वंद्वयुद्ध होना निश्चय हुआ। परन्तु कृपाचार्यने कहा;—“जो स्वयं राजा नहीं है और जिसका जन्म हीन जातिमें हुआ है उसके साथ अर्जुन युद्ध न करेगा।” इसपर दुर्योधन बोला;—“केवल उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेसे ही किसीमें राजाकी योग्यता नहीं आती। राजाओंकी योग्यता जन्म, शौर्य और सेनापतित्व, इन तीन गुणोंसे समझी जाती है। अर्जुन यदि बिना राजवाले शत्रुिसे युद्ध करता

नहीं चाहता तो मैं अभी कर्णको अंगदेशका राजा बनाता हूँ ।” यह कहकर उसने वहीं उसे राज्याभिषेक कराया और कर्णने भी शपथ की कि मैं आजन्म कभी दुर्योधनका साथ न छोड़ूंगा । फिर भीमने भी कर्णको मर्मभेदी बातें कहीं जिससे युद्ध होनेमें सन्देह न रहा । पर सूर्यास्त हो जानेके कारण सब लोग अपने अपने घर चले गये ।

सब शिष्योंका अध्ययन पूर्ण होनेपर द्रोणाचार्यने उनसे गुरुदक्षिणा मांगी । उन्होंने उन्हें पांचाल देशपर भेजा और द्रुपद राजाको जीते जी पकड़ लानेकी आज्ञा दी ; क्योंकि राजमदसे उन्मत्त होकर उसने द्रोणाचार्यका (जो इसके गुरुबन्धु थे) अपमान किया था । पहिले कौरव चढ़ गये ; पर अर्जुन ही द्रुपद राजाका कैद कर ले आया । द्रोणने आधा राज्य उसे वापस देकर बिदा किया । अस्तु ।

सब भाइयोंमें युधिष्ठिर बड़े थे इसलिये धृतराष्ट्रने उन्हें युवराज कर अभिषेक किया । दुर्योधनके साथ ही भीम भी बलरामसे गदायुद्ध सीख रहे थे । नकुल भी चित्रयोधी और अतिरथीके नामसे विख्यात होने लगे । और अर्जुन तो धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ ही समझे जाते थे । सौवीर, यवनाधिपति और दाक्षिणात्य और पाश्चात्य राजाओंको पांडवोंने जीत लिया । यह सब दुर्योधनादि कौरवोंके हृदयमें बहुत ही सालता था । धृतराष्ट्र और कौरव सांचने लगे कि किस प्रकारसे पांडवोंका नाश हो । कणिक नामके एक धूर्तकी सलाहसे उन्होंने वारणावतमें लाखका घर तैयार किया और धृतराष्ट्रने पांडवोंसे कहा कि वारणावतमें महादेवजीका उत्सव है वहां तुम लोग भी कुन्तिके साथ जाओ । युधिष्ठिरके मनमें सन्देह अवश्य उत्पन्न हुआ था ; परन्तु बड़ोंकी आज्ञाके सामने शिर झुकाना ही चाहिये इसलिये पांडव वहां गये और

लाक्षागृहमें टिके । विदुरकी बुद्धिमानीसे पांडव वहांसे बचे । नहीं तो कौरवोंने उसमें आग लगा कर उन्हें जला डालना चाहा था । विदुरने समयपर ही युधिष्ठिरको सूचित किया कि ऐसी ऐसी बात है तो अन्दर ही अन्दर सुरंग खोदकर जंगलकी ओर रास्ता बना लो । ऐसा ही किया गया । जाते हुए भीमने घरमें आग लगा दी । जिस दुष्ट पुरोचन द्वारा वह मकान बनाया गया था वह उस समय वहीं सो रहा था ; और चार बाहरके लोग थे जिनमें एक स्त्री थी । दूसरे रोज सवेरे घर जल कर खाक हुआ और उसमें पांच लाशें पड़ी हुई देखकर सब लोगोंने यही समझा कि पांडव जल गये । धृतराष्ट्रने राजाके योग्य उनकी उत्तरक्रिया भी कर डाली । परन्तु पांडव वहांसे निकल कर जंगलमें आये । वहां भीमने हिंडिव नामक राक्षसका वध किया । वहांसे एकचक्रानगरीमें आये । वहांके लोगोंको बकासुर नामक राक्षस और उसके साथी बहुत ही सताया करते थे । भीमने इन्हें भी मार डाला । फिर पांचालदेशमें द्रौपदी नामी राजकन्याके स्वयंवरका समाचार पाकर पांडव वहां गये । इस समय वे ब्राह्मणवेशमें थे । वहां अर्जुनने, घूमते हुए चक्रके छिद्रमेंसे तीर पार करके मछलीको नीचे गिरा दिया । इस प्रकार स्वयंवरमें सफलकाम हो पांडव द्रौपदीके साथ वहांसे उठे । परन्तु क्षत्रियोंने युद्ध आरम्भ किया । अर्जुनने कर्णको और भीमने शल्यको परास्त किया । श्रीकृष्णने सबको समझाया कि उसने अपने पराक्रमसे द्रौपदीको पाया है—लडनं भिडनंका कोई काम नहीं । फिर एक अच्छे मुहूर्तपर पांडवोंसे द्रौपदीका विवाह भी हो गया ।

लाक्षागृहसे पांडव बच कर चले गये और ब्राह्मणवेशमें द्रुपदराजाके यहां जाकर उन्होंने द्रौपदीके स्वयंवरमें मत्स्यभेद भी किया यह सुनकर दुर्योधनादि कौरव अपने करम ठोकने लगे ।

दुर्योधन इस सोचमें डूब गया कि अब किस प्रकारसे इन पांडवोंका नाश हो । कर्णने एकदम द्रुपद देशपर चढ़ जाने और पांडवोंको गिरफ्तार करनेकी सलाह दी । पर भीष्म, द्रोण तथा विदुरकी सम्मति न पाकर धृतराष्ट्रने ऐसा न होने दिया । कौरवोंकी ओरसे विदुर द्रुपद राजाके यहां गये और उन्हें ले आये ॥ तब धृतराष्ट्रने पांडवोंसे और कौरवोंसे युद्ध न हो इसलिये पांडवोंको खांडवप्रस्थ प्रदेश दे दिया और कौरवोंको हस्तिनापुरमें रहकर राज्य करनेकी आज्ञा दी । उसके अनुसार पांडवोंने इन्द्र-प्रस्थ नगरी निर्माणकी और धर्म तथा न्यायपूर्वकवे राज्य करने लगे।

एक दिनकी कथा है कि पांडवोंके आयुधागारमें द्रौपदीके साथ धर्मराज एकान्तमें बैठे थे । ऐसे समय अर्जुनको यह आवाज सुनायी दी कि ' प्रजासे कर लेकर जो राजा उसके प्राण और सम्पत्तिकी रक्षा नहीं करता वह राजा अत्यन्त पापी है । ' यह सुनकर अर्जुनने अनुसन्धान किया तो उसे मालूम हुआ कि एक ब्राह्मणकी गौओंको चोर गुरा ले गये हैं जिससे दुखित होकर वह सहायताके लिये चिला रहा है । अर्जुन अपने शस्त्र लेनेके लिये आयुधागारमें जाने लगा; पर जब उसे मालूम हुआ कि वहां द्रौपदीके साथ धर्मराज एकान्तमें बैठे हुए हैं तो थोड़ी देर बड़े सोचमें पड़ा कि अब प्रजापालन करें या धर्मराज-द्रौपदीका एकान्त भंग करनेके पापसे बचें । पांडवोंने द्रौपदीके विषयमें यह तै किया था कि पांडवोंमेंसे प्रत्येक भाई द्रौपदीके साथ सालमें २ महीने और १२ दिन संबध रखा करे और यदि एक भाईके द्रौपदीके साथ एकान्त करते हुए दूसरा भाई वहां जाय तो वह १२ वर्ष वनवास करे । परन्तु अर्जुनने सोचा कि क्षत्रियके लिये सब कर्त्तव्योंसे प्रजाका पालन और दुष्टोंका

नाश ही श्रेष्ठ कर्तव्य है; उसे करते हुए कैसी ही विपत्ति क्यों न झेलनी पड़े, क्षत्रियको उसे झेलना ही चाहिये । यह सोचकर वह वेखटके अन्दर चला गया और अपने शस्त्र लेकर ब्राह्मणकी रक्षाके लिये दौड़ गया । ब्राह्मणकी गौओंको लौटा लाकर उसने चारोंको दंड दिया । वापस आकर उसने युधिष्ठिरसे कहा कि मैंने नियम भंग किया है इसलिये १२ वर्ष वनवास करूंगा । धर्मराजने कहा, 'कोई हरज नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम वनमें जाओ ।' परन्तु अर्जुनने कहा, नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा । आपहीने मुझे उपदेश दिया है कि " धर्म, सत्य, प्रतिज्ञा और वचनका पालन करनेका अवसर आनेपर कोई बहाना ढूँढ़कर टालमटोल करना क्षत्रियका काम नहीं " यह कहकर वह वनमें चला गया । इस वनवासमें उसने सब तीर्थोंके दर्शन किये और देशाटण करते हुए चित्रांगदा और श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रासे विवाह कर लिया । अन्तमें खांडववनको जलानेमें अग्निकी सहायता करके मयासुर नामक एक अत्यन्त कुशल शिल्पीके साथ राजधानीको लौट आया । इसी मयासुरने नाना देशोंसे तरह तरहके पत्थर और रत्न लाकर इन्द्रप्रस्थमें पांडवोंके लिये एक अत्युत्तम सभागृह तैयार कर दिया ।

सभागृह तैयार होनेपर उसके प्रवेश-समारंभके लिये युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण और देशदेशान्तरके राजाओंको निमन्त्रित किया और बड़ी धूमधामसे समारंभ समाप्त होनेपर राजा युधिष्ठिर नारदजीके उपदेशसे राजसूय यज्ञ करनेका विचार करने लगे । श्रीकृष्णने भी इसमें पूर्ण सम्मति दी । पहिले जरासन्धको मार

कर पांडवोंने चारों दिशाओंके राजाओंको जीत लिया। फिर राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ जिसमें स्वयं व्यासजीने ब्रह्माका काम किया था। यज्ञमें अग्रपूजा श्रीकृष्णकी हुई यह देखकर शिशुपालको बड़ा क्रोध आया और उसने यज्ञभंग करनेकी चेष्टा की परन्तु श्रीकृष्णने उसका वध कर यज्ञका कार्य निर्विघ्न समाप्त किया। धर्मराजको सार्वभौम सम्राटकी पदवी प्राप्त हुई। इस प्रकार यज्ञ समाप्त होनेपर सब ब्राह्मण तथा राजा लोग अपने अपने घर गये। जाते हुए व्यासजी कह गये थे कि,

दुर्योधनापराधेन भीमार्जुनबलेन च ॥

त्वमेकं कारणं कृत्वा कालेन भरतर्षभ ॥

समेतं पार्थिवं क्षत्रं क्षयं यस्यति भारत ॥

तुम्हारे निमित्तसे, दुर्योधनके अपराधसे और भीम तथा अर्जुनके पराक्रमसे कुछ समयमें इन सब राजाओं और क्षत्रियोंका संहार होने-वाला है। यह सुन धर्मराज बहुत उदास हुए और तबसे उन्होंने निश्चय किया मैं शत्रु-मित्रका भेद-भाव न रखूंगा और किसीसे कटुवचन भी न कहूंगा।

यज्ञ समाप्त होनेके बाद दुर्योधन सभागृह देखनेके निमित्त वहां रह गया था। शोभा देखता हुआ वह घूम रहा था—कहीं स्फटिकके फर्शको देखकर उसने समझा कि यहां जल है और अपनी धोतीको ऊपर कर लिया और कहीं जलको देखकर स्फटिक भूमिके भ्रमसे उसमें गिर पड़ा ! बन्द किया हुआ स्फटिकका दरवाजा खुला जान कर वह अन्दर जाने लगा तो उसका शिर उससे टकरा गया ! खुले दरवाजेको बन्द समझ कर खोलनेकी चेष्टामें उसे दंडवत ही करना पड़ा ! उसकी दशा देखकर भीम अर्जुन आदि पांडव और द्रौपदी आदि उनकी स्त्रियां भी हंस पड़ीं। इस हंसीने उसकी छातीमें घर कर लिया।

पांडवोंकी सम्पत्ति, कीर्ति, वैभव, भिन्न भिन्न राजाओंसे मिली हुई भेंट और अपना बुरा हाल देखकर डाहसे उसकी छाती जल उठी। उसने अपने मामा शकुनसे कहा भी कि अगर यह सारी सम्पत्ति मुझे किसी न किसी उपायसे न मिली तो मैं आत्महत्या करूंगा। मामाने दिलासा देकर कहा, - " धर्मराज द्यूतके खेलाडी हैं पर ऐसे पटु नहीं हैं। पर द्यूतके लिये बुलाया जाय तो नहीं न करंगे। इस दाममें अगर वे फंसे तो फिर मार लिया है। " फिर हस्तिनापुरमें आकर दुर्योधनने धृतराष्ट्रको अपने अनुकूल बना लिया और पांडवोंको द्यूतके निमित्त बुला भेजा। युधिष्ठिर द्यूत खेलनेके आह्वानसे कभी पीछे नहीं हटते थे। समयपर पांडव आ गये और जुआ शुरू हुआ। इस जुएमें युधिष्ठिर अपनी सारी सम्पत्ति, राज्य और अन्तमें अपने भाई और सती द्रौपदी भी हार गये। द्रौपदीको केश पकड़कर दुःशासन कौरवोंकी सभामें ले आया! द्रौपदीको दासी कहकर बार बार पुकारने लगे! दुर्योधनने उसे अपनी पालथीपर बैठनेके लिये कहा! दुःशासन उसकी धोती उतारने लगा। परन्तु भगवान श्रीकृष्णने द्रौपदीकी लाज रखी यह कथा हिन्दूमात्रको ज्ञात है। भीमसेनने प्रतिज्ञा की कि मैं दुर्योधनकी इस पालथीको अपने गदासे चूर्ण न करूं और इन कौरवाधमोंके वक्षस्थल विदीर्ण करके उनका रक्त प्राशन न करूं तो मुझे रौरव नरक प्राप्त हो सभी पांडवाने अपने अपने मनमें विचार कर रखा था कि समय आनेपर इसका बदला अच्छी तरहसे लिया जायगा। अन्तमें धृतराष्ट्रको भय हुआ कि इसका परिणाम अनिष्ट होगा; इसलिये उसने द्रौपदीको समझाना आरंभ किया और वर मांगनेके लिये कहा। द्रौपदीने पहला वर यह मांगा कि धर्मराजको दासत्वसे मुक्त कीजिये। जब धृतराष्ट्रने फिर दूसरा वर मांगनेके लिये कहा तब द्रौपदीने " अब सब पांडवोंको

रथ और शस्त्रास्त्रके साथ मुक्त कीजिये ” यह वर मांगा । तीसरा वर मांगनेके लिये भी जब धृतराष्ट्रने कहा तब द्रौपदी बोली “ क्षत्रिय दोसे अधिक वर नहीं मांगते ; मेरे पति दास्य-मुक्त होकर और सब अपने पराक्रमसे ही प्राप्त करेंगे । ” इस प्रकार दास्यमुक्त होकर पांडव सोचने सगे कि अब क्या करना चाहिये । भीमसेनने कहा:—“ अभी मैं इन शत्रुओंका संहार जिये डालता हूँ ; फिर धर्मराज सुखसे पृथ्वीका राज्य करें । परन्तु धर्मराजको यह बात पसंद न आयी । वे धृतराष्ट्रके समीप गये और नमस्कार करके उन्होंने कहा, “ अब क्या आज्ञा है ? चाहे कुछ भी हुआ हो, आपकी आज्ञाके पालनमें हम लोग कभी न वूकेंगे । ” इसपर धृतराष्ट्रने कहा—“ जाओ अब इंद्रप्रस्थमें जाकर सुखपूर्वक राज्य करो । दुर्योधनके अपराध मेरे लिये क्षमा करो । ” इतने परिश्रम और चातुर्यसे प्राप्त किया हुआ राज्य इस बुढ़ेने एक क्षणमें दे दिया यह देख कर कौरवोंको चिन्ता पड़ी । अब तो पांडवोंको इस प्रकार छोड़ना सांपको पालना है यह सोचकर उन्होंने फिर उन्हें घृतके लिये बुलाया । इस बार यह शर्त हुई कि जो हारेगा वह १२ वर्ष वनवास और १ वर्ष अज्ञात वास करे । पांडव हारे । उन्होंने अपने राज वस्त्र उतार कर बलकल पहिने और बनका मार्ग लिया । सबके आगे युधिष्ठिर, उसके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव, द्रौपदी और धौम्य इस क्रमसे वे राह चलने लगे । भीमने अपने हाथोंसे आंखें बन्द की थीं, भीम अपनी भुजाओंको देख रहा था, अर्जुन मार्गपर बराबर बालू फेंकता हुआ चल रहा था, सहदेवने अपने मुंहमें कारिख पोत लिया था, नकुलने सारे शरीरमें मट्टी लगा ली थी, द्रौपदी केश छोड़कर और उन केशोंसे अपने मुंह छिपाकर रोती हुई चल रही थी; और धौम्य उत्तर-

क्रियाके याम्य सामंन्त्र पढ़ रहे थे ! इसका मतलब विदुरने धृतराष्ट्रको समझाया कि अपनी ऋधकृष्टिसे कौरव जलकर खाक न हो जायं इसलिये धर्मराजने आंखें बन्द कर ली थीं, सतीको सताकर राज्य छीननेवाले शत्रुओंके दांत खट्टे करनेका अवसर इन भुजाओंको कब प्राप्त होगा इस सोचसे भीम अपनी भुजाओंको देख रहा था, बालूके कर्णोंके समान असंख्य बाणोंसे युद्धमें शत्रुओंको जर्जर करनेका संकल्प दिखलानेके लिये अर्जुन बालू फेंक रहा था, इस संकटमें मुझे कोई न पहचाने इसलिये सहदेवने कारिख पोत लिया था, राहमें अपने सौन्दर्यको देखकर स्त्रियां मुग्ध न हों इसलिये नकुलने शरीरमें मट्टी लगा ली थी, जिस प्रकार मैं इस समय रोती हुई जा रही हूं वैसी ही कौरवोंकी स्त्रियां अपने पुरुषोंके मुँह गिरनेपर छाती पीटती हुई जायंगी यह दिखलानेके लिये द्रौपदी केशोंसे मुँह छिपाकर रो रही थी, और युद्धमें कौरवोंका वध होनेपर उनकी दहनक्रियामें ये मन्त्र पढ़े जायंगे यह बतलानेके लिये धौम्य याम्य सामंन्त्र पढ़ रहे थे । वनवासके लिये जिस समय पांडवोंने प्रस्थान किया उस समय धरती माताने भी नाना प्रकारके अशुभोंसे अपना शोक प्रकट किया । नारद ऋषि भी आकर धृतराष्ट्रसे कह गये कि दुर्योधनके अपराधसे सारे कौरवों और क्षत्रियोंका युद्धमें संहार होगा ।

पांडव बनको जाने लगे तो उनके साथ अनेक प्रजाजन भी हो लिये थे । पांडवोंको बड़ी चिन्ता पड़ी कि इन सबको जंगलमें हम लोग कहाँसे भोजन देंगे । धर्मराजने एक ऋषिके उपदेशसे सूर्य देवकी उपासना की जिस्से सूर्यदेवने प्रसन्न हो कर उन्हें एक थाली दी जिसका यह गुण था कि उस थालिमेंसे जबतक द्रौपदी (अपने भोजन करनेसे पूर्व) परोसती रहेगी तबतक

बराबर सबको भोजन मिलता जायगा । इससे बड़ा काम हुआ । इस थालीने बार बार पांडवोंको अतिथि-सत्कारमें सहायता दी । इस प्रकार स्थान स्थानपर ब्राह्मणों और ऋषियोंका सत्कार करते हुए काम्यक, द्वैत आदि बनोंमें पांडव घूमते रहे । समय समय श्रीकृष्ण भी दर्शन दे जाते थे जिससे उन्हें जंगलमें मंगलका अनुभव हुआ करता था । वनमें आकर ही व्यासजीने धर्मराजको प्रतिस्मृति नामकी अस्त्रविद्या सिखा दी । बीचमें अर्जुन इन्द्रके यहां अस्त्र लेने गया था । अमरावतीमें जाकर इन्द्रके शत्रुओंका मारकर अर्जुनने अपना पराक्रम दिखाया । इन्द्रने एक बार उसके सत्वकी परीक्षा करनेकी अभिलाषासे रातके समय उर्वशी नामकी अप्सराको उसके पास भेज दिया । उर्वशी अर्जुनके सौन्दर्यपर मुग्ध थी परन्तु अर्जुनने उसे यही उत्तर दिया कि तुम मुझे मेरी माताके सामान पूज्य हो । इसलिये पापकार्यसे मेरी रक्षा करो और अपने आश्रमको चली जाओ ! अर्जुनके इंद्रियसंयमको देखकर इन्द्र बहुत ही प्रसन्न हुआ । सदाके लिये इन्द्र उसका मित्र हो गया और समय समयपर उसने उसकी सहायता भी की । इधर पांडव प्रवासके कष्टोंको झेलते हुए काल व्यतीत कर रहे थे । कई वर्ष बीतनेपर भी जब अर्जुन नहीं आया तो उन्हें चिन्ता पड़ी । परन्तु स्वर्गसे लोमश ऋषिने आकर सब वृत्तान्त कह सुनाया तो वे निश्चिन्त हुए । तब पांडवोंने सब तीर्थोंकी यात्रा की और नाना प्रकारके ऋषि-आश्रमोंका दर्शन करते हुए कभी जंगलोंमें, कभी पर्वतोंपर और कभी नदी या सरोवर के किनारे रहने लगे । अर्जुन निवात, कवच, कालखज आदि राक्षसोंको मार कर देवकार्यमें कृतकृत्य हो इन्द्रके रथमें बैठ गन्धमादन पर्वतपर अपने भाइयोंसे आ मिला । शंकरका पाशुपतास्त्र, और इन्द्रका वज्रास्त्र लेकर अर्जुनको सकुशल लौटे देखकर पांडवोंको

अत्यन्त दुःख । अथतक पांडवोंने बनवासमें ११ वर्ष बिताय थे ।

इधर दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि और कर्ण यह चांडाल चौकड़ी राज्य पाकर ही सन्तुष्ट न हो भनाथ पांडवोंको अपना वैभव दिखाकर उन्हें और दुखित करना चाहती थी । एक बार इसी विचारसे दुर्योधन, कर्ण आदि घोषयात्रापर निकले और जिस नदीके समीप पांडवोंका आश्रम था उसी नदीमें जलक्रीडा करने गये । वहां चित्रसेन गन्धर्व अपनी अप्सराओंके साथ जलक्रीडा कर ही रहा था । इस लिये और गन्धर्वोंने उन्हें धिक्कारा और लौट जानेके लिये कहा । इस अपमानको न सहकर दुर्योधनने युद्ध ठाना । पर युद्धमें कर्णको भागना पड़ा और चित्रसेनने दुर्योधनादिको उनकी स्त्रियोंके साथ कैद कर लिया ! ठीक है, बबूरका बीज बनेसे कहीं आम फलते हैं ? अस्तु, यह हाल कौरवोंके मंत्रियोंने धर्मराजसे कहा तब पांडवोंने उन्हें मुक्त किया । स्त्रियोंके सामने इस प्रकार अपना अपमान होनेसे दुर्योधन जीवनसे निराश हो आत्महत्यापर उतारू हो गया । परन्तु कर्ण उसे समझा कर और यह प्रतिज्ञा करके कि मैं अर्जुनका वध करूंगा, उसे ठिकाने ले आया । कौरवोंने फिर विष्णुयाग नामका यज्ञ भी किया जिसमें युधिष्ठिरको भी उन्होंने बुलाया था । परन्तु युधिष्ठिरने अपनी सहानुभूति मात्र भेज दी । भीमने तो यह संदेशा भेजा कि अब मैं उसी रणयज्ञमें आऊंगा जिसमें शस्त्रोंके घर्षणसे अग्नि उत्पन्न की जायगी । दुर्योधनने दुर्वास ऋषिकों प्रसन्न करके उन्हें पांडवोंका सत्व हरण करनेके लिये भेजा था । परन्तु दुर्वासा ही भयभीत होकर भाग गये । इसीके कुछ काल उपरान्त जब कि पांडव आश्रममें नहीं थे सिन्धुदेशके राजा जयद्रथने द्रौपदीपर बलान्कार करनेकी चेष्टा की । पांडवोंने आकर उसकी सेनाको भगाकर उसे कैद कर लिया पर धर्मराजके कहनेसे उसे जीवदान

दिया गया। इस प्रकार नाना संकटोंको झेलते हुए पांडवोंने बारह वर्ष पूरे किये।

वनवास समाप्त होनेपर अज्ञातवास आरंभ हुआ। विराट राजाके यहां द्रौपदी और पांचों पांडव एक एक करके भेष बदल कर आये। युधिष्ठिरने आकर कहा कि, 'मैं राजा युधिष्ठिरका मित्र हूं, मेरा नाम कंक है और मैं द्यूत-विद्यामें निपुण हूं-आपको आपके राज्यकार्यमें परामर्श देनेका काम भी कर सकता हूं।' राजाने कंकको अपना मंत्री बना लिया। भीमने आकर कहा:- "मैं रसाई बनानेमें कुशल हूं। इसके अतिरिक्त जंगली, मस्त ब्रैल तथा मौकेपर पहलवानोंसे कुदती करता हूं।" द्रौपदी सैरिन्धी बनकर विराटपत्नी सुदेष्णाके पास गयी। अर्जुनने स्त्री भेषमें आकर कहा कि, 'मैं बृहन्नडा हूं।' उसे राजाने नगरकी स्त्रियोंको संगीतविद्या सिखलानेके कामपर नियुक्त किया। नकुल और सहदेव 'ग्रन्थिक' और 'तन्तिपाल' नाम धारण कर गंगशाला और अश्वशालापर मुख्य नियुक्त हुए। सभी अपने अपने काममें अपूर्व कौशल दिखलाया करते थे और इस प्रकारसे अज्ञातवासका काल समाप्त होनेके कुछ ही पहिले सैरिन्धीपर बलात्कार करनेकी चेष्टा करनेके कारण रानीका धर्मभार्थ कीचक भीमके हाथों मारा गया।

इसी अवसरपर मत्स्यदेशके राजा सुशर्माने एक तरफसे और कौरवोंने दूसरी तरफसे विराटकी राजधानीपर आक्रमण किया। पहिले सुशर्माकी चढ़ाई हुई। उससे सामना करनेके लिये विराट सेना लेकर आगे बढ़ा। घोर युद्ध हुआ। सुशर्माने विराटको पकड़ कर कैद किया पर धर्म, भीम, नकुल और सहदेव उसकी सहायताके लिये दौड़े और भीमने सुशर्माको हराकर विराटको छुड़ाया। उसी प्रकार उग्र बृहन्नडाने (अर्जुन) कौरवोंकी चढ़ाईका

सामना लेनेके लिये विराटपुत्र उत्तरका सारथ्य करनेके बहाने दुर्योधन, कृप, द्रोण, अश्वत्थामा और अन्तमें भीष्मको भी पराजित किया और कौरवोंका मार भगाया । अबतक विराटको यह नहीं मालूम हुआ कि येही पांडव हैं । युद्धके तीसरे दिन, अज्ञातवासका काल समाप्त हो जानेसे, पांडवोंने अपने कपड़े बदले और विराटको अपना परिचय दिया । इसके बाद विराटराज्य और हस्तिनापुरके बीचकी सीमापर उपप्लव्य नामक नगरमें आकर पांडव रहने लगे । अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचों पुत्र तथा श्रीकृष्ण, सुभद्रा, तथा द्रुपद भी यहां आगये । यहीं विराटकी प्रार्थनासे उसकी बेटी उत्तराके साथ अभिमन्युका विवाह हुआ ।

अब श्रीकृष्ण और पांडव इस बातका विचार करने लगे कि इन्द्रप्रस्थका राज्य किस प्रकार मिलेगा । कौरव नीचता करके उसे हड़प जाना चाहते हैं । बचपनसे ही उन्होंने पांडवोंसे बैर किया है । बेइया होकर उन्होंने द्रौपदीका भी सभामें अपमान किया है । इत्यादि बातें सोचनेसे यह आशा नहीं होती कि कौरव पांडवोंका राज्य उन्हें लौटा देना चाहेंगे । परन्तु भरसक सीधी राहसे ही काम निकालना उचित समझ कर उन्होंने कौरवोंसे पहिले राज्य मांगना और यदि उन्होंने यह स्वीकार न किया तो युद्ध करके राज्य ले लेना ही उन्होंने ठान लिया । इसकी तैयारी होने लगी । श्रीकृष्ण और राजा द्रुपद समयोचित परामर्श दे अपने अपने नगरको गये । पांडवोंने युद्धके समय सहायताकी आशासे सब राजाओंके पास दूत भेजे । द्रुपदने पांडवोंकी ओरसे सन्धिकी बातें करनेके लिये अपने पुरोहितको कौरवोंकी सभामें भेजा । पुरोहितने वहां जाकर पांडवोंका संदेशा कहा जिसका कुछ भी स्पष्ट उत्तर नहीं आया । परन्तु धृतराष्ट्रने संजयको पांडवोंके पास इसलिये भेजा कि वे उन्हें जाकर युद्धसे विमुख करें । पांडवोंने

उनसे कहा:-“ हम भी तो यही चाहते हैं कि युद्ध न हो । सती द्रौपदीका अपमान, घृतका कपट, वनवास आदि सब भूल जानके लिये तैयार हैं यदि हमें हमारा राज्य मिले अथवा कमसे कम पांच भाइयोंको पांच गांव ही मिल जायं । परन्तु दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण और शकुनि इस चांडाल चौकड़ीको न्याय तो मालूम ही न था ! उन्होंने उत्तर दिया कि हम सुईकी नोकके बराबर भी जमीन देनेके लिये तैयार नहीं हैं चाहे युद्धमें हमारे प्राण भले ही चले जायं । भीष्म, द्रोण, विदुर आदि नीतिज्ञोंने कई प्रकारसे समझाया कि पांडवोंकी तरफ न्याय और धर्म है; अब उनको सताना छोड़ो, नहीं तो तुम्हीं लोगोंका सर्वनाश होगा । पांडवोंकी तरफ श्रीकृष्ण हैं; भीम और अर्जुन भी बड़े बली हैं—उनसे लड़कर जीतना असंभव है । पर दुर्योधन और कर्णको अपनी बीरताका बड़ा गर्व था । उस गर्वके मारे अन्धे होकर उन्होंने श्रीकृष्णकी निन्दा की, पांडवोंको मनमाना भला बुरा कह डाला और भीष्म जीकी भी निर्भत्सना की । ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धिः’ होती है । तब पांडवोंने देखा कि इन दुष्टोंमें सुबुद्धि नहीं उत्पन्न होती तो अन्तमें श्रीकृष्ण स्वयं कौरव सभामें आये और वहां उन्होंने बड़े गंभीर स्वरसे धृतराष्ट्रको, दुर्योधनको और मारे सभासदोंको पांडवोंके पराक्रमका वर्णन करते हुए सन्धि करनेका उपदेश दिया । परन्तु दुर्योधनने न माना । उसने कहा कि युद्धमें चाहे मर मिटूंगा पर पांडवोंको राज्य न दूंगा । इसपर श्रीकृष्णने क्रुद्ध होकर कहा कि अच्छा तुझे अगर मिट्टीमें ही मिलना है तो तेरा यह हौसला भी पूरा होनेमें देर नहीं । धृतराष्ट्र और गान्धारीने भी उसे समझाया । पर वह किसीका जवाब न देकर सभासे उठकर चला गया । चांडाल चौकड़ीने फिर श्रीकृष्णको ही कैद करके पांडवोंका बल तोड़ डालना चाहा । उनका यह विचार जब

श्रीकृष्णको मालूम हुआ तो उन्होंने सभामें ही इन बातोंपर हंसकर कहा कि दुर्योधन मेरा क्या कर सकता है। मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे सब सहायक मेरे साथ हैं यह शायद दुर्योधन नहीं जानता। वह यदि मुझे पकड़नेका साहस करेगा तो आगमें पतंगकी तरह जल कर एक क्षणमें भस्म हो भस्म हो जायगा। इस समय श्रीकृष्णके शरिरसे विद्युत्का अपूर्व तेज निकल रहा था जिसे देख सारे सभासद मुग्ध हो गये। अन्तमें अब युद्धके बिना दूसरा उपाय नहीं रहा यह कह श्रीकृष्ण सभास्थानसे उठकर अपने रथपर सवार हो कर्णको साथ ले नगरके बाहर चले। राहमें कर्णको उन्होंने अपनी तरफ कर लेनेका प्रयत्न किया परन्तु कर्णने कहा कि अब ऐसा करना कृतघ्नता हांगी। उसे अपनी पूर्व कार्य-बाहीपर पश्चात्ताप हुआ। पर अर्जुनसे बदला लेनेका स्मरण उसे अभी था। अस्तु, श्रीकृष्णने उसे कहा कि द्रोण, भीष्म, कृप और धृतराष्ट्रसे जाकर कह दो कि आजके सातवें दिन अमावस्याको युद्ध आरम्भ हांगा। कर्ण श्रीकृष्णको नमस्कार कर विदा हुआ।

श्रीकृष्णने उपप्लव्य नगरमें पाण्डवोंके पास आकर सब वृत्तान्त कह सुनाया और युद्धकी तैयारी करनेके लिये कहा। पाण्डवोंकी सहायताके लिये ७ अश्वौहिणी सेना एकत्र हुई थी। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीम सात योद्धा सात अश्वौहिणीके सेनापति हुए। इनका मुख्य सेनापति किसे बनाना चाहिये इस विषयमें बहुत भवति न भवति होनेके पश्चात् श्रीकृष्णके कहनेसे द्रौपदीका माई धृष्टद्युम्न सेनापति हुआ। उधर कौरवोंके पक्षमें ११ अश्वौहिणी सेना एकत्र हुई जो पहिले हीसे कुरुक्षेत्रके मैदानमें आकर डट गयी थी। इसके प्रधान सेनानायक सबकी सम्मतिसे भीष्मजी हुए। भीष्मजी सत्यके पक्षपाती थे इसलिये पाण्डवोंकी जीत चाहते थे। परन्तु कौरवोंका नमक खाया था इस

लिये उन्हींके कार्यमें देह अर्पण करना उस मनस्वी बालब्रह्मचारीने उचित समझा और इसी विचारसे द्रोण, विदुर और कृप भी कौरवोंसे इस अवसरपर अलग नहीं हुए। अस्तु। इस प्रकारसे उस खूनकी प्यासी रणभूमिपर दोनों ओरकी सेनाएं आ पहुंचीं। पांडव सेनाका मुख पूर्व ओर था और कौरवसेनाका पश्चिम ओर। चारों ओर युद्ध ही युद्धका चित्र दिखायी देने लगा। हाथियोंकी गर्जना, घोड़ोंकी हिनहिनाहट, योद्धाओंके सिंहनाद, धनुष्योंका झंकार, भेरी, नगारे, शंख आदि वाद्योंके गंभीर ध्वनिसे कुम्भक्षेत्र गूंजता रहा।

इस युद्धको देखनेके लिये व्यासजी धृतराष्ट्रको दिव्य दृष्टि देना चाहते थे। परन्तु सारा जन्म अंधे रहकर अब सबका सर्वनाश देखनेके लिये दिव्य दृष्टि लेकर मुझे क्या करना है यह कह कर धृतराष्ट्रने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि मुझे किसी प्रकारसे युद्धके समाचार मालूम हो जाया करे इतना ही मैं चाहता हूं। इसलिये व्यासजीने संजयको दिव्यदृष्टि दी और यह वर दिया कि युद्धमें जो जो कुछ होगा वह सब तुम्हें दिखायी देखा। संजयने युद्धके समाचार धृतराष्ट्रको सुनानेका काम अपने ऊपर ले लिया। युद्धमें जय किसकी होगी इस विषयमें व्यासजीने यही गाय दी कि—

यतो धर्मस्ततो जयः ।



श्रीमद्भगवद्गीता ।

प्रथमोऽध्यायः ।

धृतराष्ट्र उवाच ।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥

संजय उवाच ।

दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ १ ॥

पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।

युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।

पुरुजित्कुतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥

युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।

नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः ।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।
 नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥
 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
 पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥
 अयनेषु च भवेषु यथाभागमवस्थिताः ।
 भीष्ममेवाभिरक्षंतु भवंतः सर्व एव हि ॥ ११ ॥
 तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।
 सिहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥
 ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
 सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥
 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महाति स्यंदने स्थितौ ।
 माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥
 पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः ।
 पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥
 अनंतविजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
 नकुलः सहदेवश्च सुधोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥
 काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ।
 धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥
 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
 सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥
 स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यहृदारयत् ।
 नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥
 अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।

प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

अर्जुन उवाच ।

मेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥
यावदेतान्निरीक्षऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।
कैर्मया सह योद्धुव्यमस्मिन् नृणसमुद्यमे ॥ २२ ॥
योत्स्यमानानवेक्षऽहं य एतऽत्र समागताः ।
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

संजय उवाच ।

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।
मेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् ।
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥
तत्रापश्यात्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् ।
आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन् पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥
श्वशुरान्मुहृदश्चैव मेनयोरुभयोरपि ।
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्वंधूनवस्थितान् ॥ २७ ॥
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ।

अर्जुन उवाच ।

दृष्ट्वेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥
सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥
गांडीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ।

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥
 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
 न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥
 न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
 किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥
 येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
 त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥
 आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।
 मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥
 एतान्नहंतुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन ।
 अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महिकृते ॥ ३५ ॥
 निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
 पापमेवाश्रयेदस्मान्हृत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥
 तस्मान्नार्हा वयं हंतुं धार्तराष्ट्रान्स्वबांधवान् ।
 स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥
 यद्यप्येत न पश्यंति लोभोपहतचेतमः ।
 कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥
 कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।
 कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥
 कुलक्षये प्रणश्यंति कुलधर्माः मनातनाः ।
 धर्म नष्टे कुलं कृत्स्नमर्धोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥
 अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्रियः ।
 स्त्रीषु दुष्टासु वाष्पेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥

संकरो नरकायैव कुलधनानां कुलस्य च ।
 पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥
 दौषैरेतेः कुलधनानां वर्णसंकरकारकैः ।
 उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माञ्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥
 उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
 नरके नियतं वामो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥
 अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।
 यद्राज्यमुखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥
 यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।
 घातैरापद्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षमतरं भवेत् ॥ ५६ ॥

संजय उवाच ।

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।
 विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीतमूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥४॥

द्वितीयोऽध्यायः ।

संजय उवाच ।

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।
 विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।
 अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

कैवल्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्ये ।

क्षद्रं हृदयदौर्बल्यं सक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच ।

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिमूदन ॥ ४ ॥

गुरुनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

हत्वार्थकामांस्तु गुरुन्निहैव भुञ्जीय भोगान्नुधिरप्रदिग्धान् ॥५॥

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

यानव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥६॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूहचेताः ।

यच्छ्रेयःस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मेशिष्यस्तेऽहंशाधिमां त्वां प्रपन्नम् ॥७॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् । यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावमपत्नमृद्धं । राज्यं सुगणामपि चाधिपस्यम् ॥८॥

संजय उवाच ।

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप ।

न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

तमुवाच हृषीकेशः प्रहमन्निव भारत ।

मेनयोरुभयोर्मध्ये विपीदंतमिदं वचः ॥ १० ॥

श्रीभगवानुवाच ।

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।

गतामूनगतासूंश्च नानुशोचंति पंडिताः ॥ ११ ॥

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
 तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥
 मात्रास्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्णसुखदःखदाः ।
 आगमापायिनोऽनिस्रास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥
 यं हि न व्यथयंस्ते पुरुषं पुरुषर्षभ ।
 समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥
 नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
 उभयोरपि दृष्टोऽतस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥
 अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
 विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥
 अंतर्वंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
 अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युज्यस्व भारत ॥ १८ ॥
 य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
 उभौ तौ न विजानीतो नायं हंति न हन्यते ॥ १९ ॥
 न जायते म्रियते वा कदाचि-। न्नयं भूत्वा भविता वा न भूयः।
 अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो । न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥
 वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।
 कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हंतिं कम् ॥ २१ ॥
 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय । नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
 तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥
 नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
 न चैनं क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥
 अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥
 अव्यक्तोऽयमचित्तोऽयमविकारोऽयमुच्यते ।
 तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥
 अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
 तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥
 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
 तस्मादपरिहार्येथं न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥
 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
 अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्ब्रूयति तथैव चान्यः ।
 आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥
 देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
 तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥
 स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि ।
 धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥
 यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
 मुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥
 अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।
 ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥
 अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
 संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥
 भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
 येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
 निदंतस्तत्र सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥
 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
 तस्माद्दुत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥
 मुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
 ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥
 एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।
 बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥
 नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रसवायो न विद्यते ।
 स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायंत महतो भयात् ॥ ४० ॥
 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन ।
 बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥
 यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवंदत्यविपश्चितः ।
 वेदवाद्गताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥
 कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
 क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥
 भोगैश्वर्यप्रमक्तानां तयापहृतचेतमाम् ।
 व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥
 त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
 निर्द्वंद्वो नित्यसच्चस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥
 यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।
 तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥
 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलेहेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥
 योगस्थः कुरु कर्माणि संगं सक्त्वा धनंजय ।
 सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥
 दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।
 बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥
 बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
 तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥
 कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं सक्त्वा मनीषिणः ।
 जन्मबंधाविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥
 यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति ।
 तदा गन्तामि निर्वदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य ॥ ५२ ॥
 श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
 समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यमि ॥ ५३ ॥

अर्जुन उवाच ।

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
 स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥ ५४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।
 आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥
 दुःखेष्वनुद्विग्नमनाःसुखेषु विगतस्पृहः ।
 वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥
 यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
 नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

यदा संहरते चायं कूर्मोऽगानीव सर्वशः ।
 इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥
 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
 रसवर्जं रमोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥
 यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
 इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥
 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः ।
 वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥
 ध्यायतो विषान्यपुंसः संगस्तेषूपजायते ।
 मंगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥
 क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
 स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्याति ॥ ६३ ॥
 रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
 आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥
 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
 प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥
 नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
 न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥
 इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।
 तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसि ॥ ६७ ॥
 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
 इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥
 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥
 आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
 तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥
 विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
 निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥
 एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थनैनां प्राप्य विमुह्यति ।
 स्थित्वास्यामंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीता० सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

तृतीयोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।
 तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥
 व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
 तदेकं वद निश्चिन्तय येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ।
 ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥
 न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
 न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥
 नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
 कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥
 कर्मद्रियाणि मन्यन्त्य य आम्ने मनसा स्मरन् ।

इंद्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥
 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
 कर्मोद्दिश्यैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥
 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
 शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयदकर्मणः ॥ ८ ॥
 यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः ।
 तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तमंगः ममाचर ॥ ९ ॥
 महयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
 अनेन प्रसविष्यध्वमप वोऽस्विष्टकामधुक ॥ १० ॥
 देवान्भावयतानेन ते देवा भावयंतु वः ।
 परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥
 इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यंते यज्ञभाविताः ।
 तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥
 यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यंते सर्वकिल्बिषैः ।
 भुंजते ते त्वग्रं पापा ये पचंत्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥
 अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः ।
 यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥
 कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
 तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म निसं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥
 एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
 अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थस जीवति ॥ १६ ॥
 यत्स्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
 आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनह कश्चन ।
 न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥
 तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार ।
 असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥
 कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
 लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥
 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
 स यत्प्राणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥
 न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
 नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥
 यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतद्रितः ।
 मम बर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पाथं सर्वशः ॥ २३ ॥
 उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।
 संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥
 सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
 कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसग्रहम् ॥ २५ ॥
 न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसगिनाम् ।
 जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥
 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
 अहंकारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥
 तत्त्वविचु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।
 गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥
 प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदो मंदान् कृत्सविन्नविचालयेत् ॥ २९ ॥
 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
 निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥
 ये मे मतमिदं निस्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
 श्रद्धावतोऽनुसूयतो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥
 येत्वेतदभ्यसूयतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
 सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥
 सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
 प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥
 इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
 तयोर्निवशमागच्छेत्तौह्यस्य परिपंथिनौ ॥ ३४ ॥
 श्रेयान्स्वधर्मां विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
 स्वधर्मं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

अर्जुन उवाच ।

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।
 अनिच्छन्नपिवाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥

श्रीभगवनुवाच ।

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।
 महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥
 भूमेनाव्रियते वह्नियथादर्शो मलेन च ।
 यथोल्बेनाऽऽवृत्तो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥
 आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
 कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥

इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
 एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥
 तस्मात्वमिन्द्रियाण्यद्भौ नियम्य भरतर्षभ ।
 पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥
 इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।
 मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥
 एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
 जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीता० कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

चतुर्थोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

इमं विवस्वत योऽंगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।
 विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥
 एवं परंपराप्राप्तीममं राजर्षयो विदुः ।
 स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥
 स एवायं मया तेऽद्ययोगः प्रोक्तः पुरातनः ।
 यत्कोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच ।

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
 कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
 तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥
 अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
 प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥
 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत ।
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥
 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
 त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥
 वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
 बहवो ज्ञानतपसा पृता मद्रावमागताः ॥ १० ॥
 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
 मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सवशः ॥ ११ ॥
 कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।
 क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवाति कर्मजा ॥ १२ ॥
 चार्तुवर्ष्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
 तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥
 न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
 इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धयते ॥ १४ ॥
 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।
 कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पुर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
 तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १६ ॥
 कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
 अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥
 कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्माणि च कर्म यः ।
 स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत ॥ १८ ॥
 यस्य सर्वं समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ।
 ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ १९ ॥
 न्यक्त्वा कर्मफलसंगं निखतृप्तो निराश्रयः ।
 कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥
 निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तमर्वपरिग्रहः ।
 शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥
 यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः ।
 ममः मिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवद्ध्यते ॥ २२ ॥
 गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितंचेतसः ।
 यज्ञायाचरतः कर्म संग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥
 ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
 ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥
 देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
 ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञनेवापजुह्वति ॥ २५ ॥
 श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।
 शब्दादीन्विषयानान्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥ २६ ॥
 सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहवति ज्ञानदीपित ॥ २७ ॥
 द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरं ।
 स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥
 अपाने जुहवति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरं ।
 प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥
 अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहवति ।
 सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥
 यज्ञशिष्टासृतभुजो यांति ब्रह्म मनातनम ।
 नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुमत्तम ॥ ३१ ॥
 एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणा मुखे ।
 कर्मजान्निवद्धि तान्सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥
 श्रयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप ।
 सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥
 तद्विद्धि प्रणिपातन परिप्रञ्जनन मेवया ।
 उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥
 यज्ज्ञान्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव ।
 येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥
 अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।
 सर्वज्ञानप्रवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥
 यथैधांसि समिद्धोऽग्निभस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।
 ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥
 नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
 तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥

श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
 ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥
 अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
 नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥
 योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
 आत्मवंतं न कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥
 तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।
 छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥
 इति श्रीमद्भगवत् ० कर्मब्रह्मार्पणयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

पञ्चमोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्यागं च शंसमि ।
 यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।
 तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥
 ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ।
 निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥
 सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः ।
 एकमप्यास्थितः सम्यग्बुभयोर्विन्दते फलम् ॥ ४ ॥
 यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥
 संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।
 योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥
 योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
 सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥
 नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
 पश्यन्शृण्वन्स्पृशन्निघ्नन्नश्नन्गच्छन्स्वपन्श्वसन् ॥ ८ ॥
 प्रलपन्विमृजन्गृह्णन्निषन्निमिषन्नपि ।
 इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन् ॥ ९ ॥
 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।
 लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ १० ॥
 कोयेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।
 योगिनः कर्म कुर्वति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ ११ ॥
 युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
 अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धयते ॥ १२ ॥
 सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।
 नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥
 न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ॥
 न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥
 नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।
 अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जंतवः ॥ १५ ॥
 ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
 तेषामादिस्रवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

तद्बुद्धयस्तदात्मनस्त्रिष्टास्तत्परायणाः ।
 गच्छंत्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७ ॥
 विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
 शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥
 इहैव तैर्जितः सर्गो येषां माम्ये स्थितं मनः ।
 निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥
 न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।
 स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥
 वाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विदित्यात्मनि यत्सुखम् ।
 म ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ २१ ॥
 ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
 आद्यन्तवन्तः कान्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥
 शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् ।
 कामक्रोधोद्वेगं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥
 योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथांतर्ज्योतिरेव यः ।
 म योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥
 लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।
 छिन्नद्रुधा यतात्मानः सर्वभूतहित रताः ॥ २५ ॥
 कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
 अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥
 स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः ।
 प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥
 यतन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥
 भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।
 सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥
 इति श्रीमत् ० कर्मसंन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
 स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ १ ॥
 यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव ।
 न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥
 आरुरुक्षोर्मुनेयोगं कर्म कारणमुच्यते ।
 योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥
 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते ।
 सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥
 उद्धरंदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
 आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥
 बंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
 अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥
 जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः ।
 शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥
 ज्ञानविज्ञाननृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः ॥ ८ ॥
 मुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्रेष्यबंधुषु ।
 साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥
 योगी युंजीत सततमात्मानं रहासि स्थितः ।
 एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥
 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
 नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥
 तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।
 उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥
 समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।
 संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥
 प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।
 मनः संयम्य मच्चित्तौ युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥
 युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः ।
 शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥
 नास्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनश्चतः ।
 न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥
 युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
 युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥
 यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।
 निस्पृहः सर्वकामंभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥
 यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।
 योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगंसवया ।
 यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥
 सुखमात्यंतिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
 वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥
 यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
 यस्मिंस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥
 तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।
 स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥
 संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषताः ।
 मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥
 शनैःशनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।
 आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥
 यतो यतो निश्चरति मनश्चलमस्थिरम् ।
 ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥
 प्रशांतमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।
 उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥
 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।
 सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥
 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
 ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥
 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
 तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥
 सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥
 आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
 सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥
 अर्जुन उवाच ।

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।
 एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वान्स्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥
 चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।
 तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
 अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३३ ॥
 असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।
 वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥
 अर्जुन उवाच ।

अयतिः श्रद्धयोपतो योगाच्चलितमानसः ।
 अप्राप्य योगसंमिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥
 कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।
 अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणः पथिः ॥ ३८ ॥
 एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्महस्यशेषतः ।
 त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥
 श्रीभगवानुवाच ।

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
 नहि कल्याणकृत्कश्चिर्दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

प्राप्य पुण्यकृताँल्लोकानुषिन्वा शाश्वतीः ममाः ।
 शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते । ४१ ॥
 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
 एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥
 तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभंत पौर्वदोहिकम् ।
 यतंत च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥
 पूर्वाभ्यां मन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि मः ।
 जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवैर्तेत ॥ ४४ ॥
 प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः ।
 अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥
 तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।
 कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मोऽयोगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥
 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना ।
 श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीता० आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥

सप्तमोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

मय्यामक्तमनाः पार्थ योगं युजन्मदाश्रयः ।
 असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥
 ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।
 यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवाशिष्यते ॥ २ ॥

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
 यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥
 भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
 अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥
 अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
 जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥
 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
 अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥
 मत्तः परतरं नान्यकिंचिदस्ति धनंजय ।
 मायि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥
 रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिमूर्ययोः ।
 प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥
 पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
 ज्विनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥
 बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
 बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तजस्विनामहम् ॥ १० ॥
 बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम् ।
 धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥
 ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
 मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मायि ॥ १२ ॥
 त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।
 मोहितं नाभिजानति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥
 दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरक्षया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥
 न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।
 माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः ॥ १५ ॥
 चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
 आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥
 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
 प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥
 उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।
 आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥
 बहुनां जन्मनामन्तं ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
 वामृदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥
 कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
 तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥
 यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।
 तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥
 स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
 लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हितान् ॥ २२ ॥
 अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।
 देवान्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥ २३ ॥
 अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।
 परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥
 नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
 मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
 भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥
 उच्छाद्रेषसमुत्थेन द्रुद्रमोहन भारत ।
 सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यांति परंतप ॥ २७ ॥
 येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
 ते द्रुद्रमोहनिर्मुक्ता भजंत मां दृढवृताः ॥ २८ ॥
 जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
 ते ब्रह्म तद्रिदुः कृत्स्नमध्यामं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥
 साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।
 प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसमः ॥ ३० ॥
 इति श्रीमद्रगवत० ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अष्टमोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

किं तद्ब्रह्म किमध्यामं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
 अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥
 अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।
 प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽमि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
 भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥
 अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहं देहभृतां वर ॥ ४ ॥
 अंतकाले च मामेव स्वरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
 यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥
 यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजसंते कलेवरम् ।
 ते तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥
 तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
 मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥
 अभ्यामयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
 परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तय ॥ ८ ॥
 कविं पुराणमनुशामितारमणोरणीयांसमनुस्मरेन्नः ।
 सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादिसवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥
 प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।
 भ्रुवोर्मध्ये प्राणमेवेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् १० ॥
 यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।
 यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ११ ॥
 सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च ।
 मूर्च्छ्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥
 ॐइत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
 यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥
 अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।
 तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥
 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
 नाप्नुवंति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
 मामुपेस तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥
 सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्ब्रह्मणो विदुः ।
 रात्रिं युमसहस्रां तां तेऽहोरात्रविदोजनाः ॥ १७ ॥
 अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
 रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥
 भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
 रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥
 परस्तस्मात्तु भावोऽन्योव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।
 यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥
 अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।
 यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्भ्राम परमं मम ॥ २१ ॥
 पुरुषः स परः पार्थ भक्त्वा लभ्यस्त्वनन्यया ।
 यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥
 यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।
 प्रयाता यांतितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥
 अग्निर्ज्योतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम् ।
 तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥
 ध्रुवो रात्रिस्तथा कृष्णःषण्मासा दक्षिणायनम् ।
 तत्र चांद्रममं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥
 शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।
 एकया यासनावृत्तिं न्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥
 नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥
 वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
 अस्मिन्तन्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥२८॥
 इति श्रीमत् ० तारक ब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

उदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।
 ब्रानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभान् ॥ १ ॥
 गजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
 प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥
 अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।
 अप्राप्य मां निर्वर्तेते मृत्युसंसारवर्षणि ॥ ३ ॥
 मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना ।
 मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥
 न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
 भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥
 यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।
 तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥
 सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृतिं यांति मामिकाम् ।
 कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विमृजाम्यहम् ॥ ७ ॥
 प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विमृजामि पुनः पुनः ।

भूतग्रामिममं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥
 न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय ।
 उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥
 मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सृयते सचराचरम् ।
 हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥
 अवजानितं मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
 परं भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥
 मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।
 राक्षसीमामुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥
 महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
 भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥
 सततं कीर्तयंतो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।
 नमस्यतंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥
 ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते ।
 एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥
 अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।
 मंत्रोऽहमहमेवाऽऽज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥
 पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।
 वेद्यं पवित्रमांकार ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७ ॥
 गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।
 प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥
 तपाम्यहमहं वर्षेनिगृह्णाम्युत्सृजामि च ।
 अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् २०
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥

यांति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।

भूतानि यांति भूतज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयमं कर्मबंधनैः ।

सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

समांसहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥
 मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
 स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् ॥ ३२ ॥
 किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
 अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥
 मन्मना भव मद्रक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
 मांमैवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीता० राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम
 नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

दशमोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।
 यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥
 न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।
 अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥
 यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।
 अममूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥
 बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा मर्त्यं दमः शमः ।
 सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥
 अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।
 भवति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

महर्षयः सप्त पूर्वं चत्वारो मनवस्तथा ।
मद्रावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥
एतां विभृतिं योगं च मम यां वेत्ति तत्त्वतः ।
साऽविक्रमेण योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
इति मत्वा भजंत मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयंतः परस्परम् ।
कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते ॥ १० ॥
तेषामेवानुक्तंपार्थमहमज्ञानजं तमः ।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

अर्जुन उवाच ।

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥
सर्वमतद्वृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
नहि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥
वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।
 केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽमि भगवन्मया ॥ १७ ॥
 विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।
 भूयः कथय तृप्तिर्हि गृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

हेत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
 प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यतो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥
 अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
 अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥
 आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।
 मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥
 वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।
 इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥
 रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षमाम् ।
 वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥
 पुंगवसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।
 मनानीनामहं स्कंदः सरमामस्मि सागरः ॥ २४ ॥
 महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
 यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥
 अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
 गंधर्वाणां चित्ररथः भिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥
 उच्चैःश्रवममश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।
 मेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक ।
 प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥
 अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
 पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥
 प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
 मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनेतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥
 पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
 झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥
 मर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
 अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥
 अक्षराणामकारोऽस्मि द्रुद्रः सामासिकस्य च ।
 अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥
 मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्रवञ्च भविष्यताम् ।
 कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मथा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥
 बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम् ।
 मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥
 द्युतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
 जयोऽस्मि व्यवसायोस्मि मत्वं मत्ववतामहम् ॥ ३६ ॥
 वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः ।
 मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुशना कविः ॥ ३७ ॥
 दंडो दमयतामस्मि नीतिरिस्म जिगीषताम् ।
 मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥
 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥
 नांतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।
 एषतृदशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥
 यद्यद्रिभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
 तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥
 अथवा बहुनैतेन किं ज्ञांतन तवार्जुन ।
 विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥
 इतिश्रीमद्भगवद्गीता० विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥

एकादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।
 यच्चयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥
 भवाप्यर्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया ।
 त्वत्तः कमल्पज्ञाक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥
 एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।
 द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥
 मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
 योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ महस्रशः ।
 नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

पश्यादित्यान्वसून्क्रुद्धानश्विनौ मरुतस्तथा ।
 वहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥
 इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य भचराचरम् ।
 मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥
 न तु मां शक्यसे द्रष्टुमेनेत्र स्वचक्षुषा ।
 दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

संजय उवाच ।

पत्रमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः ।
 दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥
 अनेकवचनयनमनेकाद्गतदर्शनम् ।
 अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥
 दिव्यमाल्यांबरधरं दिव्यगंधानुलेपनम् ।
 सर्वाश्चर्यमयं देवमनेतं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥
 दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।
 यदि भाः सदृशी मा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥
 तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।
 अपश्यद्देवदेवस्य शरीरं पांडवस्तदा ॥ १३ ॥
 ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ।
 प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत ॥ १४ ॥

अर्जुन उवाच ।

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान् ।
 ब्रह्माणमीशं कमलामनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥
 अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनेतरूपम् ।

नांतं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् ॥१६॥
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमंतम् ।
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समंताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥१७॥
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता मनातनस्त्व पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥
अनादिमध्यांतमनंतवीर्यमनंतबाहुं शशिमूर्यनेत्रम् ।
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवत्क्रं स्वतजसा विश्वमिदं तपंतम् ॥१९॥
आवापृथिव्योरिदमंतरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।
दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥
अमी हि त्वां सुरसंघा विशंति केचिद्गीताः प्रांजलयो गृणन्ति ।
म्वस्तीत्युक्त्वा महार्पीभिद्धसंघाःस्तुर्वीत त्वां स्तुतिभिःपुष्कलाभिः २१
रुद्रादिसा वसवो ये च माध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।
गंधर्वयक्षामुरासिद्धसंघा वीक्षंत त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥
रूपं महत्ते बहुवत्क्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरूपादम् ।
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरान्मा धृतिं न विंदामि शमं च विष्णो ॥२४॥
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैत्र कालानलमनिभानि ।
दिशां न जाने लभे च शर्म प्रमीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः ।
भीष्मो द्रोणः मृतपुत्रस्तथासौ महास्पदीयैरपि योधमुख्यैः ॥२६॥
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशंति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्रिलग्ना दशनान्तरेषु मंष्टश्यंते चूर्णितैरुत्तमांगैः ॥ २७ ॥

यथा नदीनां बहवोऽब्रुवेगाः समुद्रमेवामिमुखा द्रवंति ।
 तथा तवामी नरलोकवीरा विशंति वत्क्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥
 यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशंति नाशाय समृद्धवेगाः ।
 तथैव नाशाय विशंति लोकास्तवापि वत्क्राणि समृद्धवेगाः ॥२९॥
 ललितह्रमे ग्रसमानः समंताल्लोकांन्ममग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः ।
 तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भामस्तवाग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥
 आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
 विज्ञातुमिच्छामि भवंतमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥३१॥

श्रीभगवानुवाच ।

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।
 ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिता प्रलनीकेषु योधाः २० ॥
 तस्माच्चमुत्तिष्ठ यशां लभस्व जित्वा शत्रून्भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम् ।
 मयैवंतं निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन ॥ ३३ ॥
 द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कूर्णं तथान्यानपि योधवीरान् ।
 मया हतांस्व जहि मा व्यथिष्ठा युद्धयस्व जेतामि रणे मपत्नान् ३४ ॥

संजय उवाच ।

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी ।
 नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥

अर्जुन उवाच ।

स्थानं हृषीकेश तव प्रकीर्त्सा जगत्प्रहृष्यस्यनुरज्यते च ।
 रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंति सर्वे नमस्यन्ति च मिद्धसंघाः ॥३६॥
 कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।
 अनन्त देवेश जगन्निवामत्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानस ।
 वेत्तामि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप ॥ ३८ ॥
 वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
 नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥
 नमः पुरस्तादथ पृष्ठततस्ते नमो स्तुते सर्वत एव सर्व ।
 अनंतवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोपि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥
 मखेति मत्वा प्रमथं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
 अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥
 यच्चावहासार्थममत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।
 एकोऽथवाप्यच्युत तस्मिन् तत्क्षामयत्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥
 पितामि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
 न त्वत्प्रमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यां लोकत्रयऽप्यप्रतिमभावः ॥ ४३ ॥
 तस्मात्प्रणम्य प्राणिधाय कायं प्रमादेय त्वामहमीशमीड्यस ।
 पितव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् ॥ ४४ ॥
 अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।
 तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥
 किरीटिनं गदिनं चक्रस्तहमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
 तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

मया प्रमत्नेन तवाङ्गेनद् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
 तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥
 न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।
 एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

मा ते व्यथा मा च विमूढभावां दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् ।
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

संजय उवाच ।

इत्यर्जुनं वामुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।
आश्वामयामास च भीतमेनं भृत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

अर्जुन उवाच ।

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

मुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानमि यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया ।
शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्ट्वानमि मां यथा ॥ ५३ ॥
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तच्चेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥
मत्कर्मकृन्मत्परमो मदक्तः संगवर्जितः ।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु० विश्वरूपदर्शनयोगो
नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

द्वादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

एवं मततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचिखं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
मनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।
ने प्राप्नुवांति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥
क्लेशोऽधिकतरस्तपामव्यक्तामक्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विरवाप्यते ॥ ५ ॥
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।
अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥
मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निर्वाप्तप्यासि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोपि मयि स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्मिद्विमवाप्स्यमि ॥ १० ॥
अथैतदप्यशक्तोऽपि कर्तुमद्योगमाश्रितः ।
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतीत्मवान् ॥ ११ ॥
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्यागाच्छान्तिरनंतरम् ॥ १२ ॥
अद्रेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
निर्ममां निरहंकारः समदुःखमुग्वः क्षमी ॥ १३ ॥
संतुष्टः मततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
दर्पामर्षभयोद्भ्रगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो मतव्यथः ।
सर्वारंभपरित्यागी यो मदक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥
यो न हृष्यति न द्रेष्टि न शोचति न कांक्षति ।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८ ॥
तुल्यनिंदास्तुतिमौनी संतुष्टो येनकेनचित् ।
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
श्रद्धयाना मत्परमा भक्तास्तंऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥
इति श्रीमद्भगवद्गीता० भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

त्रयोदशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ।
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

इदं शरीरं कोतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ २ ॥
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रषु भारत ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ ३ ॥
तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्रिकारि यतश्च यत् ।
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ४ ॥
ऋषिभिर्वह्नुधा गीतं छंदोभिर्विविधैः पृथक् ।
ब्रह्ममूत्रपदंश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ५ ॥
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेंद्रियगोचराः ॥ ६ ॥
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ७ ॥
अमानित्वमदंभित्वमहिंसा क्षांतरिर्जवम् ।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ८ ॥
इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ९ ॥
अमक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदाग्ृहादिषु ।

निस्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ १० ॥
 मयि चानन्ययोगन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
 विविक्तदेशसवित्त्वमरतिर्जनसंसदि ॥ ११ ॥
 अध्यात्मज्ञाननिसत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
 एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ १२ ॥
 ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।
 अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नामदुच्यते ॥ १३ ॥
 सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् ।
 सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १४ ॥
 सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
 असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १५ ॥
 बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च ।
 सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत् ॥ १६ ॥
 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
 भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रभिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १७ ॥
 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
 ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य तिष्ठितम् ॥ १८ ॥
 इति क्षेत्रं तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।
 मद्रक्त एतद्विज्ञाय मद्रावायोपपद्यते ॥ १९ ॥
 प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धथ्यनादी उभावपि ।
 विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ २० ॥
 कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
 पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २१ ॥

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।
 कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २२ ॥
 उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।
 परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २३ ॥
 य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।
 सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २४ ॥
 ध्यानेनात्मनि पश्यति केचिदात्मानमात्मना ।
 अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २५ ॥
 अन्ये त्वेवमजानंतः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।
 तेऽपि चातितरंत्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २६ ॥
 यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजंगमम् ।
 क्षत्रक्षेत्रज्ञमयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २७ ॥
 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम् ।
 विनश्यत्स्वविनश्यंतं यः पश्यति स पश्यति ॥ २८ ॥
 समं पश्यन्द्भिः सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।
 न हि नस्त्यात्मानात्मानं ततो यांति परां गतिम् ॥ २९ ॥
 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
 यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ ३० ॥
 यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।
 तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३१ ॥
 अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।
 शरीरस्थोऽपि कौंतेय न करोति न लिप्यते ॥ ३२ ॥
 यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३३ ॥
 यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।
 क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३४ ॥
 क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा ।
 भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्याति ते परम् ॥ ३५ ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीता० प्रकृतिपुरुषनिर्दशयोगो नाम
 त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।
 यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥
 इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।
 सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥
 मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भे दधाम्यहम् ।
 संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥
 सर्वयोनिषु कौंतेय मूर्तयः संभवंति याः ।
 तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥
 सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।
 निबध्नन्ति महाबाहो देह देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥
 तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।
 सुखभङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् ।
 तन्निवध्नाति कौंतेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥ ७ ॥
 तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
 प्रमादालस्यानिद्राभिस्तान्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥
 सत्त्वं सुखं संजयाति रजः कर्मणि भारत ।
 ज्ञानामावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥
 रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।
 रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥
 सर्वद्वारेषु देहोऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
 ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्ध मन्वमित्युत ॥ ११ ॥
 लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा ।
 रजस्येतानि जायंते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥
 अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
 तमस्येतानि जायंते विवृद्धे कुरूनन्दन ॥ १३ ॥
 यदा सत्त्वं प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
 तदात्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥
 रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते ।
 तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥
 कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
 रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥
 सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
 प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥
 ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधोगच्छति ताममाः ॥ १८ ॥

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्रावे सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहममुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

अर्जुन उवाच ।

कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारःकथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव ।

न द्वेष्टि भ्रमप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तते इत्येवं योऽवतिष्ठति नेंगते ॥ २३ ॥

समदुःखमुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिदात्ममंस्तुतिः ॥ २४ ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

मां च योऽव्यभिचारण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीयेतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीता० गुणत्रयविभागयोगो नाम

चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पंचदशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

अथश्चोर्ध्वं प्रमृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।

अथश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

न रूममस्येह तथोपलभ्यते नांतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छिच्चा ॥ ३ ॥

ततः पदं तत्परिमर्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रमृता पुराणी ॥ ४ ॥

निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञगच्छंत्यमूढाः पदमव्ययं तत ॥ ५ ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥

ममैवांशो जिवलोके जीवभूतः सनातनः

मनःषष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात् ॥ ८ ॥

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यंति पश्यंति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

यतंतो योगिनश्चैनं पश्यंत्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यंस्तचेतमः ॥ ११ ॥
 यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।
 यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥
 गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
 पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥
 अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
 प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥
 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टोऽसत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
 वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥
 द्वाविभौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
 क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥
 उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
 यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥
 यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
 अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥
 यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
 स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥
 इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।
 एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीता० पुरुषोत्तमयोगो नाम
 पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

षोडशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

अभयं मत्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।
 दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥
 अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।
 दया भूतेष्वलोलुपत्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥
 तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
 भवंति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥
 दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।
 अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम ॥ ४ ॥
 दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायामुरी मता ।
 मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव ॥ ५ ॥
 द्रौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च ।
 दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥
 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरामुराः ।
 न शौचं नापि चाचारो न मत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥
 असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
 अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥
 एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
 प्रभवंत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥
 काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानमदान्विताः ।
 मोहाद्गृहीत्वामदग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ॥ १० ॥
 चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥
 आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
 ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥
 इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥
 अमौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोऽहमहं भोगी भिद्धोऽहं बलवान्मुखी ॥ १४ ॥
 आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति महेशो मया ।
 यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥
 अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालममावृताः ।
 प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥
 आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।
 यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।
 मामात्मपरदेहेषु प्रद्रिष्यन्तोऽभ्यमूयकाः ॥ १८ ॥
 तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।
 क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥
 आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।
 मामप्राप्यैव कौतये ततो यांत्यधमां गतिम् ॥ २० ॥
 त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
 कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्नयं त्यजेत् ॥ २१ ॥
 एतैर्विमुक्तः कौतये तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।
 आचारत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।
 न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥
 तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
 ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीता० दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम
 षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सप्तदशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजंते श्रद्धयान्विताः ।
 तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥
 श्रीभगवानुवाच ।
 त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।
 सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥
 सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।
 श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥
 यजंते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।
 प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजंते तामसा जनाः ॥ ४ ॥
 अशास्त्रविहितं घोरं तप्यंते ये तपो जनाः ।
 दंभाहंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः ॥ ५ ॥
 कर्षयन्तः शरीरस्थं भूताग्रामचेतसः ।
 मां चैवांतः शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरानिश्चयान् ॥ ६ ॥
 आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥
 आयुःसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।
 रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकाप्रियाः ८ ॥
 कटूवम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।
 आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकाभयप्रदाः ॥ ९ ॥
 यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।
 उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥
 अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।
 अष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥
 आभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् ।
 इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥
 विधिहीनममृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणम् ।
 श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥
 देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
 ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥
 अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
 स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥
 मनःप्रसादःसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।
 भावसंशुद्धिरियंतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥
 श्रद्धया परया तप्ततपस्तत्त्रिविधं नरैः ।
 अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥
 सत्कारमानपूजार्थं तपो दंभेन चैव यत् ।
 क्रियते तदिह प्रोक्तं राजस चलमधुवम् ॥ १८ ॥

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
 परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥
 दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
 देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥
 यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुदिश्य वा पुनः ।
 दीयते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥
 अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
 अमत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥
 ॐ तस्मादिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधः स्मृतः
 ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥
 तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।
 प्रवर्तते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥
 तदित्यनभिसंभाय फलं यज्ञतपः क्रियाः ।
 दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥
 सद्भावे साधुभावे च मदित्यतत्प्रयुज्यते ।
 प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥
 यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
 कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥
 अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
 अमदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रसय नो इह ॥ २८ ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीता० श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम
 सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अष्टादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

सन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम् ।
सागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः ॥ २ ॥
साज्यं दोषत्रयैकं कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।
यज्ञदानतपःकर्म न साज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥
निश्चयं शुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥
यज्ञदानतपःकर्म न साज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥
एतान्यपि तु कर्माणि संगं सक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥
नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्सजेत् ।
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
संगं सक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः ॥ ९ ॥
न द्रेष्टव्यकुशलं कर्म कुशले नानुपज्जते ।
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

नहि देहभृता शक्यं सक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
 यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥
 अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।
 भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥
 पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।
 सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥
 अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।
 विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् ॥ १४ ॥
 शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।
 न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥
 तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
 पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥
 यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
 हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हंति न निवध्यते ॥ १७ ॥
 ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
 करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥
 ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।
 प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥
 सर्वभुतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
 अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥
 पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।
 वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥
 यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् ।

अतच्चार्यवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥
 नियतं संगरहितमरागद्वेषतःकृतम् ।
 अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥
 यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।
 क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥
 अनुबंधं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।
 मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २५ ॥
 मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।
 सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥
 रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।
 हर्षशोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥
 अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैपेकृतिकोऽलसः ।
 विषादी दीर्घमूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥
 बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।
 प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥
 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।
 बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥
 यया धर्ममथर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।
 अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥
 अथर्मं धर्मांमिती या मन्यते तमसाऽऽवृता ।
 सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामती ॥ ३२ ॥
 धृत्या यथा धारयते मनःप्रणोन्द्रियक्रियाः
 योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन ।
 प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥
 यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।
 न विमुंचति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥
 मुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।
 अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥
 यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।
 तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रमादजम् ॥ ३७ ॥
 विषयेंद्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।
 परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥
 यदग्रे चानुबंधं च सुखं मोहनमात्मनः ।
 निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥
 न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।
 सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥
 ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।
 कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ॥ ४१ ॥
 शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिरार्जवमेव च ।
 ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥
 शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।
 दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥
 कृपिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।
 परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥
 स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विंदति तच्छृणु ॥ ४५ ॥
 यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
 स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥ ४६ ॥
 श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
 स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥
 सहजं कर्म कौंतेय सदोषमपि न खजेत् ।
 सर्वारंभा हि दोषेण धूममाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥
 असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।
 नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥
 सिद्धिं प्राप्नोति यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।
 समासेनैव कौंतेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥
 बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।
 शब्दादीन्निवृत्तपयांस्सक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥
 विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ।
 ध्यानयोगपरो निस्र वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
 विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥
 ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ।
 समः सर्वेषु भूतेषु मद्रक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥
 भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
 ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंनतरम् ॥ ५५ ॥
 सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्द्व्यपाश्रयः ।
 मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥
 चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥
 मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।
 अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि ॥ ५८ ॥
 यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
 मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥
 स्वभावाजेन कौंतेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
 कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपितत् ॥ ६० ॥
 ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
 भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥
 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
 तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥
 इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।
 विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥
 सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।
 दृष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥
 मन्मना भव मद्रक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
 मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥
 सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
 अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥
 इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
 न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥
 य इदं परमं गुह्यं मद्रक्तेष्वभिधास्यति ।
 भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यस्यसंशयः ॥ ६८ ॥
 न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

श्रद्धावाननुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।

कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच ।

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा न्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

संजय उवाच ।

इत्थं वामुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः

संवादादिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्ब्रह्ममहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतःस्वयम् ॥ ७५ ॥

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादादिममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान् राडाके स्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णां यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

॥ श्रीः ॥

सरल गीता

पहिला अध्याय ।

(१) धृतराष्ट्रने संजयसे पूछा:—हे संजय ! मेरे पुत्रोंने और पांडवोंने धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छामे इकट्ठे होकर क्या किया ?

(२) संजयने कहा:—दुर्योधनने पांडवोंकी सुसज्जित सेनाको देखा और गुरु द्रोणाचार्यके पास जा कर कहा:—

(३) गुरुजी महाराज ! आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्नन पांडवोंकी इस महती सेनाकी मोर्चबन्दी की है : इस देखिये ।

(४-६) इस सेनामें महाबली, महाधनुर्धर, युद्धमें भीम और अर्जुनसे टक्कर लेनवाले सात्यकि, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु चेकितान, वीर्यवान् काशीराज, पुरुजित, कुन्तिभोज, नरश्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान् उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रोपदीके पांचो बेटे ये सभी महारथी * उपस्थित हैं ।

(७) और अब, हे ! हम लोगोंके भी सेनापतियों और शूरसरदारोंका हाल सुनिये । मैं उनके नाम भी आपको सुनाये देता हूँ ।

* दशहजार शूर पुरुषोंसे अकेले युद्ध करनेवालेको महारथी कहते हैं ।

(८) सबसे पहिले तो आपही हैं ; फिर भीष्म, कर्ण रणजीत कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा ये सब बड़े लड़ाके वीर हैं ।

(९) और भी नाना प्रकारके शस्त्र चलानेमें निपुण और युद्धमें कुशल बहुतसे शूर वीर मेरे लिये प्राणतक दे देनका तैयार हैं ।

(१०) और ऐसी सेनाकी रक्षा स्वयं भीष्म पितामह कर रहे हैं, फिर इसका बल क्यों न अपरिमित हो ! उधर पांडवोंकी सेना इसके मुकाबले थोड़ीसी है पर उसकी रक्षा भीमसेन कर रहा है ।

(११] अब आप सब लोग अपने अपने स्थानोंपर इटकर भीष्मजीकी रक्षा करें ।

(१२) इतनेहीमें वृद्ध भीष्म पितामहने दुर्योधनका हर्ष और आनन्द बढ़ानेके लिये सिंहकी तरह गरज कर बड़े जोरसे शंख बजाया ।

(१३) वस फिर क्या था. सारी सेनामें धूम मच गयी। सब लोग अपने अपने शंख बजाने लगे । किसीकी भेरी, किसीका पणव, किसीका अनक और किसीका सींग बजने लगा । यहांतक कि आकाशमें वह शब्द गूंज उठा ।

(१४) तब सफेद घोड़ोंके रथमें बैठ हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने, अपने अपने दिव्य शंख बजाये ।

(१५) श्रीकृष्णका पांचजन्य, अर्जुनका देवदत्त,

१ एक समय श्रीकृष्णने समुद्रमें पंचजन नामक दैत्यको मार उसके पेटसे यह शंख निकाला था । इसलिये इसका नाम पांचजन्य हुआ ।

वैसेही बड़े पेटवाले भीमसेनका बड़ा भारी पौंड्र शंख बजने लगा ।

(१६) कुन्तिके पुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय, नकुलने सुघोष और सहदेवने मणिपुष्पक शंख बजाया ।

(१७) धनुर्धर काशीराज, महाशस्त्रधारी शिखंडी, विराट, धृष्टद्युम्न और अजेय सासकि आदिने भी साथ साथ शंख बजाये ।

(१८) टुपद और द्रौपदीके पुत्रोंने, वीरवालक अभिमन्युने और सभी राजाओंने अपने अपने शंख बजाये ।

(१९) उन शंखोंके बजनेस धरती और आकाश गूंज उठा और धृतराष्ट्रके सेनावालोंकी छाती एक वार दहल गयी ।

(२०) कौरवोंने अपनी अपनी जगहोंपर लड़ाईके लिये तैनात होकर जब शत्रुओंपर वार करना शुरू कर दिया तब अर्जुनने भी अपना धनुष उठाया ।

(२१-२३) इस प्रकार सब तैयारी हो जानेपर श्रीकृष्णने अर्जुनने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओंके बीचमें ले चलो ; देखू तो सही, इस सेनामें मुझमें दो हाथ करनेक लिये कौन कौन योद्धा तैयार हैं—दुष्टबुद्धि दुर्योधनकी इच्छा पूरी किया चाहनेवाले इन लड़ाकोंको मैं देखूंगा ।

(२४-२५) संजयने कहा—यह सुन श्रीकृष्णने अर्जुनका रथ दोनों सेनाओंके बीच ला खड़ा किया और वहां भीष्म-द्रोण और उपस्थित राजाओंके सामने अर्जुनसे कहा—देखो पार्थ ! ये कौरव खड़े हैं ।

(२६-२७) वहां अर्जुनने अपने चाचा, दादा, गुरु, मामा, भाई, भतीजे, पोते, मित्र, ससुर और साथियोंको खड़े देखा ।

(२८-३०) यह दृश्य देखकर अर्जुनका जी भर आया । बड़ा दुखी होकर उसने श्रीकृष्णसे कहा कि, हे कृष्ण ! मेरे साथ लड़नेके लिये आये हुए इन अपने भाइयोंको देखकर मेरा शरीर वेकावू हो गया है, मुंह खूखा जाता है, कलेजा कांप रहा है और रोमांच हो रहा है । हाथसे गाण्डीव धनुष छूटा चाहता है, देह भस्म हो रही है । यहां खड़ा रहनेमें भी मैं समर्थ नहीं हू; पैर कांपते हैं और चक्कर आ रहे हैं ।

(३१) हे केशव ! मैं इस समय बड़े बुरे शकुन देख रहा हूं । अपनेही भाई बन्दोंको मारकर मुझे क्या मिल जाने वाला है ?

(३२) मुझे विजय प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं है; मुझे राज्य या सुख नहीं चाहिये; हे गोविन्द ! मुझे राज्य भोग या जीवनही क्या करना है ?

(३३) जिनके लिये राज्य, सुख, भाग चाहिये वे तो हाथपर प्राण रख यहां मरने मारनेके लिये तैयार हैं ।

(३४-३५) गुरु, चाचा, भतीजे, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और सभी नातेदार यहां मौजूद हैं, इन्हे मैं नहीं मारना चाहता, चाहे ये मुझे भले ही मार डालें । चाहे मुझे तीनों लोकोंका राज्य क्यों न मिल जाय—इस पृथिवीके राज्यकी कौन कहे—मैं इनपर हाथ नहीं उठाना चाहता ।

(३६) धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमारी क्या भलाई

होनेवाली है ? ये सब तो आततायी हैं । इन्हें मारनेमें हमी-
को पापके भागी बनना पड़ेगा ।

(३७) इसलिये अपने भाइयोंको न मारना ही हमें
उचित है । अपन भाइयोंको मारकर हमें कैसे सुख मिल
सकता है ?

(३८) लोभसे इनकी बुद्धि मारी गयी है—इन्हें अपनी
जातिको मारनेसे होनेवाला पाप या मित्रोंका घात नहीं
दिखायी देता ।

(३९) पर हम लोग तो जानते हैं कि कुलक्षयका
कितना बड़ा पाप है ; तो फिर हमी उस पापमें कैसे प्रवृत्त हों ?

(४०) कुलक्षयमें मनातन कुलधर्मोंका नाश होता
है । धर्मका नाश होनेसे अधर्म बढ़ता है ।

(४१) अधर्मसे कुलस्त्रियां भ्रष्ट होती हैं और व्यभि-
चारी स्त्रियोंसे वर्णसंकर सन्तान पैदा होती है ।

(४१) वर्णसंकरसे कुलके नाश करनेवाले, अपन बचे
बचाये कुलके साथ, नरकमें जा गिरते हैं । इनके पूर्व पुरुषों-
को फिर पिंड या उदक नहीं मिलता—वंशरक्षा नहीं होती—
उनका नाम लेनेवाला कोई नहीं बचता; इस प्रकार उन्हें भी
नरकवास करना पड़ता है ।

(४४) वर्णसंकर उत्पन्न करनेवाले इन दोषोंसे कुलके
नाश करनेवाले, जातिधर्म और वर्णधर्मका नाश करते हैं ।

(४४) हे जनार्दन ! जो लोग यह महापाप करते हैं वे,
मैंने सुना है कि, सदा नरकमें मद्धत रहते हैं ।

(४५) ओफ ! हम लोग बड़ा भारी पाप कर रहे हैं जो राज्यसुखकी इच्छासे अपने ही भाइयोंको मार डालनेपर उद्यत हो रहे हैं !

(४६) यदि शस्त्र लेकर कौरव मुझ निःशस्त्र और अचेत-पर टूट पड़ें और मार डालें तो यह उमसे कहीं अच्छा है ।

(४७) संजयने कहा:—दोनों सेनाओंके बीचमें खड़े हुए अर्जुनने इस प्रकार कहकर अपना धनुष्य तीर रख दिया और आप बड़े शोकमें डूब कर पीछे खसक बैठा ।

प्रथम अध्याय समाप्त ।

दूसरा अध्याय ।

(१) संजयने कहा:—अर्जुनके नेत्र उस समय दया और शोकमें डबडबा आये थे । चेहरा विलकुल उदास हो रहा था । अर्जुनकी यह अवस्था देख श्रीकृष्ण भगवान बोलें:—

(२) रे अर्जुन ! युद्धके समयमें यह मोह तुझमें कहाँसे आ गया ? हा ! यह दशा आर्यनाम धारण करनेवालेको नहीं सोहती ! इससे कुछ स्वर्गकी प्राप्ति नहीं हो जाती ! इसका तो यही परिणाम है कि तेरी सारी कीर्तिपर पानी फिर जायगा ।

(३) अर्जुन ! ऐसा कायर मत बन; यह तुझे शोभा नहीं देता । दिलकी यह कमज़ोरी छोड़ दे और युद्धके लिये कपर कस ।

अर्जुनने कहा:—हे मधुसूदन ! जिन द्रोण और भीष्मकोमैं सदासे शिर नचाता आया हूँ क्या उन्हीं के साथ आज बाणों-

से युद्ध करूं ?

(५] महानुभाव गुरुजनोंको मारकर जीनेसे अच्छा तो यह है कि मैं भीख मांगता फिरूं ! सांसारिक सुखोंकी इच्छा करनेवाले गुरुजनोंको मारकर उनकी देहके रक्तसे सने हुए भोगोंको मैं कैसे भोग सकता हूं ?

(६) मुझे यह भी समझमें नहीं आता कि हम लोगोंके जीत जानेसे लाभ हैं या हार जानेसे । जिन लोगोंके बिना हम जीना नहीं चाहते वेही हमारे सामने मुड़कटौअलके लिये तैयार हैं ।

(७) शोकसे मेरा हृदय भर गया है । मुझे इस समय विचार करनेकी शक्ति नहीं । इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, नहीं सूझता । इसलिये तुमसे पूछता हूं: मेरा जां धर्म हो, जिसमें मेरा लाभ हो, बतलाओ, मुझे अपने शिष्यको उचित शिक्षा दो ।

(८) मेरी इन्द्रियोंमें जलन हो रही है, सिर घूम रहा है-तबीयत परेशान है-कोई उपाय नहीं सूझता । सुरलोकका राज्य भी मिले तो क्या ? निष्कण्टक राज्यका राजा भी बन जाऊं तो उससे क्या मेरी यह जलन दूर होगी ?

(९) संजयने कहा:-इस प्रकार निद्राको जीतनेवाले अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहकर यह कहा कि-‘अब मैं न लड़ूंगा और आप चुप हो बैठा ’ ।

(१०) दोनों सेनाओंके बीच अर्जुनकी उस उदास मूर्त्तिको देख कर श्रीकृष्ण भगवानने हंसकर उससे कहा:—

(११) रे अर्जुन ! तू ऐसोंके लिये दुःख कर रहा है जिनके लिये दुःख करना अनुचित है ; और इसपर भी पंडित-ताईकी बातें करता है । पंडित कभी मरे जीतोंके लिये दुःख नहीं किया करते ।

(मरना जीना क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसपर दुःख किया जाय या खुशी मनायी जाय ? मरना नाम आत्माके मरनेका नहीं है, न जीना ही आत्माके जीनेका नाम है । यह देह जो पंच महाभूतोंसे अर्थात् पृथिवी (मिट्टी) आप (जल), वायु (हवा), तेज (आग), और आकाशसे बनी है वही देह मरती है, जीती है । आत्मा मरता जीता नहीं—यह शरीर धारण कर लेता है और फिर छोड़ भी देता देता है । वह यदि मरता नहीं तो उसके लिये दुःख क्यों ? आत्मा अमर, अजन्मा है । हमारे शरीरके अन्दर जो आत्मा है वह सदैव रहता है आर वही आत्मा हम हैं ; इस लिये—)

(१२) हम, तुम और ये राजा लोग सदासे ही हैं; पहले थे; अब भी हैं और इसके बाद भी सदा रहेंगे । हम लोग कभी न मरेंगे ।

(१३) देह धारण कर रहनवाले इस आत्माकी देहको ही जिस प्रकार बचपन, जवानी और बुढ़ापा आया करता है उसी प्रकार मृत्यु भी इसी देहकी ही होती है—उस मृत्युमे ममझदार मनुष्य नहीं डरा करते ।

(सुख दुःख सरदी-गरमी या भला बुरा किसीको तभी लगता है जब * इंद्रियोंपर बाहरी चिजोंका असर पड़ता है

* इंद्रियां १० हैं, यथा-१ आंख, २ कान, ३ जीभ ४ नाक

जैसे किसीकी सूरत तभी हमें अच्छी और बुरी मालूम होती है जब आंख उसे देखती है और उसकी तसवीर अन्दर बनाती है ; उसी तरह खट्टी, मीठी और तीती चीजें जीभसेही तालुक रखती हैं ; और नाक, कान, त्वचाका भी बू-बदबू, सुर बेसुर और सरदी गरमीसे यही संबंध है । तात्पर्य, इंद्रियोंका बाहरी वस्तुओंके साथ किसी तरहका मिलनाही खुशी या रंज पैदा करता है । इंद्रियोंके बाहरी वस्तुओंसे ऐसे मिलनेको मात्रास्पर्श कहते हैं ।)

(१४) मात्रास्पर्शही सरदी-गरमी या सुख दुःख देनेवाला है और यह मात्रास्पर्श कुछ आत्माकी तरह नित्य नहीं है ; यह आज है, कल नहीं ; इसलिये इसके भरोसे न रहो और जबतक ये इंद्रियां हैं और वे + विषयोंको स्पर्श करती हैं तबतक उन्हें झेल लो ।

(१५) हे पुरुषश्रेष्ठ ! ये इंद्रियां खुशी और रंजकी परवा न करनेवाले धैर्यवान् पुरुषको नहीं मतातीं । वही पुरुष मृत्युको लांघ कर अमर हो सकता है ।

५ त्वचा ६ हाथ, ७ पांव, ८ मुंह, ९ उपस्थ और १० गुदा । १ ली पांच ज्ञानेंद्रियां और २ री पांच कर्मांद्रियां कहाती हैं ।

+ पंच ज्ञानेंद्रियां पांच प्रकारके ज्ञान प्राप्त करती हैं अर्थात् कान शब्द सुनता है, त्वचा सरदी गरमी मालूम करती है, आंख रूप देखती है, जीभ रस चखती है और नाक बू लेती है । इंद्रियोंके यही पांच विषय कहाते हैं : १ शब्द, २ स्पर्श, ३ रूप, ४ रस, ५ गन्ध ।

ऐसे पुरुषकी मृत्यु नहीं होती ; जिसकी मृत्यु होती है वह उसकी देह है जिसे वह अपनी आत्मा नहीं समझता । देह मिट्टी, जल, आग आदिसे बनी है; आत्मा मिट्टी, या जल, या आग नहीं है । जिस मिट्टीको पैरोंतले रौंदते हुए हम चलते हैं, और जो जल, आग, आस्मान हवा हम रोज़ काममें लाते हैं वही मिट्टी, जल, आग, आस्मान, हवा इस देहमें है ; उन्हींकी यह देह है । वेही पांच तत्व मिल कर देह बन जाती हैं; जैसे वे अलग अलग पांच तत्व हैं वैसेही मिले हुए भी हैं । यदि उनके अलग अलग रहते हों उनकी परवा नहीं तो उनके एक स्थानमें एक रूप बनतेही हम उनकी परवा क्यों करते हैं ? यह देहही हम नहीं हैं—यह ज्ञान न रहनेसे हम अपनी देहको ही हम समझते हुए आत्माको—अपनेहीको—भूल जाते हैं । सच्ची बात भूल कर झूठी गले लगाते हैं । आत्मा जो सत्य है वह विन्दुइ जाता है और देह जो मिथ्या है वही आत्मा बन जाती है । परंतु सत्य छिपता नहीं—वह सदा रहता है और असत्यके बादल गरज कर, पानी बहाकर, सत्यको थोड़ी देर छिपाकर, चल जाते हैं । जो वस्तु सत्य है वही वास्तवमें है और जो मिथ्या है—नहीं है—वह नहींही जानिये ।

(१६) जो वस्तु मिथ्या है उसका रहना नहीं होता—वह रहही नहीं सकती और जो वस्तु सत्य है—वास्तवमें है—वह न रहे ऐसा नहीं हो सकता । (हमारा आत्मा—स्वयं हम—यदि वास्तवमें है तो वह नहीं है ऐसा कभी नहीं हो सकता) इस सत् और असत्के बारेमें जो सच्चा सिद्धान्त है (असत् कोई

पदार्थ नहीं है—निरा भ्रम है; और सत्ही सच और सदा रहने वाला है) उसे ज्ञानियोंने जाना है ।

(१७) वह सत् वस्तु सदा रहनेवाली है इसलिये उसका कभी नाश नहीं होता, यह समझ लो; यह सारा संसार उसीसे भर गया है; उसमें कभी कोई घटबढ़ नहीं होती और कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो उसका नाश कर सके ।

(१८) यह जो देह है वह तो छूटही जानेवाली है—इसका अन्त होनेही वाला है; परन्तु देहके अन्दर जो शरीरधारी आत्मा है वह अमर कहाता है, वह किसीके मारे मरनेवाला नहीं है; जिसकी मूर्त शकलकी तसबीर किसी चित्तारीके बनाये नहीं बन सकती, न किसीके शब्दचित्रमें वह उतर सकती है, उसीकी यह देह है जो नष्ट हो जाती है और जो मिथ्या है, इसलिये हे अर्जुन ! तू युद्धसे मुंह मत मोड़ ।

(१९) जो लोग इस आत्माको मारने या मरनेवाला कहते हैं वे मूर्ख हैं; क्योंकि यह आत्मा न किसीको मारता है और न मरताही है ।

(२०) यह आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता न कभी मरता है। यह भी संभव नहीं कि आत्मा पहले रहा और फिर नष्ट हो जाय अथवा फिर उत्पन्न हो; क्योंकि यह तो अजन्मा, निख, और अनादि है । शरीर मर जाय तो जाय पर आत्मा नहीं मरता ।

(२१) जो पुरुष इस प्रकार आत्माको अविनाशी, निख, अजन्मा और अव्यय समझता है वह किसको और कैसे मार सकता है या मर ही सकता है ?

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा—

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

(२२) जिस तरह फटे पुराने कपड़े फेंक कर मनुष्य नये कपड़े पहन लेता है उसी तरह फटे पुराने शरीरको छोड़ कर आत्मा नवीन शरीर पहन (धारण कर) लेता है ।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

(२३) इस आत्माको कोई शस्त्र छेद नहीं सकता । इसे आग जला नहीं सकती ; पानी इसे सड़ा नहीं सकता और गरम हवा इसे कभी सुखा नहीं सकती ।

(२४) यह घायल होनेवाली, जल जानेवाली, सड़नेवाली या सूखनेवाली वस्तु नहीं है । यह निख, सर्वत्र रहनेवाली, अचल, अटल, और अनादि है (अर्थात् कबसे है यह कोई भी नहीं जानता) ।

(२५) यह—इन आखोंसे—दिखायी नहीं देती ; किसी इंद्रियसे इसका पता नहीं लगता ; इसमें किसी तरहका हेर फेर नहीं होता ; इसलिये—यह जान कर—इसके लिये तुझे शोक न करना चाहिये ।

(२६) पर इसपर भी यदि तू इसे—देहकी तरह—रोज मग्नेवाला और जीनेवाला ममज्ञता है तो भी हे महाभुज ! तुझे इसके लिये शोक न कहना चाहिये ।

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपारेहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

(२७) जो जीता है—जन्म लेता है वह अवश्य मरता है ; और जो मरता है वह जरूर जन्म लेता है । इसमें किसीका बस नहीं चलता ; तब शोक करने से क्या लाभ ?

(किसीके आदिका पता नहीं लगता और किसीके अन्तका भी पता नहीं मिलता । कहाँसे कौन जन्म लेता है और मरकर कौन कहाँ जाता है, इसका पता किसको है ? इसलिये—)

(२८) सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है और सृष्टिकी वस्तुएं नष्ट होकर अन्तमें कहाँ जा मिलती हैं यह कोई नहीं जानता ; लोग केवल उसकी मध्यदशा—अर्थात् जीने और मरनेके बीचकी दशा जानते हैं । यदि यह दशा है—यदि मरने मारनेपर, क्या होनेवाला है यह तू नहीं जानता तो शोक किम बातका करता है ?

(२९) इस आत्माको कोई कोई एक आश्चर्य (अचरज) समझते हैं ; कोई मुंडसे कह देते हैं कि यह एक आश्चर्य है और कोई यह मुना करते हैं ; पर मुनकर भी इसे कोई नहीं जान लेता ।

(३०) शरीरको घर बनाकर रहनेवाला यह आत्मा नित्य और अमर—किसीके मारे न मरनेवाला—है ; यह सबके शरीर में रहता है । (संसारके सारे चर अचर इधर उधर हो जायँ, पर भिटे तो भी इसको कोई मार नहीं सकता—फिर)

इस संसारके विषयमें दुःख क्यों करता है ?

(३१) अरे, अपना क्षत्रिय धर्म देख कर भी तुझे युद्धमें हटते लज्जा आनी चाहिये ; धर्मयुद्धसे बढ़कर मंगल क्षत्रियका और क्या है ?

(३२) रे पार्थ ! यह युद्ध तो तेरे लिये अपने आप खुला हुआ स्वर्गका द्वार है; युद्धका ऐसा अवसर पुण्यात्मा क्षत्रियोंको ही मिलता है ।

(३३) इसपर भी यदि तू युद्ध न करेगा तो अपने धर्म और जस दोनोंसे हाथ धो पापका भागी बनेगा ।

(३४) सब लोग तेरी ऐसी निन्दा करेंगे जिसकी हद नहीं ; भले आदमीके लिये निन्दा सुननेसे मर जाना ही अच्छा है ।

(३५) विपक्षके जो बड़े बड़े महारथी हैं वे समझेंगे कि अर्जुन डर कर रणक्षेत्रसे पीछे हट गया ; पहले तो उन्होंने तेरी बहुत प्रशंसा और सन्मान किया, पर अब तुझसे वे घृणा करेंगे ।

(३६) तेरे जो शत्रु हैं वे तेरे बलकी निन्दा कर तुझे ऐसी बातें सुनावेंगे जिन्हें मुहपर लाना न चाहिये; क्या इससे भी बढ़कर और कोई दुःख है ?

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥

(३७) अरे ! युद्धमें यदि तेरा शरीर छूट जाय तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और यदि तू जीत गया तो इस भूमिका

वही राजा है । इसलिये रे अर्जुन ! युद्धके लिये कमर कस और तैयार हो जा ।

(३८) सुख और दुःखको एकसा समझ कर और उसी प्रकार लाभ-हानि और हार-जीतकी पर्वा न कर युद्धके लिये तैयार हो जा ; इससे कुछ तुझे पाप न होगा ।

(३९) यह मैंने तुझे सांख्य अथवा परमार्थका ज्ञान बताया है ; अब योग (कर्म योग)-की बात सुन जिसका ज्ञान हो जानेसे तेरा अज्ञान दूर हो ; और कर्म क्या है, कर्म किस प्रकार करना होता है और कर्म करनेसे तेरी क्या हानि और लाभ है, इस बातका ज्ञान हो जायगा । फिर तुझे कर्म करते मोह नहीं उत्पन्न होगा ।

(४०) कर्मयोगके अनुसार कर्म करनेसे किसी कर्मका आरंभ भी नाहक नहीं होता ; उसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पडती ; और थोड़े कर्मसे भी बड़ी विपद्से रक्षा होती है

(ऐसा कर्म करनेके लिये सबसे पहिली बात जो आवश्यक है वह यह है कि कर्म करनेवालेकी बुद्धि स्थिर-एकाग्र-इधर उधर न बहकने वाली होनी चाहिये । ऐसी बुद्धिका नाम ' व्यवसायात्मिका ' बुद्धि है ।)

(४१) व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है ; वह बुद्धि दूर दूर फैलकर कभी इस ओर और कभी उस ओर नहीं दौड़ने जाती । जिनकी बुद्धि ठिकाने नहीं है उन्हींका ऐसा हाल होता है !

(४२-४४) हे पार्थ ! स्थिर बुद्धि होने योग्य मनकी

अवस्था कदापि उन लोगोंको प्राप्त नहीं होती जिनकी इच्छा ही उनकी आत्मा है, जो लोग सन्मार्गसे हटकर मीठे मीठे वचनोंमेंही अटक गये हैं, जो ऐसेही वचनों में विश्वास करते हैं जिनमें कहा गया है कि अमुक कर्म करनेसे अमुक जन्म प्राप्त होगा और अमुक भोग भोगनेको मिलेंगे ; ऐसा कहनेवाले और माननेवाले दोनों ही मूर्ख हैं जो लोग वेदोंका तात्पर्य न समझ कर शब्दोंकी खैचतानमें लगे हैं ; जिनकी एक मात्र इच्छा स्वर्गकी प्राप्ति है और जो विषयचिन्तामें चूर हैं उन्हें कभी बुद्धिकी स्थिरता नहीं प्राप्त होती ।

(४५) वेदोंमें सत्व, रज, और तम इन्ही तीन गुणोंके विकाशका वर्णन है । अर्जुन ! तू इन तीनोंको लांघकर, सुख और दुःख, हानि और लाभ, सरदी और गरमी, हर्ष और विषाद मनसे दूर कर, सदा सत्वसंग हो; लाभ और लाभकी रक्षाका विचार छोड़ आत्मामें लीन हो जा ।

(इससे कुछ वेदोंकी महिमा कम नहीं हो जाती । श्रीकृष्ण भगवान् वेदोंको उतनेही पूज्य समझते हैं जितने वे वास्तवमें हैं पर यहां अर्जुनको यह उपदेश देते समय उन्होंने वेदोंके अगाध भंडारकी ओर उतना ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा है जितना उसके तात्पर्यकी ओर लक्ष्य किया है ; क्योंकि)—

(४६) ताल तलैयोंमें जो जल है वही जल अथाह समुद्रमें है । एक स्थानके जलसे जो काम निकलता है वही दूसरे स्थानके—महासागरके—जलसे निकलता है । इसी प्रकार

ब्रह्मज्ञानका अमृत जिसे थोड़ेहीमें मिल गया है उसके लिये अमृतमय बेदोंकी क्या आवश्यकता है ?

(४७) अर्जुन ! कर्म करनेहीभरका तेरा हक है ; फलका विचार करनेका तेरा अधिकार नहीं ; कदापि ऐसी इच्छा मत कर कि यह कर्म करनेसे मुझे अमुक फल मिलेगा ; पर कर्म न करने और चुप बैठ रहनेका विचार भी छोड़ दे ।

(४८) धन, स्वर्ग आदिको तुच्छ समझनेवाले हे अर्जुन ! परमात्मापर पूर्ण विश्वास रख, विमल चित्तसे, फलाफलकी आशानिराशा छोड़, हारजीतको समान समझता हुआ तू अपना काम कर । ऐसे ही सब सुखदुःखादिको एकसा समझना योग कहाता है ।

(४९) कर्म करते हुए उसके फलकी इच्छा छोड़ देनी चाहिये । यह ज्ञान सदैव रखकर जो कर्म किया जाता है उससे और तरहका कर्म—अर्थात् इच्छा विशेषसे किया जाने वाला कर्म बहुत हलके दरजेका है ; इसलिये ऐसा कर्म करना छोड़ दे और उच्च कर्मकी शरण ले ; इच्छा पूरी करनेके लिये जो लोग कर्म करते हैं वे अज्ञानी हैं ।

(५०) जो ज्ञानी हैं वे पाप और पुण्य दोनों छोड़ देते हैं—जिसे इच्छा ही नहीं रही उसे पापपुण्य किस बातका ? — इसलिये अर्जुन ! अपने मनको ठिकाने कर—सुख और दुःखके पीछे न दौड़े ; कर्म करनेमें यही कुशलता है और इसी कुशलताको योग कहत हैं ।

(५१) कर्मका फल छोड़कर जो ज्ञानी पुरुष अपना मन

ऊँचा रखते हैं वे जन्म-मृत्युके फेरसे झूटकर उम स्थानको जा पहुँचते हैं जहाँ कलेशका नामनिशान भी नहीं है ।

(५२) जब तेरी बुद्धि मोहका अज्ञान पार कर जायगी तब तूने आजतक जो कुछ ज्ञानकी बातें सुनी हैं और इस समय सुननेकी इच्छा है उन बातोंसे तेरा मन हट जायगा ।

(५३) नाना प्रकारके वेदमंत्रोंसे ध्वरायी हुई तेरी बुद्धि जय एक स्थानपर अचल-अटल हो जायगी तब तुझे योगियोंकी दशा प्राप्त होगी ।

अर्जुनः—

(५४) स्थितप्रज्ञके क्या लक्षण हैं ; उसके कैसे आचार-विचार होते हैं ?

श्रीकृष्णः—

(५५) मनकी सारी इच्छाओंको छोड़कर जब मनुष्य अपने आत्मासे ही संतुष्ट हो रहता है तब उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं ।

(५६) दुःखसे जिसका मन चलविचल नहीं होता ; सुख रहते जिसे मौज उड़ानेकी इच्छा नहीं रहती ; जो किसी-से नहीं डरता और किसीपर नहीं विगड़ता उसे स्थितधी * कहते हैं ।

(५७) संसारकी किसी वस्तुसे भी जो मनुष्य अति स्नेह नहीं रखता और जो शुभ और अशुभसे सुखी या दुखी नहीं होता उसकी बुद्धि स्थिर है ।

* स्थिरबुद्धिवाला, स्थितप्रज्ञ ।

(५८) जब ऐसा मनुष्य अपनी इन्द्रियोंको कछुएके समान सारे विषयोंसे खींच लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर कहाती है ।

(५९) जिस मनुष्यने इन्द्रियोंको काबूमें रखा है उस मनुष्यसे विषय दूर हो जाते हैं ; परन्तु उन विषयोंकी चाह एक बारगीही छूट नहीं जाती । यह चाह तभी छूटती है जब उसे परब्रह्मके दर्शन होते हैं ।

(६०) हे कुन्तिपुत्र ! बड़े बड़े यत्न करनेवाले बुद्धिमान पुरुषोंके मनको भी ये मदमत्त इंद्रियां बेवम कर मोह लेती हैं ।

(६१) इन सब इन्द्रियोंको अपने काबूमें ला मन निर्मल और निश्चिन्त कर मेरे ही ध्यानमें लग जाना चाहिये । इस प्रकार जिसकी इंद्रियां दबी हैं उसीकी बुद्धि स्थिर है ।

(६२) रूप, रस, गन्ध आदि विषयोंका ध्यान करनेवाले पुरुषका मन उन विषयोंकी ओर खिंच जाता है और उससे उस विषयकी प्रीति उत्पन्न होती है । ऐसी प्रीतिसे इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छासे ही क्रोध आता है ।

(६३) क्रोधसे अविचार, अविचारसे भ्रम, भ्रमसे बुद्धिका नाश और बुद्धिके नष्ट होनेसे जीवका सर्वनाश होता है ।

(६४) प्रीति-अप्रीति छोड़ इंद्रियोंको अपने काबूमें रखनेवाला संयमी पुरुष विषयोंका उपभोग करके भी प्रसन्नता लाभ करता है ।

(६५) इस प्रकार प्रसन्नता लाभ होनेपर इस पुरुषके सारे दुःख दूर जाते हैं । ऐसे प्रसन्नचित्त पुरुषकी बुद्धि बहुत शीघ्र स्थिर हो जाती है ।

(६६) जिसका चित्त ठिकाने नहीं है उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता । जिस मनुष्यका मन डावांडोल हो रहा है वह आत्माका ध्यान नहीं कर सकता । जो मनुष्य आत्माका ध्यान नहीं करता उसे शान्ति नहीं मिल सकती और जिसे शान्ति नहीं मिल सकती उसे सुख कब मिलनेवाला है ?

(६७) जिस मनुष्यका मन भटकनेवाली इंद्रियोंके पीछे पीछे दौड़ा करता है उसकी बुद्धिको उसीका मन वैसे ही नष्ट करता है जैसे पानीमें चलनेवाली नावको हवा चटानसे टकरा देती है ।

(६८) इसलिये हे अर्जुन ! जिस पुरुषकी इंद्रियां सब प्रकारसे विषय-विमुख हैं उसीकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिये ।

(६९) सारे संसारकी जो रात है वही इंद्रियोंका संयम करनेवाले पुरुषका दिन है; और जिसमें संसार जागता है उसे मुनी लोग रात समझते हैं

आशय यह है कि सांसारिक लोग जैसे विषयोंमें मगन रहते हैं वैसे संयमी नहीं रहते; और संयमी जो साधना करते हैं उससे सांसारिक लोग विमुख हैं ।

(७०) भरपूर भरे हुए परन्तु अपने स्थानपर अटल रहनेवाले समुद्रमें जिस प्रकार चारों ओरसे नदियोंका पानी आ मिलता है और समुद्रकी सीमा ज्योंकी त्यों बनी

रहती है उसी प्रकार जिस पुरुषके पास नाना प्रकारके विषय-विलास आते हुए भी उसकी मर्यादाको नहीं तोड़ सकते उसी पुरुषको शान्ति, सुख मिलता है; इच्छाके पीछे भटकनेवालेको नहीं ।

(७१) जो महापुरुष सारी इच्छाओंको छोड़कर उदासीन, मोहहीन, अभिमानरहित हो जाता है उसीको शान्ति मिलती है ।

(७२) हे पार्थ ! ब्रह्मपद प्राप्त करनेवाले पुरुषकी स्थितिका यह मैंने वर्णन किया । ऐसी स्थितिमें किसी प्रकार अविचार नहीं उत्पन्न होता । शरीर छूट जानेतक ऐसीही स्थितिमें रहनेसे ब्रह्मनिर्वाणकी प्राप्ति होती है ।

द्वितीय अध्याय समाप्त ।

तीसरा अध्याय ।

अर्जुनः—

(१) हे जनार्दन ! यदि तुम्हारी समझमें कर्ममे ज्ञानही श्रेष्ठ है तो तुम मुझे जान बूझकर इस घोर काममें क्यों लगाते हो ?

(२) तुम्हारी बातोंसे साफ साफ कुछ भी मतलब नहीं निकलता जिससे मेरी बुद्धि कोई काम नहीं करती । इसलिये ऐसी एक ही निश्चित बात बता जिममें मेरी भलाई हो ।

(३) श्रीकृष्णने कहा:—हे पापभीरु अर्जुन ! मैं पहिले ही ब्रह्मप्राप्तिके दो साधन बतला चुका हूँ । एक साधन ज्ञान-

योग है और दूसरा कर्मयोग । ज्ञानयोग ज्ञानियोंके लिये है और कर्मयोग स्वार्थत्यागी कार्यकर्त्ताओंके लिये ।

जिसका जैसा अधिकार हो—जैसी योग्यता हो—उसका वैसा ही साधन हुआ करता है । सभी मनुष्य ज्ञानयोगके आधिकारी नहीं हैं । ज्ञानयोग बड़ा कठिन साधन है । केवल काम करनेसे मुंह मोड़ लेना—आलस्यमें डूबे रहना—ज्ञानयोग नहीं कहाता ।

(४) काम करना बन्द कर देनेसे ही कोई कर्मके बन्धनोंसे नहीं छूट सकता । सन्याससे अर्थात् कामोंको छोड़ देनेसे कोई सिद्ध पुरुष नहीं बन सकता ।

(५) संसारमें कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पलपर भी बिना किसी प्रकारका काम किये रह सके । यह तो प्रकृतिका नियम ही है कि मनुष्य हर दम किसी न किसी काममें लगा रहता है—कामसे वह अपना पिंड नहीं लुड़ा सकता ।

इसलिये सब किसीको काम करना ही चाहिये । स्मरण रहे, जो आदमी चुपचाप बैठा रहता है वह इस मौनावस्थामें कोई न कोई खुराफात जरूर सोचा करता है । मन खुराफातोंमें लग जानेसे वैसे ही कार्य करनेकी ओर अधिक अधिक प्रवृत्ति होती है । वह मनुष्य बुराईका घर बनता है ; मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यह आलस्य ही है ।

(६) इस प्रकारका मनुष्य अर्थात् जो कोई काम नहीं करता और बैठे बैठे मनमें विषयोंका ध्यान किया करता

है वह सच्चा आदमी नहीं है—उसे मिथ्याचारी कहते हैं ।

(७) परन्तु जो मनुष्य मनको काबूमें रखकर सब काम किये जाता है वही उत्तम पुरुष है—उसीको ' असक्त ' कहते हैं ।

बात साफ समझमें आनेके लिये एक उदाहरण देते हैं । वर्षाऋतुमें नदीमें तरखा आया करता है । उस तरखेमें तैरना ज़रा टेढ़ी खीर है । यदि अपना शरीर संभाल रखनेकी सामर्थ्य न हुई तो मनुष्य तरखेमें बह जायगा आर किसी चट्टान या घाटकिनारेसे टकराकर उसका शिर चकनाचूर हो जायगा । ऐसी ही दशा उस सांसारिक मनुष्यकी है जो प्रपंचके कार्योंको करता हुआ उनसे प्राप्त होनेवाले आनन्दकी नदीमें बह जाता है । नदीमें क्या और संसारके कार्योंमें क्या बह जानेवालेकी बड़ी दुर्गति है । पानी काटकर तैरना चाहिये; और विषयोंकी लहरें हटाते हुए डटकर काम करना चाहिये—कर्तव्य समझकर काम करना चाहिये; उससे उठनेवाली क्षणिक सुखकी लहरोंसे बाज़ आना चाहिये । जो मनुष्य इस तरह काम नहीं करते उन्हे यह संसार दुःखमय मालूम होता है । परन्तु जो मनुष्य दिलकी कमज़ोरी दूर कर मनको अपने अधीन रखकर मर्दकी तरह काम करनेवाला है उसे इसी संसारमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है और उसे जरासे स्वार्थकी आशामें फँसने और फिर नाउमेदीके चट्टानसे टकरानेकी नौबत नहीं आती । इसलिये भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको यही उपदेश दिया है :

(८) तू अपना काम काम कर—अपना धर्म मत छोड़—तेरा जो कर्म है उसे अवश्य कर; क्योंकि कर्म न करनेसे कर्म करना ही अच्छा है। यदि अपना काम आप न करेगा तो तेरे शरीरकी रक्षा भी न हो सकेगी।

(९) जो काम, उस कामसे प्राप्त होनेवाले आनन्दके लिये अथवा और किसी स्वार्थके लिये, किये जाते हैं, वे मनुष्यको फंसाते हैं—उन कामोंकी बेड़ियोंसे मनुष्य जकड़ जाता है। इसलिये, हे कुन्तिपुत्र ! स्वार्थका त्याग करके कर्तव्यके लिये ही, कर्तव्य कर।

परमात्माने प्राणिमात्रको स्वतंत्र उत्पन्न किया है। प्राणीके साथ ही साथ परमात्माने एक ऐसी शक्ति उत्पन्न की है जिससे जीव अपनी सुखसामग्री बढ़ा सकते हैं। वह शक्ति स्वार्थत्याग है। इसीका नाम यज्ञ है। यज्ञहीसे मनुष्य सन्तान उत्पन्न करता और पालता पोसता है। यज्ञ ही मनुष्य देवताओं और सारे जीवोंको सन्तुष्ट रखता है। यज्ञहीसे सब अच्छे काम होते हैं। यज्ञहीसे देश और देव, जनार्दन तथा जनदेवताकी सेवा होती है। परमात्मा, प्राणिमात्र, मनुष्यजाति, अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार, तथा अपनी और अपने पड़ोसियोंकी, आसपास रहनेवालोंकी सेवाका ही नाम यज्ञ है।

इस यज्ञका भारतवर्षमें कैसा माहात्म्य था ! आर्योंके घर घर यज्ञ हुआ करते थे। आब्रह्मस्तम्बर्षयन्त, ब्रह्मा और ब्रह्माकी सारी मृष्टिके एक एक प्राणीको सन्तुष्ट करना प्रत्येक आर्यका धर्म है। अतिथिसेवा करना यह भी एक महायज्ञ है।

गो-यज्ञ भी ऐसा ही गो-सेवारूप महायज्ञ था । यज्ञ बड़ी पवित्र वस्तु है—यज्ञ महातेजस्विनी शक्ति है । यज्ञके बिना कोई काम नहीं होता । यह सृष्टि भी ब्रह्मके यज्ञका ही फल है । यज्ञहीसे यह सृष्टि हुई ; इसकी रक्षा भी यज्ञहीसे होती है । ऋषि मुनियोंकी सन्तानोंको इस यज्ञका माहात्म्य समझना चाहिये । श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं :

(१०) ब्रह्माने प्रजाके साथ साथ यज्ञ उत्पन्न करके कहा कि, हे प्रजाओ ! इसका उपयोग कर (स्वार्थसाग कर) तुम लोग खूब फलो फूलो और अपनी इच्छाओंको इसके द्वारा पूर्ण करो ।

यह स्वावलंबन और स्वार्थसागकी शिक्षा कितनी अनमोल है ! भारतवाभियों ! अपने बलपर खड़े होना सीखो ; अपना सारा भरोसा एक यज्ञहीपर रखो ; स्वार्थत्याग ही तुम्हारी कामधेनु है । संसारमें ऐसा भी कोई पदार्थ है जो स्वावलंबन और स्वार्थसागसे प्राप्त न हो ?

(११) इस यज्ञके द्वारा पूज्य पुरुषों और महात्माओंकी रक्षा करो—उन्हे संतुष्ट करो ; और इसी यज्ञसे वे पूज्य देवता तुम्हारा कल्याण करें । इस प्रकार एक दूसरेको मदद कर तुम ब्रह्मपद प्राप्त करो ।

(१२) तुम्हारे यज्ञसे संतुष्ट होकर देवता तुम्हारी इच्छाओंको पूरी करेंगे ; परन्तु देवताओंके दिये दानका जो बिना लौटाए ही उपभोग करता है वह चोर है ।

(१३) यज्ञ करके—सबको संतुष्ट कर अपने लिये जो

वच जाय उमपर ही संतुष्ट रहनेवाला सज्जन सब पापोंसे मुक्त होता है । और जो लोग दूसरोंको कुछ देना नहीं चाहते— बिना यज्ञ किये—आव्रस्तम्बपर्यन्त सब जीवोंको बिना आद्वैति दिये ही—अपने पेट भरनेकी फिक्र करते हैं—जो अपने ही लिये रसाई बनाते हैं वे पापके भागी बनते हैं ।

(१४) अन्नमे ही प्राणी उत्पन्न होते हैं । और अन्न वृष्टिमे पैदा होता है । वृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ कर्मका फल है ।

(१५) कर्म ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ और ब्रह्म स्वयं भगवानसे । इस प्रकार ब्रह्म सब जगह सब समय और सब यज्ञोंमें वर्तमान है ।

(१६) जो इस प्रकार ब्रह्म, कर्म, यज्ञ आदिके चक्रके पीछे पीछे नहीं चलता अर्थात् जो सत्कर्म करके ब्रह्मप्राप्तिकी चेष्टा नहीं करता वह व्यर्थ ही जीता है—वह इन्द्रियोंके वशमें रहता हुआ पापका भागी होता है ।

* * *

(१७) उम आदमीकी वात ही जुदा है जिमे आत्मज्ञान हो चुका है—जो आत्मामें ही रत, तृप्त और संतुष्ट है उस मनुष्यके लिये कोई कार्य ही करना बाकी नहीं है ।

(१८) वह कोई कार्य करे या न करे तो भी उमकी कोई लाभहानि नहीं है । इस संसारमे उमे किसीके मतलबके लिये किसीके मुंहकी ओर ताकनेकी ज़रूरत नहीं ।

* * *

(१९) इसलिये हे अर्जुन ! तू सदा अमक्त होकर—इच्छा छोड़कर—कर्तव्य कर । इस तरह जो कर्तव्य करता है वह परम पदको प्राप्त करता है ।

(२०) कर्मके ही बलपर जनक आदि राजर्षि और ब्रह्मर्षियोंने मोक्ष लाभ किया । कर्मसे कम लोगोंको काममें लगानेके लिये तुम्हें कर्म करना चाहिये ।

विद्वानोंपर इस बातकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि लोग अपनी इस शोचनीय और अनिश्चित अवस्थामें कौन काम करें, कौन सुधार करें, कैसा पहिराव पहिरें, कौन भाषा बोलें, किन विचारोंको विचारें, संक्षेपमें उनकी कैसी रहन सहन हो । यह जिम्मेदारी उन विद्वानोंपर है जो अपनेको विद्वान् समझते हुए देशकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं । वे जैसी रहन सहन लोगोंमें चलाना चाहते हैं उस ढंगसे उन्हें खुद रहना चाहिये । उन्हें स्मरण रखना चाहिये:

(२१) श्रेष्ठ पुरुष जो जो काम करते हैं वे ही काम सर्व साधारणमें अच्छे समझे जाते हैं और उन्हींका अनुकरण होता है । वे जिस बातको प्रमाण मानते हैं सर्वसाधारण भी उसी बातपर पूरा भरोसा रखते हैं ।

भगवान् श्रीकृष्णको ही देखिये । क्या उन्हें इस सारे संसारके भीतर-बाहरका ज्ञान नहीं था ? वे पूर्ण ज्ञानी पुरुष थे । परन्तु सर्वसाधारणमें जोश फैलाने और उन्हें सत्कर्ममें लगानेके लिये उनका जीवन कैसा ज्वलन्त कर्ममय हुआ है । उन्हींके वचन सुनिये:—

(२२) तीनों लोकोंमें मेरे लिये कोई काम बाकी नहीं है ; कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझे न मिली हो या जो मुझे प्राप्त करनी हो । फिर भी मैं कर्म करता हूँ ।

(२३) अगर मैं चुपचाप हाथपर हाथ धरके बैठ रहूँ और कोई काम न करूँ तो सभी मनुष्य मेरी देखादेखी सुस्त और निकम्मे बन जायेंगे ।

(२४) अगर मैं कर्म न करूँ तो यह दुनियां तहस नहस हो जायगी और मनुष्यजातिकी वरवादी और वर्णसंस्कारका मैं ही कारण बनूंगा ।

(२५) जिस प्रकार स्वार्थकी इच्छासे मूर्ख लोग कर्म करते हैं उसी प्रकार हे अर्जुन ! विद्वान् पुरुष लोगोंकी भलाई सामने रखकर कर्म किया करते हैं ।

(२६) (संसार निःसार है—तुम्हारे देवीदेवता जड़ हैं—तुम जिन रीति-रस्मोंको मानते हो वे धर्म नहीं हैं इत्यादि बातें कहकर फलकी) इच्छासे कर्म करनेवाले मूर्ख जनोंके दिलमें जमे हुए और उपकार करनेवाले विश्वासको हटानेकी चेष्टा न करो । विद्वान्को चाहिये कि वह स्वयं कर्म करके अपने उदाहरणसे सब प्रकारके सत्कर्मोंमें लोगोंको लगावे ।

(२७) जितने काम होते हैं वे सब प्रकृतिके नियमसे ही होते हैं उसमें गर्व करना मूर्खोंका काम है । वह मूर्ख है जो समझता है कि अमुक अच्छा काम मैंने किया है ।

(२८) हे महाबाहु ! जो ज्ञानी पुरुष गुण और कर्मका संबंध जानता है वह समझता है कि मैं खुद कोई काम

नहीं करता—मेरी इन्द्रियां ही विषयोंसे व्यवसाय करती हैं । यह समझता हुआ वह विषयोंके भुलावेमें नहीं फंसता ।

(२९) जो लोग प्रकृतिके नियमोंको नहीं जानते वे ही प्रपंचके कार्योंको करते हुए बेवस हो जाते हैं । ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, जो सत्यका ज्ञान नहीं रखते, उन लोगोंमें जो विश्वास जमे हुए हैं उन्हें हटाना ज्ञानी पुरुषको उचित नहीं है ।

(३०) मनको बहुत ऊंचा करके परब्रह्मका स्मरण कर सब काम मुझे अर्पण कर, फलकी इच्छा छोड़, अहंकारको परियाग करके मनसे सारे विकार हटा युद्धकी तैयारी कर ।

(३१) जो मनुष्य श्रद्धा और शुद्धताके साथ मेरे इस उपदेशको सदा मानते है वे भी कर्मोंके बंधनोंसे छूटते हैं ।

(३२) परन्तु जो मेरी इस शिक्षामें दोष देखते हुए इस नहीं मानते, स्मरण रखो, उनका चित्त ठिकाने नहीं है, उनकी बुद्धि मारी गयी है और वे बड़ भारी मूर्ख हैं ।

(३३) (मनुष्यकी प्रकृति बड़ी विचित्र है) विद्वान्को भी उस प्रकृतिके बसमें आना पड़ता है । सभी प्राणी प्रकृतिके अधीन होते हैं ; इन्द्रियोंको लाख रोकनेसे भी क्या होगा ?

(३४) प्रत्येक इन्द्रियमें राग और द्वेष होता है ; एक विषय उसे पसंद आता है तो दुसरेसे उसकी घृणा होती है । इस रागद्वेषके अधीन न होना चाहिये ; क्योंकि ये ही राहके काँट हैं ।

देशमेवारूप महायज्ञ करनेके कई मार्ग हैं । कोई ब्राह्मण व्रत धारण कर देश देश घूमकर लोगोंको शिक्षा देता है ;

कोई क्षात्रधर्मका अवलंब कर अपने भुजबलसे देशकी रक्षा करता है, कोई संसारके बाजारमें अपने देशका गौरव बढ़ानेके लिये नाना प्रकारके व्यवसायोंको बढ़ाता है ; और कोई अपनी माता वसुन्धराको समृद्ध करनेकी चेष्टामें अपनी देह अर्पण कर देता है। ये सभी मार्ग और सभी धर्म अच्छे हैं—कोई किसीसे हीन नहीं। यदि किसीकी दृष्टिमें, मनके भुजावसे, एक मार्ग दूसरेसे अच्छा प्रतीत हो तो भी उसे अपना मार्ग न छोड़ना चाहिये। इस समय अर्जुन क्षत्रियका काम कर रहा है। श्रीकृष्ण भगवानके मुखसे सन्यासी महात्माओंकी प्रशंसा सुनकर उसे यदि सन्यासी बन जानकी इच्छा हो जाय तो क्या युद्धसे मुड़कर उसे जंगलकी किसी खोहमें चल देना चाहिये ? कदापि नहीं।

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

अपना धर्म—अपना जीवन—हीन भी हो तो वह दूसरेके धर्मसे अच्छा ही है। अपने धर्मकी रक्षा करते हुए मर जाना अच्छा है ; दूसरेके धर्ममें बड़ा भय है। अपनी जाति, कुल और परिस्थिति, इन तीन बातोंका पूर्ण विचार कर जो धर्म निश्चित होता है उसके पालनमें सदा तत्पर रहना चाहिये ; क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तब सोच समझ करही जन्म लेता है। जन्म लेनेके पश्चात् उसे उसकी जाति, कुल और परिस्थिति उसके उद्देश्यका स्मरण कराती है। यदि किसीका जन्म ऐसे कुलमें अथवा ऐसी जातिमें हुआ है जिसे कुछ लोग

‘ हीन ’ समझते हैं तो भी उसे लज्जित होकर अपना धर्म परित्याग न करना चाहिये ; क्योंकि मनुष्यकी प्रतिष्ठा जन्म-में नहीं है—कर्तव्य पालनमें है सचाई और निपुणाई के साथ जो मनुष्य अपना काम—फिर वह लोगोंकी दृष्टिमें कितना ही ‘ हीन ’ क्यों न हो—करता है, उसीका शिर ऊंचा होता है ; क्योंकि वह अपना कर्तव्य पालन करता है ।

निग्रह करनेपर भी—इंद्रियोंको रोकते हुए भी—प्राणीका बेबस हो जाना सुनकर अर्जुनको यह बड़ा आश्चर्य मालूम हुआ कि मनुष्य यदि इन्द्रियोंको रोकता है तो फिर उसे जबरदस्ती बुरे कर्मोंमें कौन लगाता है ? इसी प्रश्नको अर्जुनने इस प्रकार पूछा है ।

(३६) हे वाष्णेय ! पुरुषकी इच्छा न होनेपर भी जबरदस्ती उसे पाप करनेके लिये कौन प्रवृत्त करता है ।

श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं ।

(३७) पुरुषकी प्रकृतिमें जो रजोगुण है उससे इच्छा और क्रोध उत्पन्न होता है । ये इच्छा और द्वेष सबको खा डालते हैं, ये पापी हैं मनुष्यके शत्रु हैं ।

(३८) जैसे धूपसे और धूलसे दर्पण, और गर्भकी झिल्लीसे बालक ढँका रहता है वैसे ही इस इच्छासे ज्ञान ढँका रहता है ।

(३९) यह इच्छा ज्ञानियोंकी नित्य शत्रु है । ज्ञानको यह ढांके रहती है । यह इच्छारूपी आग है जो विषयोंको पाकर धधकती ही जाती है ।

(४०) इसके रहनेका ठिकाना इन्द्रिय, मन और बुद्धि है। इन्हींको लेकर यह इच्छा, देह धारण किये हुए इस आत्मापर परदा डाले उसे मोहित कर लेती है।

(४१) इसलिये हे अर्जुन, सबसे पहिले इन्द्रियोंको अपन वशमें लाकर ज्ञानका नाश करनेवाले इस कामको—इच्छाको—मार।

(४२) इन्द्रियां शरीरके परे हैं ; इनके परं मन है और मनके परे बुद्धि है; और बुद्धिके भी परे वह आत्मा है।

(४३) इस प्रकार हे अर्जुन ! उस आत्माको बुद्धिके परं जानकर और मनको स्थिर करके उस प्रबल शत्रु-कामको मार।

तीसरा अध्याय समाप्त।

चौथा अध्याय।

तृतीय अध्यायमें भगवान् श्रीकृष्णाने अर्जुनको कर्मयोगका महत्व बता वासना छोड़ कर्म करनेकी शिक्षा दी। इस अध्यायमें वही बात ज्ञानयोगका महत्व बताकर कही है। ज्ञानयोग और कर्मयोगको एक ही सिद्ध किया है और कर्म करनेके लिये विशय रूपसे शिक्षा दी है। इस अध्यायका विषय कर्मसंन्यास योग है। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं ;

(१) यह कर्मयोग—कर्म करनेका उपदेश जो तुझे मैंने अभी बतलाया है, पहिले वह विवस्वत् अर्थात् सूर्यदेवसे*कहा था। सूर्यने मनुसे कहा और मनुने इक्ष्वाकु राजाको बतलाया।

(२) इस प्रकार होते होते यह योग राजर्षियोंने जाना।

* यह सूर्यवंशका मूल पुरुष हुआ।

फिर कालके फेरमें पड़कर यह योग नष्ट भी हो गया था ।

(३) वही प्राचीन योग मैंने आज तुझे बताया है । तू मेरा भक्त और मित्र है ; इसलिये यह रहस्य मैंने तुझपर प्रकट कर दिया ।

अर्जुनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि विवस्वत या मनुको हुए इतने हजार वर्ष हो गये और अभीके इन कृष्णाने उन्हें यह ज्ञान कैसे बताया और क्या किया ! इसलिये वह पृच्छता है ।

(४) तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है; सूर्यको हुए जमाना बीत गया । फिर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि तुमने ही उसे यह ज्ञान बतलाया ?

श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं:

(५) हे अर्जुन ! मेरे अनेक जन्म हुए हैं जिनका मुझे स्मरण है । तेरे भी अनेक जन्म हुए, पर उन्हें तू नहीं जानता ।

(६) मैं अजन्मा हूँ—मुझमें कोई विकार या दोष नहीं है और सारी पृथिवियोंका मैं स्वामी हूँ । तौभी मैं अपनी मायासे प्रकृतिके सहारे, उत्पन्न हुआ करता हूँ ।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

(७) हे अर्जुन ! जब जब संसारसे धर्म उठ जाता है और अधर्म तथा अधर्मियोंकी सत्ता होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ ।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

(८) देशकी सेवा और संसारका उपकार करनेवालोंको बचानेके किये और उनपर अत्याचार करनेवाले पापियोंको भूलमें मिलानेके लिये, और साथ ही मन्त्र धर्मकी स्थापना करनेके लिये मैं हर युगमें—जब जब जरूरत हो तब तब—संसारमें अवतीर्ण होता हूँ ।

(९) जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्मका रहस्य जान लेता है वह यह देह छोड़ देनेपर फिर मृत्युलोकमें नहीं आता—वह मुझमें ही मिल जाता है ।

(१०) आजतक इस प्रकारसे कितने ही पुरुष मुझमें मिल चुके हैं । ऐसे पुरुष कर्म करते हुए फलकी इच्छा छोड़ देते हैं, भय और क्रोधको पास फटकने नहीं देते; वे मेरे ही हैं—मेरी ही शरणमें रहते हैं, ज्ञानमें उनका मल दूर हो गया है और वे मेरे ही रूप हो गये हैं ।

(११) मेरी जो जैसी भक्ति करता है वैसी ही मैं उसे स्वीकार लेता हूँ । हे पार्थ ! मनुष्य चाहे जिस मार्गमें चले सब मार्ग मेरे पास पहुँचाते हैं ।

श्रीकृष्ण भगवान्का यह वचन है:—“ मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः । ” चाहे जिस मार्गमें चलिये, प्राणीमात्रको अन्तमें वहीं पहुँचना है । परमात्मा ही आत्माका अन्तिम साध्य है । प्रत्येक प्राणी अन्तमें उसी परमात्मामें मिलनेवाला है पापी हो तो क्या और पुण्यात्मा हो तो क्या, सब किसीका वही पहिना और आखिरी मुकाम है—वही हमारा घर है । यदि घर जाना है तो घर जानकी बात भूलनेसे काम

न चलेगा ! जबतक हम यह बात भूलते रहेंगे, निश्चय जानिये, तबतक हम भटकते ही रहेंगे। इससे क्या मतबल हासिल होगा ? जो पुण्यात्मा हैं वे सीधे और शीघ्र पहुँचेंगे और जो मच्ची राहपर नहीं हैं उन्हें पार पहुँचनेमें देर लगेगी—पेशानी होगी और पछतावा होगा। जैसे हरेक मनुष्यको मरना है पर लोग भूल जाते हैं कि हमें मरना है जिसका परिणाम यह होता है कि बहुतेर मरनेकी तैयारी तो नहीं करते और वक्त आनेपर मर जाते हैं, कभी सड़कर मरते हैं और कभी मृत्यु उन्हें घसीट ले जाता है। ऐसी दशा न हो यह प्रत्येक मनुष्यकी इच्छा है, इसलिये उसको वैसी ही तैयारी करनी चाहिये। ऐसी ही जहाँ हमें जाना है वहाँकी तैयारी हमें करनी चाहिये। जो मनुष्य मृत्युकी तैयारी करता है वह वहाँ जानकी भी तैयारी करता है।

खैर, बहुतसे लोग इन बातोंको भूल जाते हैं और अपनी थोड़ीसी जिन्दगीको विषयोंके क्षणभरके आनन्दपर बेच देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवनको सुखकर बनानेके लिये परिश्रम करते हैं। उनके परिश्रम शुद्ध होनेपर भी फलकी इच्छामें हुआ करते हैं। इनके संबंधमें श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं :

(१२) जो लोग अपने कर्मोंकी सिद्धि चाहते हैं वे मृत्युलोकके देवताओंकी पूजा करते हैं। मृत्युलोकमें कर्मकी सिद्धि बहुत शीघ्र होती है।

जो वस्तु जितनी कीमती होती है वह उतने ही अधिक

परिश्रम और देरसे मिलती है। सुवर्ण ढूँढने जाइये, तो कितने परिश्रम करने पड़ेंगे। मिट्टीके लिये परिश्रम नहीं करने पड़ते। आफिसका मुहर्नरि यदि अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहे तो उसे अपने अफसरकी ही पूजा—खुशामद—करनी पड़ती है। जो मनुष्य खुशामद नापसंद करता है, अकेले परमात्माको छोड़ किसीसे नहीं डरता, और देशका कल्याण किया चाहता है उसे धन, कीर्ति, सुख, स्वास्थ्यादि सभी वस्तुओंको जलाञ्जलि देनी पड़ती है। तात्पर्य, इसी जन्मको जन्म मानकर, भविष्यतका विचार छोड़, जिसे थोड़ासा ही स्वार्थ साध लेना है उसे बहुत परिश्रमोंकी आवश्यकता नहीं। परन्तु मनुष्यकी बुद्धि केवल अपने ही लिये या इसी जन्मके लिये नहीं है।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

तस्य कर्त्तारमपि मां विद्ध्यकर्त्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥

(१३) मनुष्योंके गुणों और कर्मोंको देखकर उनके अनुसार मैंने चार वर्ण बनाये । (ब्रह्मका ज्ञान रखनेवाले और संसारका उपकार करनेवाले पुरुषोंको ब्राह्मण बनाया ; उनके उपदेश मानकर भुजबलसे उनकी और अपने देशकी, मनुष्यमात्रकी रक्षा करनेवालोंको मैंने क्षत्रिय बनाया और धनसे समाजकी सेवा करनेवालोंको वैश्य तथा तीनों वर्णोंको सहायता करनेवाले मनुष्योंको मैंने ही शूद्र नाम दिया ।) यह सब मैंने ही किया ; पर मुझे अकर्त्ता और अव्यय समझना ।

क्योंकि मेरी शक्ति कभी खर्च नहीं होती । संसारकी घटनाओंसे मेरी शक्ति न बढ़ती है और न घटती है । मेरे सब काम ऐसे होते हैं मानों अपने आप हो रहे हैं ।

(१४) कर्म मुझमें कोई हेरफेर नहीं कर सकते—किसी प्रकारका दोष नहीं डाल सकते; और न कर्म करके उमके फलकी मुझे इच्छा होती है । मेरा यह हाल जो जानता है वह भी किसी कामसे नफा-नुकसान नहीं उठाता—उसपर कामका कोई असर नहीं पड़ता ।

(१५) इस बातको अच्छी तरह समझकर इससे पहिले कितने ही पुरुषोंने मोक्षकी इच्छासे निष्काम कर्म—इच्छा-रहित कार्य—किये हैं । पूर्वजोंने प्राचीन समयमें जैसे कर्म किये तू भी वैसे ही कर ।

(१६) बड़े बड़े पंडित लोग भी इस बातका निश्चय नहीं कर सकत कि कौन कर्म है और कौन नहीं—कौन काम करना चाहिये और कौन न करना चाहिये । इस लिये मैं तुझे यह उपदेश देता हूं जिससे तू बुरे कामोंसे बचेगा ।

(१७) कर्म, अकर्म, और विकर्मको जानना आवश्यक है । (वेदमें जो कर्म बताये गये हैं वे कर्म हैं; कर्मका न होना अकर्म है और वेदके विरुद्ध जो कर्म हैं वे विकर्म कहाते हैं ।) कर्मकी गति बड़ी विचित्र है ।

(१८) जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता और अकर्ममें कर्म देखता है (अर्थात् जो कर्म और अकर्मको बराबर समझता है), मनुष्योंमें वही बुद्धिमान है, वही योगी है और वही

सब काम कर चुका है ।

(१९) पंडित लोग उसीको पंडित समझते हैं जिसके सब कार्य वासना-रहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञानरूप अग्निसे भस्म किये जाते हैं ।

(२०) जिसने कर्मके फलोंमें अपना मन निकाल लिया है; जो स्वयं तृप्त है और स्वतंत्र है—किसीकी शरण लेनेवाला नहीं है—वह कर्म करता हुआ भी उसके असरसे अलग रहता है ।

(२१) जिसने अपने इन्द्रियोंको और मनको जीत लिया है, सब इच्छाओंको त्याग अपने सब बन्धन तोड़ डाले हैं; वह केवल शरीरसे कर्म करता है और पापका भागी नहीं होता ।

(२२) जो अपनी स्थितिसे संतुष्ट है अर्थात् बुरी अवस्था होनेपर जो न घबराता है और अच्छी दशा आनेपर न फूलता है—सुख दुःखमें एकसा रहता है, जो किसीसे डाह नहीं करता, काम बनने या विगड़नेसे जिसकी तवीयतमें फर्क नहीं आता, वह कर्म करता हुआ भी उससे स्वतंत्र रहता है ।

(२३) जो पुरुष संग छोड़कर, स्वतंत्रताके साथ, आत्मामें चित्त लगाकर, लोकोपकारके लिये कर्म करता है उसके सारे कर्म प्रकृतिमें मिल जाते हैं ।

(२४) स्वयं ब्रह्मरूप बनकर जो पुरुष ब्रह्मको ही सामने रख, ब्रह्मरूप अग्निमें ब्रह्मरूप आहुति देता है वह ब्रह्ममें ही लीन हो जाता है ।

‘एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति’ का सच्चा ज्ञान हो जानपर पुरुष जो कर्म करे वही ब्रह्मकर्म है । उसका यज्ञ ब्रह्मयज्ञ ही है; उसके लिये ब्रह्म ही अग्नि और हवि है । क्योंकि संसार ही ब्रह्ममय है ।

(२५) कुछ योगी लोग इन्द्रवरुणादिको संतुष्ट करनेके लिये यज्ञ करते हैं; परन्तु जो ज्ञानयोगी हैं वे ब्रह्मरूप अग्निमें ही यज्ञ करते हैं ।

(२६) कुछ योगी संयमरूप अग्निमें कान आदि इन्द्रियोंकी आहुति देते हैं अर्थात् इन्द्रियोंको कावृषमें लाते हैं (यह भी यज्ञ ही है) । और कुछ योगी शब्दादि विषयोंको इन्द्रियरूप अग्निमें डालकर यज्ञ करते हैं अर्थात् प्रपंचके कार्य करते हुए, खाते पीते भोग भोगते हुए, विषयोंके स्वादसे इन्द्रियोंको अलग रखते हैं ।

(यहां पहिले प्रकारके योगियोंका ब्रह्मचारियोंमें मतलब है । और दूसरे प्रकारके योगी गृहस्थ हैं) ।

(२७) कुछ लोग इन्द्रियोंके सब कर्मोंका तथा प्राण-कर्मोंका, ज्ञानसे प्रज्वलित आत्मसंयमयोगरूपी अग्निमें यज्ञ करते हैं, अर्थात् समाधि लगाकर आत्माका ध्यान करते हैं ।

(२८) कोई द्रव्ययज्ञ करते हैं—अर्थात् द्रव्य दान कर उपकार करते हैं; कोई तपस्या करते हैं, कोई योग साधना करते हैं; कोई वेदोंका नित्य अध्ययन करते हैं; कोई अपना ज्ञान बढ़ाते जाते हैं ।

(२९) कुछ लोग अपानवायुमें प्राणवायुको मिला देते

हैं; कुछ लोग प्राणवायुमें अपानवायुका होम करते हैं और प्राणवायु तथा अपानवायुकी गति रोककर प्राणायाम में रत रहते हैं।

प्राणायाम भी एक यज्ञ है—एक प्रकारकी उपासना है। इसका रहस्य समझनेके लिये शरीरके अन्दर जो हवा है उसके भेदोंका ज्ञान जरूरी है। हृदयमें जो वायु है उसका नाम 'प्राण' है; जो वायु गुदामें है वह 'अपान' कहाती है; जो वायु नाभिमें है वह 'समान' है; कंठदेशमें जो वायु है उसे 'उदान' और सारे शरीरकी वायुको 'व्यान' कहते हैं। ये पांच प्रकारकी हवाएँ पांच प्राण कहाती हैं। इन प्राणोंका नियमन करना—इन प्राणोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जाना, इनका चलना बंद कर देना और सारे प्राणोंको अपने कावृमें लाना प्राणायाम कहाता है।

जिस विधिसे प्राणवायु अर्थात् छातीमें रहनेवाली हवा अपानवायुमें अर्थात् नीचेकी हवामें लायी जाती है वह विधि पूरक कहाती है; जिस विधिसे अपानवायु प्राणवायुमें लायी जाती है उस विधिको नाम रचक है; और जिस रीतिसे प्राण अपान दोनों हवाओंको रोककर हवाका चलना बंद किया जाता है वह विधि कुंभक कहाती है। ये तीन प्रकारके प्राणायाम हुए। प्राणायाम करनेसे बुद्धि तीव्र होती है; मन प्रसन्न रहता है; रोग दूर होते हैं। यह वायुदेवकी उपासना है। इससे अपने अन्दर जो एक सृष्टि है उसके वायुमंडलका अधिकार मिलता है।

(३०) कुछ लोग हिसाबी खाना खाते हैं और प्राण-वायुमें प्राणका ही हवन करते हैं । ये सब लोग यज्ञका रहस्य जानते हैं और यज्ञके कारण इनके पापोंका नाश हो जाता है ।

(३१) यज्ञ कर चुकनेपर अर्थात् अतिथि—आगन्तुक आदि सबको सन्तुष्ट करनेके बाद जो कुछ अपने लिये बच जाय वह अमृत है । इस अमृतको पीनेवाले सनातन ब्रह्मके पास जाते हैं । हे कुरुकुलके दीपक ! जो लोग किसी प्रकारका यज्ञ नहीं करते, यह संसार उनके लिये नहीं है ।

यज्ञ न करनेवालोंको यह दुनियां छोड़कर चल देना चाहिये । क्योंकि संसारमें आकर यदि कुछ करना है तो यज्ञ ही करना है । वेदव्यास कहते हैं:—“ द्रावेवाप्सु प्रवेष्टव्या कण्ठे बध्वा दृढां शिलाम् । धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्वि-नम् ॥ ” अर्थात् दान न देनेवाले अमीर और तपस्या न करनेवाले गरीबके गलेमें पजवृत पत्थर बांधकर दानोंको गहरे पानीमें डबो देना चाहिये; क्योंकि ये किसी कामके नहीं होते ।

(३२) इस प्रकार कितने ही यज्ञ ब्रह्मदेवने बतलाये हैं । ये सब यज्ञ कर्मसे होते हैं; इस बातका ज्ञान होनेसे तेरी मुक्ति होगी ।

(३३) द्रव्ययज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है । क्योंकि सब कर्मोंका अन्त वही ज्ञान है ।

(३४) नम्रता स्वीकार करके अर्थात् शिष्यकी तरह, गुरुकी सेवा कर, विचारपूर्वक नाना प्रकारके तर्क करते हुए वह ज्ञान प्राप्त कर । मयको जाननेवाले गुरु प्रसन्न होकर तुम्हें वह ज्ञान देंगे ।

(३५) वह ज्ञान प्राप्त होनेपर फिर तुझे भ्रम न होगा—तेरे ज्ञाननेत्र खुल जायेंगे । उस ज्ञानको लाभ करनेसे यह सारा संसार तुझे अपनासा-अपनेमें ही-दिखायी देगा, और मेरे ही अन्दर सारी सृष्टि दिखायी देगी ।

आत्मा क्या है ? परमात्मा कौन है ? यह देह क्या है ? इस पृथ्वीका आत्मा कौन है ? इन प्रश्नोंका खुलासा हो जानेसे फिर संसारकी भिन्न भिन्न वस्तुएँ अपनेसे भिन्न नहीं मान्य हो सकती । क्योंकि यह पृथ्वी जिस आत्माकी देह है उसी अन्तरात्मा—परमात्माकी यह मनुष्यदेह भी है ।

(३६) तू सब पापियोंमें भी सबसे नीच पापी क्यों न हो, उस ज्ञानकी नौकापर चढ़नेसे तू इस पापसमुद्रको पार कर जायगा ।

(३७) जिस प्रकार धधकती हुई आग सब लकड़ियोंको जला डालती है उसी प्रकारसे वह ज्ञानरूपी अग्नि सारे पापोंको भस्म कर देती है ।

(३८) इस संसारमें ज्ञानके समान और कोई पवित्र वस्तु नहीं है । योगका अभ्यास करनेसे मनुष्यको कुछ कालके अनन्तर यह ज्ञान आप ही आप प्राप्त हो जाता है ।

उस ज्ञानके लिये योगका अभ्यास करना पड़ता है । मन ठिकाने रखकर इन्द्रियोंको स्वाधीन करके आत्माकी चिन्ता करनेसे आत्मज्ञान होता है ।

(३९) श्रद्धा, निष्ठा और जितेन्द्रियताके साथ आत्माकी चिन्ता करनेसे वह ज्ञान प्राप्त होता है । वह ज्ञान प्राप्त होते ही

वह शक्ति मिल जाती है जो सब सुखोंमें सबसे बड़ा सुख है ।

(४०) परन्तु जो अज्ञ है, आत्माकी जिसे पहिचान नहीं, जिसे श्रद्धा नहीं, जिसे बेमौके सन्देह उत्पन्न हुआ करता है, उसकी बड़ी दुर्गति होती है । उसका यह लोक और परलोक दोनों ही भिगड़ता है । तात्पर्य, वह सदा दुखी रहता है ।

(४१) हे धनञ्जय ! जिस पुरुषने मनको ऊंचे विचारोंमें लगाकर फलकी इच्छासे कर्म करना छोड़ दिया है; आत्मा, परमात्माके विषयमें ज्ञानसे जिसका सन्देह दूर हो चुका है, जो अपने आत्मामें मगन है उसको न किसी कामसे दुख होता है और न किसी कामसे सुख ही—वह न पाप करता है, न पुण्य ही ।

(४२) इसलिये हे अर्जुन ! अज्ञानके कारण तुझमें जो दिलकी कमजोरी और शक्तीपन आ गया है उसे ज्ञानरूपी खड्गसे तोड़कर योगके अनुकूल बना और अपना कर्तव्य करनेके लिये उठ खड़ा हो ।

चौथा अध्याय समाप्त ।

पांचवा अध्याय ।

गताऽध्यायमें श्रीकृष्ण भगवान्ने अर्जुनको ज्ञानयोगका प्रकरण बताया है । ज्ञान इस संसारमें सबसे पवित्र वस्तु है, वही अन्तिम साध्य है । सुख देनेवाली कोई वस्तु उसके बराबर नहीं; क्योंकि उसीसे शान्ति प्राप्त होती है । इस प्रकार कर्म करनेकी बात छिपाते हुए श्रीकृष्णने कर्मत्याग-ज्ञानप्रा-

प्तिका उपदेश दिया। इसपर यह प्रश्न उठता है कि यदि ज्ञानयोग ही श्रेष्ठ है तो फिर श्रीकृष्ण भगवान् कर्मयोगकी शिक्षा अन्तमें क्यों देते हैं? क्यों वे अर्जुनको शत्रुओंको धरतीपर लेटा देनेके लिये कर्म कसनेकी शिक्षा दे रहे हैं? एक ओर कर्मत्याग और दूसरी ओर कर्मयोग? दोनोंका मेल कैसे हो? अर्जुनका जी घबरा गया। वह नहीं जानता कि क्या करना चाहिये। इसलिये श्रीकृष्ण भगवान्ने इस अध्यायमें अर्जुनको समझाया है कि कर्मयोग और कर्मसंन्यास कोई दो पदार्थ नहीं हैं। योगीके लिये दोनों समान हैं—एक हैं। फलकी इच्छा छोड़कर कर्म करना वैसा ही है जैसा कर्म छोड़कर आत्माकी चिन्ता करना। योगीको पहलेसे न कुछ लाभ है और दूसरेसे न कोई हानि। जिसने अपना स्वार्थ छोड़ दिया है उसके मारे काम परोपकारके होते हैं—देशसेवा, समाजसेवा, संसारसेवा ये ही उनके काम हैं। जो काम उस परमात्माके हैं वे ही काम जब इस अन्तरात्माके होते हैं तब वह परमात्मा जैसे सब कुछ करते हुए भी निर्विकार है वैसे ही यह आत्मा भी निर्विकार होता है। उसके लिये करना न करना बराबर है। उसका कोई काम न करना सब कुछ करना है और कोई काम करना कुछ न करनेके बराबर है। इसी बातको इस अध्यायमें श्रीकृष्ण योगेश्वर समझाते हैं।

पहले अर्जुनने पूछा :

(१) हे कृष्ण ! तुमने सब कामोंको छोड़ देनेका उपदेश दिया और तुम ही फिर युद्ध करनेके लिये कर्मयोगका

ज्ञान बतलाते हो (यह कैसे आश्चर्यकी बात है!) दोनों कैसे हो सकता है! इनमें मेरे लिये जो ठीक हो वही साफ साफ कहो।

श्रीकृष्ण कहते हैं;

(२) कर्मसंन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देनेवाले हैं। फिर भी इन दोनोंमें कौन अच्छा है? यदि यही पूछना चाहते हो तो कर्मयोगका मूल्य अधिक है।

परन्तु संन्यास क्या है? केवल गेरुए वस्त्र पहन लेनेसे कोई संन्यासी नहीं हो जाता। संन्यासीके काम सुनिये :

(३) हे आजानुवाहु अर्जुन! सच्चा संन्यासी वह पुरुष है जो न किनीपर नाराज होता है और न किसीसे स्नेह रखता है; जो मरदीमें न ठिठुरता है और न गरमीमें तड़फता है; जो कर्मके बन्धनोंमें बड़ी सुगमताके साथ स्वतंत्र हो जाता है वही संन्यासी है।

सच पृच्छिये तो

(४) सांख्य और योग, कर्म और संन्यास एक दूरसे-से पृथक् नहीं हैं। मूर्ख लोग उन्हें पृथक् कहते हैं। पंडितोंकी बुद्धिमें ऐसी बात नहीं आती। कर्म और संन्यास-दोनोंमेंसे किसी एक मार्गपर चलनेसे दोनोंकी सिद्धी होती है।

(५) सब काम धाम छोड़कर आत्माकी चिन्ता करते रहनेसे आदमी जिस स्थानपर पहुँच सकता है उस स्थानपर उद्योग करके भी मनुष्य जा सकता है। सच्ची बात तो यह है कि काम धाम छोड़कर आत्माकी चिन्ता करना और स्वार्थकों जलाञ्जलि दे सब प्रकारके उद्योग शुद्ध अन्तःकरणसे करना-दोनोंका फल एक ही है।

दोनों ही मनुष्योंको भ्रमसे छुड़ानेवाले हैं। दोनों ही मोक्ष देनेवाले हैं। दोनों ही परमात्माके पास पहुंचानेवाले हैं।

(६) परंतु वे जाने बूझ कर्मोंका त्याग कर देना संन्यास नहीं है—वह भी एक योग है—एक साधना है—उस साधनाके बिना संन्यासका होना कठिन है। इसके विपरीत जो पुरुष मनसे सब इच्छाओंको दूर करके आत्मामें चित्त लगाकर कर्म करता है उसे उम ब्रह्मके समीप पहुंचनेमें देर नहीं लगती।

(७) जो पुरुष योगके साथ अर्थात् मनको ठिकाने रखकर कर्म करता है, जिसके आत्माका कलंक धो गया है, जिसने अपने शरीर और इन्द्रियोंको काबूमें कर लिया है और जो इस पृथ्वीके एक एक कणमें अपने आत्माके दर्शन करता है वह कर्म करता हुआ भी कर्मके बंधनोंमें नहीं फंसता।

(८-९) जो योगी तत्त्वको जाननेवाला है उसको कार्य करते हुए यह न समझना चाहिये कि इस कार्यको मैं कर रहा हूँ। देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, पीते, चलते, सोते, सांस लेते, बात करते, लेते देते, आंख खोलते और बंद करते हुए, उसे यह समझना चाहिये कि यह सब मैं नहीं करता बल्कि इन्द्रियां अपना काम कर रही हैं।

(१०) सब प्रकारकी इच्छाओंको छोड़कर जो पुरुष परब्रह्मको अपने सब काम अर्पण कर देता है वह पापके कीचड़से वैसे ही ऊपर उठा रहता है जैसे पानीके ऊपर कमलका पत्र।

(११) अपने मनकी शुद्धिके लिये फलकी इच्छा छोड़ कर योगी लोग अपने तन, मन, बुद्धि अथवा केवल इंद्रियोंमें ही कर्म करते हैं ।

(१२) योगी पुरुष फलकी आशा छोड़ कर्म करके उस शान्तिको पाते हैं जिसका अनुभव ज्ञानियोंको ही होता है । परंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धि स्थिर नहीं कर सकता वह फल पानेके लिये ललचाता हुआ दुःखका भागी होता है ।

(१३) मनसे सब कर्मोंको छोड़कर नौ फाटक वाली इस देहनगरीमें आत्मा शान्तिके साथ वास करता है ।

परमात्माने मनुष्यमात्रको स्वतंत्र निर्माण किया है । मनुष्य अर्थात् आप मालिक है । जो चाहे कर सकता है । उसपर यह लाजिम नहीं है कि वह अमुक एक काम करे या अमुक कामको न करे । हां, उसकी स्वतंत्र बुद्धि उसे रास्ता दिखा देती है ।

सारी योनियोंका यही हाल है । सारी सृष्टिका यही नियम है । बीचमें परमात्माका दखल नहीं । पृथ्वीमें जो कुछ कार्य होते हैं वे अपने आप होते हैं ।

(१४) परमात्मा मनुष्योंमें न कर्तापन उत्पन्न करता है न उनके लिये कर्मोंको ही नियत करता है, न वह किये कर्मका फल ही देता है । यह सब अपने आप हुआ करता है ।

(१५) परमात्मा न किसीका पाप ग्रहण करता है न किसीका पुण्य स्वीकार करता है । ज्ञानपर अज्ञानका परदा पड़ा हुआ है जिससे प्राणियोंको भ्रम होता है ।

यह भ्रम दूर हो सकता है। वह अज्ञानका परदा हटाया जा सकता है।

(१६) आत्माके विषयकी चिन्ता करते हुए जब उस आत्माका ज्ञान हो जाय तब उस सूर्यके समान चमकनेवाले ज्ञानके प्रकाशमें परब्रह्मके दर्शन हो जाते हैं।

आत्मज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है।

(१७) उस परब्रह्ममें जिनकी बुद्धि लगी हुई है, परब्रह्म ही जिनकी आत्मा है; उन्हींमें जिनका चित्त लगा हुआ है, उसीको जिन्होंने अपना सर्वस्व समझ लिया है और ज्ञानसे जिनके सारे पाप धो गये हैं वे मुक्त हो जाते हैं।

ऐसे ज्ञानी पुरुषके क्या लक्षण हैं ? सुनिये।

(१८) विद्वान् तथा विनयी ब्राह्मणको और गाय, बैल, हाथी, कुत्ता, चांडाल आदि नीच जातियोंको ज्ञानी लोग एक ही दृष्टिसे देखते हैं—सबको समान समझते हैं।

यह समताका उपदेश क्या श्रीकृष्णोंने ग्रन्थमें ही लिखा रखनेके लिये दिया था ? जो लोग पंडित कहते हैं क्या उन्हें अपने आचारमें इस उपदेशको लक्ष्य मानकर उचित हेरफेर न करना चाहिये ? बहुत दूर जानकी जरूरत नहीं—आपके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें तो अपने ही जैसे मनुष्य समझिये। आज दिन भारतवर्षमें ६ करोड़ भारत-सन्तान ऐसे नीच, घृणित समझे जाते हैं कि उन्हें छूना तक बड़ा भारी पाप समझा जाता है। बिल्ली या कुत्ता उतना घृणित नहीं समझा जाता। क्या यह अन्याय नहीं है ?

याद रखिये, सारी संस्थाओंका अन्तिम उद्देश्य समताका साम्राज्य है । जिन्हें-जिस व्यक्तिको या जिस देशको-इह लोकमें सुखसे दिन काटने हैं, उन्हें समताकी ही शरण लेनी पड़ेगी; तभी उनकी भलाई है । जो ब्रह्मपदके प्यासे हैं उनके लिये भी यही उपदेश है । समता ही ब्रह्मका रूप है ।

(१९) जो सबको समान भावसे देखते हैं-सबसे एकमात्र व्यवहार करते हैं-जिनका मन समतामें ही लगा हुआ है उन्होंने संसारमें रहते हुए ही संसारको जीत लिया है । वे ब्रह्ममें ही रहते हैं । क्योंकि ब्रह्म ही निर्दोष और सम है ।

(२०) कोई अच्छी वस्तु पाकर न फूलना चाहिये, न किसी अशुभसे दुखी होना चाहिये । जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसका मोह नष्ट हो गया है, वह ब्रह्मज्ञानी पुरुष हर समय ब्रह्ममें ही लीन रहता है-उमके लिये सुख दुख दोनों बराबर हैं ।

(२१) बाहरी-दिखौआ-बातोंमें जिसका मन नहीं फँसता वह अपने आत्मामें ही मगन रहता है जिसका आत्मा ब्रह्ममें भिल गया है वह उम सुखको पाता है जिसका कभी नाश न हो ।

(२२) इन्द्रियोंके स्पर्शसे जो सुख प्राप्त होते हैं वे दुःखके मूल हैं । ऐसा सुख मदा नहीं रहता-उमके पीछे पीछे दुःख लगा रहता है । यह सुख जन्ममृत्युके चरखमें चक्कर खाया करता है । पंडित लोग उससे मोहित नहीं होते ।

(२३) मृत्युसे पहिले ही जिस मनुष्यकी इतनी तैयारी हो जाती है कि वह काम और क्रोधके वेगको रोक सके-उनके अधीन न हो जाय-वही योगी है और वही सुख पाता है ।

(२४) वह योगी जो अपने आत्मामें मगन रहता है, और आत्माकी ही चिन्ता करता हुआ उसीसे ज्ञान पाता है वह स्वयंब्रह्म होकर सब बंधनोंमें छुटकारा पाता है ।

(२५) ऋषि लोग जो पापसे बचे हुए हैं, जो ऊंच नीच भाव नहीं रखते, और इन्द्रियोंको अपने बसमें रखते हुए संसारकी सेवा किया करते हैं वे मुक्त होते हैं ।

(२६) जो साधु पुरुष काम और क्रोधको अधीन बनाकर मन को जीत लेते हैं और जिन्हें ब्रह्म क्या है, वह कैसा है, यह मालम हो गया है उनसे ब्रह्म दूर नहीं—दूर समय और दूर जगह उन्हें ब्रह्मसुख मिलता है ।

(२७-२८) बाहरी विषयोंको बाहर कर, चित्तको धिलकुल स्थिर करके दोनों भौआँके बीचमें दृष्टि लगाकर नाकके नथुनोंमें से अन्दर जाते हुए प्राणवायु और अपान वायुकी गति बराबर करनेवाले—इस प्रकार प्रणायाम करने वाले—इन्द्रिय, मन और बुद्धिको अपने काबूमें रखनेवाले और इच्छा, भय, क्रोधको बसमें कर मोक्षमें ही चित्त लगानेवाले मुनि लोग सदा मुक्त रहते हैं ।

मुक्तिके लिये मनुष्यको साधना करनी पड़ती है । मुक्ति मनुष्यका ईश्वरदत्त अधिकार और संपत्ति है, और वह सदा उसके समीप रहती है । पर हमरा मन बड़ा विचित्र है—वह ज्ञानरूप उस आत्माके प्रकाशपर परदा डाल देता है और बाहरी वस्तुओंकी चमकदमकमें मनुष्यको फंसाता है । मनुष्य फंस जाता है । उसे आत्माका फिर ध्यान नहीं रहता । यह

देह ही उसे आत्मा मालूम होती है । कभी कभी तो इस देहपर जो कपड़े पहने जाते हैं उन्हीं कपड़ोंको सबकुछ समझ लिया जाता है । परन्तु यह परदा कबतक रहेगा ? मनुष्य तो आखिर मनुष्य ही है, उसका मूल अधिकार स्वतंत्रता है । बिना स्वतंत्रताके उसे कबतक कल पड़ेगी ? मनुष्य इस अज्ञानकी अवस्थामें बेचैन रहता है । उसे स्वतंत्रताकी-मुक्ति की-इच्छा होती है । पर यह मुक्ति कैसे मिले ? मनुष्य अन्धकारमें मुक्तिको टटोलते फिरते हैं, देवात् उन्हें यदि वह हाथ लग जाय । कोई सर्पकी पूजा करता है; कोई मूर्तिकी पूजा करता है; कोई गिरिजाघरोंमें जा पादरीका उपदेश सुनता है; कोई कुछ करता है और कोई कुछ ! परन्तु स्मरण रखिये, जो कुछ आपको चाहिये वह आपके पास है ।

मुक्तिके लिये सबसे पहिले वे बंधन काट डालने हैं जिन्होंने हमें जकड़ डाला है । मन बाहरी भुलावोंमें फँसकर हमें फँसाता है । हमारी ऐसी चेष्टा होनी चाहिये जिससे मन न फँसे । जब जब बाहरी भुलाव आपको भुलाते हैं तब तब आप मनको बाहरसे खींचकर अन्दरकी तरफ लगाइये । जो चीज आपको चाहिये उसकी धुन आपको लग जानी चाहिये । इसके लिये चित्त स्थिर होना चाहिये । चित्त स्थिर करनेके बाद उसे उस वस्तुके ध्यानमें लगा दीजिये जिसके लिये आपके प्राण तनफ रहे हैं । दोनों भौँत्रोंके बीच दृष्टि लगाकर प्राणायाम करनेका उपदेश इसीलिये है ।

मन, इंद्रिय और बुद्धिको काबुजमें रखना और विकारोंको

दबाना ही सच्चे साधु वीरका लक्षण है और यही मुक्तिका मार्ग है। बाकी सब आडम्बर हैं।

(२९) इसी प्रकार तपस्या करके जो यती मुझे यज्ञों और तपोंके भोक्ता ब्रह्माण्डके स्वामी और संसारके सुहृदको जान लेता है उसे शान्ति प्राप्त होती है।

इस अन्तिम श्लोकमें परमात्माके विषयमें कहा गया है कि वह 'सारे यज्ञों और तपोंका भोक्ता', 'सारे ब्रह्माण्डका स्वामी' और 'सारे संसारका सुहृद' है। परमात्मा भोक्ता स्वामी और सुहृद है। यह कहकर परमात्माने केवल यही प्रकट कर दिया कि यज्ञ और तप करना धर्म है; संसारका उपकार और ब्रह्माण्डकी सेवा करना कर्तव्य है। ऐसे तो परमात्मा निर्धिकार, निर्गुण और कुछ न करनेवाला है। पर लोकासंग्रहके लिये उसे सब कुछ बनना पड़ता है। लोगोंको कार्यमें प्रवृत्त करनेके लिये उसे स्वयं कर्म करना पड़ता है।

पाँचवाँ अध्याय समाप्त।

छठा अध्याय ।

पाँचवें अध्यायमें अर्जुनको श्रीकृष्णाने कर्मयोग और संन्यास-योगका महत्व बतलाया। यह भी कहा कि संन्याससे कर्म करना ही अच्छा है। केवल इंद्रियों द्वारा कर्म करना चाहिये; उसमें मनको फँसाना ठीक नहीं। संन्यास और कर्मयोग, दोनोंका उद्देश्य दिखलाकर यह सिद्ध किया है कि दोनों एक ही हैं। अब इस अध्यायमें श्रीकृष्ण योगेश्वर

अधिक स्पष्ट रीतिसे संन्यासीके लक्षण, संन्यास, और योगाभ्यासकी रीतिका वर्णन करेंगे ।

श्रीकृष्ण कहते हैं ।

(१) जो पुरुष कर्मके फलकी इच्छा छोड़ कर्तव्य कर्म करता है वही संन्यासी है । अग्निहोत्र न करने अथवा हाथपर हाथ धर बैठे रहनेमें कोई संन्यासी नहीं हो जाता ।

संन्यासी अग्निको स्पर्श करना धर्मविरुद्ध समझते हैं, यह एक सांप्रदायिक संस्कार मात्र है । इस संस्कारका इतना प्रभाव पड़ा हुआ है कि गेरुए बाबाके मरने पर भी उनकी देह अग्निमें नहीं जलायी जाती । यह संन्यास नहीं है । तो संन्यास क्या है ?

(२) हे अर्जुन ! वेदोंने जिसे संन्यास कहा है वह योग ही है (अर्थात् इच्छा छोड़ देना और काम करना ही संन्यास है ; यही योग है । इस रीतिसे, संन्यास और योग दोनों एक ही है ।) जबतक इच्छा नहीं छूटती तबतक कोई संन्यासी नहीं हो सकता ।

‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’ योग चित्तकी वृत्तियोंका निरोध है अर्थात् चित्तमें प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति ये जो पांच प्रकारकी वृत्तियां हैं इनको दबाए रहनेको योग कहते हैं । जो पुरुष संन्यासी होना चाहता है—सब कर्मोंके बंधनोंसे छूटना चाहता है उसका पहिला काम इन्हीं वृत्तियोंको दवाना ही है । इसलिये योग और संन्यास एक ही हुआ । अब जो पुरुष इन वृत्तियोंको दबा चुका है उसके बंधन भी

टूट गये हैं। उसे योगाभ्यासकी फिर क्या जरूरत ? इसलिये श्रीकृष्ण कहते हैं :

(३) योगरूपी पहाड़पर चढ़नेकी इच्छा करनेवाले मुनिको कर्म करना ही उचित है ; (क्योंकि बिना कर्मयोगके उन वृत्तियोंका निरोध नहीं हो सकता) परन्तु जो पुरुष उम शिखरपर पहुंच चुका है उसके लिये शान्ति ही ठीक है।

योगके लिये आठ प्रकारकी साधनाएं करनी पड़ती हैं। आरम्भमें अर्थात् जो पुरुष योगी बनना चाहता है उसे सबसे पहिले यम, नियम, आसन और प्राणायाम साधना चाहिये। यह साध चुकनेपर उसे पूर्णता प्राप्त करनेके लिये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिका अवलंब करना चाहिये। यही बात ऊपरके श्लोकमें कही गयी है। पहिली साधना योगके पहाड़पर चढ़नेकी इच्छा करनेवालेके लिये और दूसरी साधना योगारूढ अर्थात् जो योगपर्वतपर चढ़ चुका है उसके लिये है। योगारूढ किसे कहते हैं ?

(४) जब पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंसे बिलकुल हट जाता है और उसकी सब इच्छाएं छूट जाती हैं तब उसे योगारूढ कहते हैं।

योगारूढ मनुष्य संसारको जीत लेते हैं।

उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नाऽऽत्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

(५) अपने आत्मिक बलसे अपने आत्माका उद्धार करो—उसे नीचे न दबाओ। आत्मा ही अपना मित्र है ;

और आत्मा ही अपना शत्रु है ।

कोई किसीका सहायक नहीं । सब अपने आप सहायक हैं । जिसे ऊपर उठनेकी इच्छा हो वह ऊपर उठे । जिसे नीचे नरकमें सड़ना हो, वह सड़ता रहे । कोई उसे उठाने नहीं आता । यदि सहायता की जरूरत है तो वह बाहर नहीं, अन्दर ही है ।

(६) जिसने अपने आपको जीत लिया है, आत्मा उसका मित्र है ; और जिसने अपना जय आप नहीं किया, आत्मा भी उसके साथ शत्रुता करता है ।

(७) जो अपने आपको जीत लेता है उसका मन शांत रहता और उसका आत्मा सुख, दःख, सरदी गरमी, मान अपमानमें एकसा रहता है । (वह योगारूढ़ है)

(८) वेद, उपनिषद् आदि ग्रन्थोंके ज्ञानसे जिसका आत्मा संतुष्ट हुआ है, जो विषयोंके झगड़ोंमें डूबा होने वाला नहीं, जिसने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया वह सच्चा योगारूढ़ है । वही योगी है । उसके लिये मोना और पत्थर बगवर है ।

(९) जो पुरुष उपकारी, मित्र, शत्रु, उदासीन, विचरई, द्वेषी और स्नेही, तथा साधु असाधुको एक दृष्टिसे देखने-वाला हो वह सच्चा योगी है ।

(१०) योगीको चाहिये कि निरालेमें बैठ सदा अपने चित्तको ब्रह्म विचारमें लगाये रहे । उसे अकेले रहना चाहिये । और उसे अपने चित्तको अर्थात् मन, शरीर और इन्द्रियोंको

अधीन कर विषयोंकी इच्छा बिलकुल छोड़ देनी चाहिये । योगी अपने पास आवश्यकतासे अधिक वस्तुएं नहीं रखता ।

अब योगीका आसन कैसा होना चाहिये ? इसका वर्णन मुनिये :

(११) स्थान बिलकुल साफ और पवित्र होना चाहिये । ऐसे स्थानमें वस्त्र, मृगचर्म, और कुशसे बना हुआ आसन होना चाहिये । यह आसन न बहुत नीचा हो न बहुत ऊंचा । यह आसन बैठनेपर हिलना न चाहिये । फिर—

(१२) उस पवित्र आसनपर बैठ अपने चित्त और इन्द्रियोंको जीतेनवाले योगीको चाहिये कि आत्मशुद्धिके लिये मनको एकाग्र कर योगका अभ्यास करे ।

(१३) इस समय मन या शरीरमें किसी प्रकार चल-बिचल न हो । शरीर, शिर, और गर्दन सीधी और अचल रखते हुए अपनी दृष्टि नाककी नोकपर लगाये रहना चाहिये । दृष्टि इधर उधर जाने न पावे ।

(१४) इस अवस्थामें वह शांत, निडर और ब्रह्मचारी पुरुष मनको शुद्ध और विकारसे शून्य करके परमात्माका ध्यान करे और ब्रह्ममें ही अपने चित्तको लगा दे ।

(१५) इस प्रकार सदा आत्माकी चिन्तामें लगा हुआ और मनको अधीन रखनेवाला योगी परमात्माकी उस मोक्ष देनवाली शांतिको प्राप्त करता है ।

अब योगीके आहार विहारका हाल मुनिये :

(१६) जो लोग बेहिसाब खाना खा जाते हैं या जो

लोग खाना पीना ही छोड़ देते हैं वे इस योगकी साधना नहीं कर सकते । उसी प्रकार जो बहुत सोते हैं थथवा रात बेरात जागते ही बैठते हैं वे भी योगाभ्यासके लिये निकम्मे हैं ।

भारतवर्षमें आजकल ऐसे लोगोंकी कमी नहीं है । योगाभ्यासका विचार जाने दीजिये । केवल स्वास्थ्यके लिये भी लोग मित भोजन और मित शयनका नियम नहीं पालन करते । यदि शरीर सुदृढ़ रखना है तो खाने पीने और सोनमें हिसाब रखना चाहिये । मनुष्यको इतना कभी न खाना चाहिये जिससे भूख विलकूल मिट जाय और इतना कभी न सोना चाहिये जिससे दूसरे रोज नींदकी खुशामद करते करते रात बीत जाय । मनुष्यके लिये इतना भोजन काफी है जिससे दुबारा भोजन करनेकी उसकी इच्छा बनी रहे और पेट फूल न आवे । कई अच्छे परिवारोंमें यह नियम है कि खाते समय पहिली डकार आते ही भोजन समाप्त हो जाता है । रातके समय खाकर ही उसी वक्त सोना चाहिये । जब खाना हजम हो जाय तब सोना ठीक है । और सोना कितना चाहिये ? बस सात घंटे साधारण मनुष्यके लिये काफी हैं ।

(१७) जो हिसाबसे खाता पीता और घूमता फिरता है ; हिसाबसे सब काम करता है सोना और जागना जिसका नियमके साथ है वह योगका अभ्यास करे तो उसके सारे दुःख दूर हो जायें ।

(१८) कोई पुरुष तभी योगी कहाता है जब उसका

चित्त ठिकाने हो, आत्माकी चिन्तामें लग जाय और वह पुरुष सब इच्छाओंसे स्वतंत्र हो ले ।

(१९) जिस योगीने अपने चित्तको स्वाधीन कर लिया है और जिसने आत्माके ही ध्यानमें चित्तको लगा दिया है वह उस दीपकके समान तेजस्वी और अटल है जो हवा लगकर हिलता न हो ।

(२०) जब योगके अभ्याससे योगीका चित्त संसारसे हट जाता है और आत्माके बलसे उसे आत्माके दर्शन होते हैं तब वह आत्मामें ही मग्न हो जाता है ।

(२१) उस सुखतक इन्द्रियां नहीं पहुँच सकतीं; वह सुख बुद्धिसे जाना जाता है । उस अनन्त सुखको प्राप्त करनेपर वह योगी वहाँ डट जाता है । फिर वहाँसे नहीं हटता ।

(२२) योगी उस सुखको पाकर उससे अधिक सुख और कोई नहीं समझता । वह सुख ही ऐसा है कि बड़े बड़े दुःखोंके आनेपर भी मन डांवाडोल नहीं होता ।

सांसारिक सुखके साथ दुःख लगा रहता है । पर ऊपर जिस सुखका वर्णन है उसके साथ दुःख नहीं ।

(२३) वह दुःखसे अलग है और उसका नाम योग है । उस योगका अभ्यास श्रद्धा, उत्साह और निश्चयके साथ करना चाहिये ।

बहुतसे लोग योगपर व्याख्यान सुनकर योगाभ्यासके लिये तैयार हो जाते हैं । परन्तु मन इतना मजबूत न होनेसे और अच्छा गुरु न पाकर उन्हें जल्द ही योगसे मुँह मोड़

लेना पड़ता है । इस कामके लिये एक तो गुरु चाहिये और दूसरे मन बहुत मजबूत होना चाहिये । निश्चयसे ही सब काम होते हैं और निश्चय न होनेसे सब काम बिगड़ते हैं ।

(२४-२५) सब इच्छाओंको छोड़कर मनसे सब इन्द्रियोंको बांधकर धीरे धीरे, बुद्धिसे गोचर-अगोचर सब विषयोंसे उपराम होना चाहिये । आत्मामें मन लगाकर किसी विषयकी चिन्ता न करनी चाहिये ।

पर मन बड़ा चंचल है । लगाम ज़रा ढीली होते ही वह काबूके बाहर हो जाता है । इस लिये—

(२६) जहां जहां यह चंचल मन भाग जाना चाहे वहां वहांसे इसे घसीट ला आत्माके हवाले करना चाहिये ।

(२७) जिसने अपने मनकी चंचलता दूर कर दी है, जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, जो पवित्र पुरुष ब्रह्ममें मिल गया है वह उत्तम सुख लाभ करता है ।

(२८) आत्माकी चिन्तामें मगन रहनेवाला निष्पाप योगी बिना परिश्रम उस ब्रह्मसुखको प्राप्त करता है ।

(२९) योगका अभ्यास करके जिसने अपना अन्तःकरण शुद्ध कर आत्माका कलंक धो डाला है वह सबको एक दृष्टिसे देखता है । वह हर चीजमें आत्माको अनुभव करता है और आत्मामें सब वस्तुओंको देखता है ।

(३०) जो पुरुष मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझमें देखता है, मुझसे वह अलग नहीं होता, न मैं उससे अलग होता हूँ ।

जो पुरुष 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति'—का अनुभव कर लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है ।

(३१) जो पराया भाव छोड़कर सब पदार्थोंमें रहने-वाले मुझको पूजता है वह कर्म करता हुआ भी मुझमें ही वास करता है ।

(३२) मैं उस योगीको श्रेष्ठ समझता हूँ जो अपने अनुभवसे सबके सुख दुःखको अनुभव करता है—सबको एक आंखसे देखता है ।

वही सच्चा और श्रेष्ठ योगी है जो अपने अनुभवसे दूस-रोंके सुख दुःख जाने और दुःख दूर करनेकी चेष्टा करे । दुःखका कारण योगीसे बढ़कर और अधिक कौन जान सकता है ? अज्ञान ही दुःखका मूल है । इसलिये श्रेष्ठ योगियोंका कर्तव्य ज्ञानका प्रचार करना है ।

अर्जुन प्रश्न करते हैं:—

(३३) हे मधुसूदन ! (राग द्वेष, सुख दुःख, आदिकां तथा प्राणियोंको एक आंखसे देखनेका जो तुमने उपदेश दिया अथवा) यह जो समताका योग तुमने मुझे बतलाया मैं मनकी चंचलताके कारण यह न समझ सका कि उसपर अमल कैसे हो सकता है ।

(३४) मन बड़ाही चंचल, हठी, बलवान् और दृढ़ है । उमं रोकना मेरी समझमें वैसा ही है जैसे कोई हवाको रोके ।

* मधु नामक दैत्यको श्रीकृष्णने मारा, इसलिये उनका नाम मधुसूदन पड़ा ।

श्रीकृष्ण कहते हैं:-

(३५) सचमुच ही, हे अर्जुन ! मनको अधीन करना बहुत ही कठिन है क्योंकि मन एक जगह नहीं रहता । परन्तु अर्जुन ! यह निश्चय है कि अभ्यास और वैराग्यसे यह बसमें लाया जा सकता है ।

(३६) जो अपने मनको अपने अधीन नहीं कर सकता उसके लिये, मेरे मतसे योग बहुत ही कठिन है । परन्तु जिसने मनको बसमें करलिया है या जो बसमें लानकी ठीक ठीक चेष्टा कर रहा है, अभ्याससे उसको योग प्राप्त हो सकता है ।

अर्जुनने पूछा:—

(३७) हे कृष्ण ! जो पुरुष श्रद्धालु तो है पर यत्न करनेवाला नहीं और योगमें जिसका मन नीचे गिर गया है वह योगसिद्धिसे गिर कर किम गतिको पाता है ?

(३८) क्या ज्ञान और कर्ममार्गसे भ्रष्ट हुआ मनुष्य फटे बादलके टुकड़ेकी तरह नष्ट नहीं हो जाता ? क्योंकि, वह ब्रह्मपथपर चलता हुआ मोहके कारण भ्रष्ट होता है और ज्ञान और कर्मसे गिर जाता है ।

(३९) हे कृष्ण ! यह मेरा सन्देह है । इसे जड़मे दूर करनेमें तुम समर्थ हो । और कोई पुरुष इस कार्यके योग्य नहीं मिल सकता ।

श्रीकृष्ण कहते हैं:—

(४०) हे पार्थ ! क्या इस लोकमें और क्या परलोकमें उस पुरुषका कभी नाश नहीं होता । जो शास्त्रोक्त कर्म करे

उसकी कभी दुर्गति नहीं होती ।

(४१) वह पुरायवान लोगोंमें सदाके लिये स्थान पाता है । और वह किसी पवित्र और धनी परिवारमें जन्मलेता है ।

यह बात केवल योगीके विषयमें ही सच नहीं है । किन्तु कोई मनुष्य अपना काम अगर एक जन्ममें सिद्ध न कर सका तो दूसरे जन्ममें सिद्ध कर लेता है । एक जन्ममें किया हुआ अधूरा काम अधूरा ही नहीं रह जाता, दूसरे जन्ममें पूरा हो जाता है । इसी नियमसे योगमार्गसे भ्रष्ट हुआ पुरुष अपना अभ्यास पूरा करनेके लिये दूसरा जन्म किसी पवित्र कुलमें लेता है । यदि वह किसी धनीके घर जन्म न ले तो—

(४२) किसी बुद्धिमान् योगीके घर ही जन्म ग्रहण करता है । ऐसे घरमें जन्म लेनेके लिये बहुत पुरायबल चाहिये ।

बुद्धिमान् योगीके यहां जन्म पाकर वह योगभ्रष्ट पुरुष क्या करता है ?

(४३) वहां उसे वह बुद्धि प्राप्त हो जाती है जो उसने पूर्व जन्ममें ही प्राप्त की थी । फिर वह अपने योगकी सिद्धिके लिये यत्न करता है ।

उसकी उन्नति बहुत जल्द होती है । क्योंकि उसके कार्यका बहुतसा अंश पहिले ही जन्ममें हो चुका रहता है ।

(४४) उसके मार्गमें चाहे जितनी बाधाएं क्यों न हों वह पूर्वजन्मके यत्नकी सिद्धि पाकर आगे बढ़ता है । योगका अभ्यास करते करते ही वह प्रकृतिक बंधनोंसे

छूट जाता है ।

(४५) योगाभ्यासका बराबर यत्न करते रहनेसे शुद्ध मनवाला योगी अनेक जन्मोंके यत्नोंका बल एकत्र कर मुक्त हो जाता है ।

(४६) इस प्रकारका योगी देह और मनको नाना प्रकारके कष्ट देनेवाले तपस्वीसे श्रेष्ठ है । यह योगी ज्ञानियोंसे भी बड़ा है । केवल कर्म करनेवालोंसे इसका अधिक सम्मान है । इतलिये, हे अर्जुन ! तू योगी बन ।

यहां योगीका अर्थ स्पष्ट हो जाता है । योगी केवल तपस्वी नहीं है । पंचाग्नि जलाकर बीचमें बैठनेवाला हठयोगी योगी नहीं है, न केवल अपना शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल बढ़ाकर किसीके काम न आनेवाला पुरुष ही सच्चा योगी है । योगी केवल ज्ञानी नहीं है, न केवल कर्म करनेवाला पुरुष ही योगी है । सच्चा और परमात्माका प्यारा योगी वही है जो ज्ञानसे अपने आत्माका उद्धार करता हुआ ज्ञानका प्रचार करता है और कर्मसे शरीरको उपयोगमें लाता हुआ सत्कर्मका प्रचार करता है ।

(४७) मैं उस योगीको सबसे श्रेष्ठ योगी समझता हूं जो श्रद्धाके साथ सर्वव्यापी परमात्मामें अपने चित्तको लगाकर आत्माका ध्यान करता है ।

छटा अध्याय समाप्त ।



सातवां अध्याय ।

श्रीकृष्ण कहते हैं:—

(१) मुझे (परमात्माको) पूरी तौरसे जाननेका उपाय मैं तुझे बतलाता हूँ; सुन । हे पार्थ ! मन मेरी तरफ लग जाना चाहिये और मेरे आश्रयमें रह कर योगका अभ्यास करना चाहिये ।

(२) मैं तुझे (आत्मा और परमात्माका) रहस्य खोलकर कहूँगा और एक एक बातको अच्छी तरह समझा दूँगा । फिर इस संसारमें जानने योग्य कोई बात न रह जायगी ।

(३) सहस्रों मनुष्योंमेंसे एकाध कोई मनुष्य उस सिद्धिको पानेकी चेष्टा करता है और इन ' सिद्ध ' पुरुषोंसे भी एकाध ही कोई मुझे अच्छी तरहसे जाननेका यत्न करता है ।

(४) मिट्टी, जल, आग, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, मेरी प्रकृतिके ये आठ भेद हैं ।

(५) यह मेरी अपरा प्रकृति है । इससे भिन्न भी मेरी एक प्रकृति है जो इसमें श्रेष्ठ है और जिसे परा प्रकृति कहते हैं । उस प्रकृतिको तू जान । वह प्रकृति जीवरूपी है । उसीके सहारे यह पृथिवी खड़ी है ।

(६) इन्हीं दो प्रकृतियोंसे सृष्टि और सारे शरीर उत्पन्न होते हैं । परन्तु मैं सारे जगत्की उत्पत्ति और प्रलयका कारण हूँ ।

(७) हे धनंजय ! मुझसे भिन्न कहीं कुछ नहीं है

मुझमें ही सब कुछ है । जैसे ढोरेमें मणी पोए हुए होत हैं वैसे मुझमें संसारके सारे पदार्थ पोए हुए हैं ।

परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु नहीं है । यह सुनते सुनते हमें इस बातपर एक तरहका विश्वास भी हो गया है । परन्तु जबतक इस बातका अनुभव नहीं होता तबतक सच्चा विश्वास भी नहीं हो सकता । अनुभव करनेमें फिर मिट्टीके एक एक कणमें परमात्माके दर्शन हो सकते हैं । परमात्मा इन आंखोंसे नहीं दिखायी देता । सूक्ष्म वस्तु देखनेके लिये अन्दरकी आंखोंसे काम लेना पड़ता है ।

एक पत्थरका टुकड़ा लीजिये । यह मिट्टीका बना हुआ है । मिट्टीके न जाने कितने करोड़ कण इसमें हैं । वे सब इस पत्थरमें इकट्ठे हुए हैं । उनको इकट्ठे कर रखनेवाली एक शक्ति है । उस पत्थरके टुकड़ेको फोड़नेसे उसमेंसे चिनगारियां निकलती हैं । यह आग है ; फोड़नेसे पहिले यह छिपी हुई थी । आंखोंमें एक पत्थरका टुकड़ा दिखायी देता है । चेष्टा करनेसे उसके अन्दरकी आग दिखायी देती है । आग उस पत्थरका सूक्ष्म रूप है । उस आगका भी एक सूक्ष्म रूप है जो दिखायी नहीं देता । प्रत्येक स्थूल रूपके अन्दर इसी तरह एक सूक्ष्म रूप रहता है । सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर और फिर सूक्ष्मतम रूप प्रत्येक वस्तुका होता है । वह सूक्ष्मतम पदार्थ ही परमात्मा है । वही शक्ति है । वही पत्थरके एक टुकड़ेमें पृथिवीके कणोंको, हमारे इस शरीरको, और सारे संसारको एकत्र किये हुए है । परमात्मा इस प्रकारसे प्रत्येक वस्तुमें है ।

जल, आग, मिट्टी, सबके अन्दर परमात्मा है । परमात्मा ही मूल है । उसीसे सूक्ष्म प्रकृति उत्पन्न हुई और उसी सूक्ष्म प्रकृतिसे यह स्थूल प्रकृति—यह जड़ पृथिवी उत्पन्न हुई है ।

मनुष्यके शरीरको देखिये । मूल क्या है ? आत्मा । हृदय, अन्तःकरण, बुद्धि, मन ये सब उसके बाहरी रूप हैं । यह शरीर मनका स्थूल रूप है । तात्पर्य, यह जो जड़ शरीर है इसका सूक्ष्म रूप मन और मनसे बहुत अधिक सूक्ष्म आत्मा है । वह दिखायी नहीं देता ।

क्या यह शरीर और क्या यह संसार, इसका आधार वही एक आत्मा है ।

श्रीकृष्ण कहते हैं:—

(८) हे कौन्तेय * ! जलोंका जो सार रस वह मैं हूँ । सूरज और चन्द्रमामें जो उजाला है वह भी मैं हूँ । ज्ञान रूप जो वेद हैं उनमें मैं ओंकार हूँ ; आकाशका मैं ही शब्द हूँ और पुरुषोंका जो पुरुषार्थ वह भी मैं ही हूँ ।

यह जगत् परमात्मापर ही ठहरा हुआ है । वही मूल है । वही सारे पदार्थोंका सत्व है ।

(९) पृथिवीमें जो पवित्र गंध है और अग्निमें जो चमक है ; प्राणियोंमें जो जीवन है और तपस्वियोंमें जो तप है ; वह मैं हूँ ।

परमात्मा दिखायी नहीं देता पर सत्वरूपसे वह सब जगह है ।

(१०) हे अर्जुन ! सारे संसारका मैं बीज हूं । मैं ही मनातन मूल हूं । जो बुद्धिमान हैं उनकी बुद्धि मैं हूं और जो तेजस्वी हैं उनका मैं ही तेज हूं ।

(११) मैं बलवानोंका बल हूं । (और वह बल कैसा है ?) वह बल काम और रागसे रहित है । प्राणियोंमें जो पवित्र इच्छा है वह मैं ही हूं ।

परमात्मा यदि सर्वत्र है—सब चीजोंमें है तो वह केवल शुद्ध और पवित्र क्यों ? अशुद्ध और अपवित्र क्यों नहीं ? उत्तर सुनिये :

(१२) सत्व, रज, तम जो तीन गुण प्रकृति और प्राणियोंमें हैं वे मुझसे ही उत्पन्न हुए । वे मेरे ही हैं ; पर मैं उनसे अलग हूं । वे गुण और वे अच्छे बुरे भाव मुझमें हैं—मैं उनमें नहीं हूं ।

मनुष्य कई प्रकारके दिखायी देते हैं । कोई शुद्ध सात्विक है, कोई इस संसारमें अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनेके लिये क्रोध और लोभ करता है ; कोई निद्रा, आलस्य और नशखोरीमें चूर है । परन्तु ये लोग चाहें तो क्रोध, लोभ, निद्रा, आलस्यको दूर कर सकते हैं और चाहें तो उनकी शरण ले सकते हैं । यह बात अनुभवसे सिद्ध है । इस प्रकार मनुष्य सत्वगुणी, रजोगुणी, अथवा तमोगुणी अपनी इच्छासे बन सकता है । प्रकृतिपर उसका प्रभुत्व हो सकता है ।

परमात्मा इसी प्रकार प्रकृतिका स्वामी है और श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुनको प्रकृतिका स्वामी बननेकी शिक्षा देते हैं ।

इमीलिये कहते हैं कि प्रकृतिके सत्व, रज, तम इन गुणोंका मूल मैं हूँ—मुझमें ये रहते हैं पर मैं इनमें नहीं रहता अर्थात् मैं स्वतंत्र हूँ ।

मनुष्यकी सबसे ऊंची और सच्ची स्वतंत्रता यही है ।
अच्छा तो,

(१३) इन तीन गुणोंमें जो भाव उत्पन्न होत हैं वे इस इम संसारको मोह लेते हैं । इस मोहके कारण संसार मुझे (परमात्माको) भूल जाता है ।

(१४) ईश्वरकी माया बड़ी जबरदस्त है । इसकी परवान कर जो परमात्माका ध्यान करते हैं वे मायापाशसे बद्ध नहीं होते ।

(१५) हे अर्जुन ! जो लोग खाटे कर्म करनेवाले हैं, और मूर्ख, मिथ्यावादी और हिंसा करनेवाले हैं या जो लोग झूठा व्यवहार करते हैं—वेईमान, बेउमूल और अधम हैं वे मेरे पास (ईश्वरके समीप) नहीं आने पाते ।

(१६) पुण्यात्मा लोग चार प्रकारसे मेरी उपासना करते हैं । आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी—ये चार प्रकारके उपासक हैं ।

किसी दुःखसे दुखी होकर जो परमात्माकी याद करते हैं उन्हें आर्त कहना चाहिये । परमात्मा क्या है ? ऐसा प्रश्न जिसके हृदयमें उठता है और जो परमात्माको जाननेकी चेष्टा करता है उसे जिज्ञासु कहते हैं । जो मनुष्य अपना कोई काम निकालनेके लिये परमेश्वरकी शरण लेता है वह अर्थार्थी

कहाता है । परम तत्वको जाननेवाला भक्त ज्ञानी कहलाता है ।

(१७) इन चार उपासकोंमें ज्ञानी श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे एक परमात्माकी ही उपासना करते हैं । ज्ञानियोंको मैं बहुत ही प्रिय हूँ और मैं भी उन ज्ञानियोंको बहुत प्यार करता हूँ ।

(१८) कई जन्मोंके उपरान्त ज्ञानी मेरे समीप आता है । यह सारा जगत् एक ईश्वरमय है ऐसा कहनेवाला महात्मा कोई विरला ही होता है ।

(१९) ये चारों प्रकारके उपासक बहुत अच्छे और बड़ी छातीवाले हैं पर ज्ञानी मुझे अपनासा मालूम होता है; क्यों कि वह अपने चित्तको मेरी तरफ ही लगाता और सब प्रकारसे पवित्र हो सबसे पवित्र स्वतंत्रताकी इच्छा करता है ।

(२०) नाना प्रकारकी इच्छाओंसे जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है वे दूसरे दूसरे देवताओंकी शरण लेते हैं । (इस प्रकार) उनके जीवनके नियम भी बदल जाते हैं और वे अपनी प्राकृतिके दास बनते हैं ।

जैसा जीवन व्यतीत कीजिये वैसे ही आपके विचार होंगे; वैसा ही आपका चरित्रबल होगा ।

(२१) जो मनुष्य जिस देवताकी श्रद्धाके साथ पूजा करता है; मैं उस मनुष्यकी श्रद्धा उसी देवतामें पक्की बना देता हूँ ।

(२२) उसी श्रद्धाके साथ वह अपने देवताकी पूजा करता है और वैसा ही फल पाता है जैसा कि मैंने विधान कर दिया है ।

(२३) उन थोथी बुद्धिवालोंको जो सिद्धि प्राप्त होती है वह शीघ्र नष्ट भी हो जाती है । जो देवताओंको भजते हैं वे देवताओंके ही पास जाते हैं और जो मेरी उपासना करते हैं वे मेरे पास आते हैं ।

(२४) बुद्धिहीन लोग मुझ निराकारको साकार मान लेते हैं । वे मेरे अनुत्तम (जिससे कोई उत्तम नहीं ऐसे), अव्यय और परम भावको नहीं जानते ।

(२५) इस विशाल प्रकृतिरूपवस्त्रको धारण कर लेनेसे मैं सबको नहीं दिखायी देता । यह अज्ञ संसार मुझ अजन्मा और अव्यय ब्रह्मको नहीं जानता ।

(२६) हे अर्जुन ! मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सृष्टिको जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता ।

(२७) शरीर धारण कर लेनेपर इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न होनेवाले मोहसे सारे प्राणी मोहित हो जाते हैं ।

(२८) जिन पुण्यात्माओंका पाप नष्ट हो चुका है वे काम क्रोधादि मोहसे स्वतन्त्र होते हुए मेरी सेवा करते हैं । वे दृढ व्रती लोग हैं ।

(२९) बुढ़ापे और मृत्युसे मोक्ष पानेके लिये जो मेरे आश्रयमें रहकर चेष्टा करते हैं वे ब्रह्म, ब्रह्मविद्या, और कर्मका रहस्य जानते हैं ।

(३०) जो मनुष्य मृत्युके समय भी अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके साथ मुझे जानते हैं वे ज्ञानी और युक्त चित्तवाले होते हैं ।

अधिभूत शब्दके अर्थ प्रकृतिके हैं; अधिदैवसे परमात्माका मतलब है; और अधियज्ञका (यज्ञे अवीति अधियज्ञं = यज्ञमें जो मुख्य हो उसको अधियज्ञ कहते हैं; इस लिये) ब्रह्मसे तात्पर्य है । इसके बादके अध्यायमें अर्जुनने इन शब्दोंके अर्थ पूछे हैं; वहां इनका और खुलासा हो जायगा ।

यहां इस श्लोकसे यह भाव निकलता है कि जो इस सारी पृथ्वीको परमात्माका शरीर मानता है, और अपने सारे कर्म उसी अव्यक्त, सर्वशक्तिमान् ब्रह्मको अर्पण करता है वही ज्ञानी है; और वही योगी है ।

सातवां अध्याय समाप्त ।



आठवां अध्याय ।

सातवें अध्यायमें भगवान् श्रीकृष्णने चार प्रकारके भक्तोंका वर्णन किया और ज्ञानीको सबसे श्रेष्ठ भक्त सिद्ध किया क्योंकि वह अन्तर ब्रह्मका ज्ञाता है । वह अक्षर ब्रह्म क्या है ? इसका खुलासा इस अध्यायमें होगा । इसलिये इस अध्यायका नाम अक्षरब्रह्मयोग है ।

अर्जुनने प्रश्न किया—

(१) वह ब्रह्म क्या है ? हे पुरुषोत्तम ! वह अध्यात्म किसका नाम है ? कर्म क्या है ? अधिभूत और अधिदैव किसको कहते हैं ?

(२) अधियज्ञ कौन है और इस देहमें वह कैसे रहता

है ? जीवन यात्रा समाप्त करनेके समय तुम्हें युक्त चिन्त-
वाले लोग कैसे जानते हैं ?

श्रीकृष्ण कहते हैं:—

(३) जो कभी नष्ट नहीं होता और जो सबसे ऊंचा
है वही ब्रह्म है । उसका जो स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते
हैं और जिस विसर्ग अथवा दानमें प्राणी उत्पन्न होते और
बढ़ते हैं उसकी ' कर्म ' संज्ञा है ।

(४) मेरी प्रकृति जो नष्ट होनेवाली है वह अधिभूत
है । उस प्रकृतिरूप देहके अन्दर जो पुरुष है वह अधिदेव
है । हे नरश्रेष्ठ ! मैं इस देहमें अधियज्ञ हूँ ।

अधियज्ञका अर्थ ज्ञानमय प्रकृतिदेहधारी ब्रह्मण्ड है ।

(५) अन्तकालमें मेरा स्मरण करता हुआ जो पुरुष देह
न्याग करता है वह निःसन्देह मेरे भावसे परिचित हो जाता है ।

(६) जो मनुष्य जिस भावको लेकर अन्तमें शरीर
छोड़ता है वह उस भावमें मगन होता है और उसी भावका
उपपर संस्कार जम जाता है ।

(७) इसलिये सदा ही मेरा ध्यान करता हुआ युद्ध
कर । अपने मन और बुद्धिको मुझे अर्पण कर देनेसे तू
मुझको ही प्राप्त होगा; इसमें सन्देह नहीं ।

(८) अभ्यास रूपी योगमें युक्त होकर स्वाधीन चिन्तक
माथ जो चिन्तन करता है वह दिव्य परमात्माको पा लेता है ।

(९) उस ब्रह्मका जो सूर्यदेवके समान स्वयं प्रकाश-
मान है, जहां अंधकारका नामनिर्गण भी नहीं; जो सबको

धारण किये हुए है, जिसके रूपकी कोई कल्पना नहीं; जो छोटे छोटे अणुओंसे भी सूक्ष्म है; जो सब जाननेवाला और सबसे प्राचीन है; और जो सबका शासन करनेवाला है—उसका जो ध्यान करता है वह परम स्वरूपको प्राप्त होता है ।

(१०) देह विसर्जन करनेके समय अचल मनसे, भक्ति-पूर्वक, योगसे चित्तकी वृत्तियोंका दमन करता हुआ भले प्रकार दोनों भौंओंके बीचमें प्राणोंको स्थिर करके जो मनुष्य उस ब्रह्मरूपका ध्यान करता है वह उस दिव्य परम पुरुषको प्पता है ।

(११) जिस अक्षरको वेदके जाननेवाले कथन करते हैं; विरक्त पुरुष जिसके लिये यत्न करते हैं और जिसे पानेकी इच्छासे ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है उस अक्षर पदका तेरे लिये संक्षेपसे मैं वर्णन करता हूं ।

(१२-१३) इन्द्रियोंको अपने वशमें करके मनको हृदयमें लगाकर जो योगकी साधना करता हुआ प्राणको शिरमें चढ़ाता है और ब्रह्मवाची अँका उच्चारण करता हुआ मेरे ध्यानमें लीन हो देहको छोड़देता है वह परमगतिको प्राप्त होता है ।

(१४) हे पार्थ ! जिनका योग कभी नहीं डगमगाता अर्थात् जो स्थिर बुद्धिवाले योगी हैं और जो अनन्यचित्त होकर सदा मेरा स्मरण करते हैं वे सुगमतासे ईश्वरके पास पहुंचते हैं ।

(१५) वे महात्मा हैं । उन्होंने वह वस्तु पा ली है

जिससे बँधकर संसारमें कुछ भी नहीं है; उन्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता; क्योंकि पुनर्जन्म क्षणिक और दुःखोंका घर है।

(१६) ब्रह्मलोकसे लेकर सभी पुनर्जन्मवाले हैं; परन्तु हे अर्जुन ! जो मेरे पास आते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं होता।

(१७) हमारे एक हजार युग जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मका एक दिन होता है; और एक ही हजार युगकी उमकी रात होती है। यह ज्ञान जिनको है वे ही दिन और रात क्या है? इसको समझते हैं।

तात्पर्य यह है कि यह सृष्टि एक दिन—ब्रह्मदिन रहती है और रातभर प्रलय रहता है। ऊपर बतला दिया है कि एक ब्रह्मदिन १००० युगका होता है। सृष्टिके कालके ४ विभाग हैं। इन चार विभागोंको चार युग कहते हैं जिनके नाम सबको विदित हैं अर्थात् सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि। ये चारों युग जब हजार बार बीत जाते हैं तब ब्रह्माका एक दिन होता है। इसके बाद रात होती है। रात बीतनेपर फिर दिन होता है। इस हिसाबसे ही—

(१८) जब ब्रह्माके दिनकी पौ फटती है तब सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और रात आनेपर वही सृष्टि ब्रह्मामें मिल जाती है।

(१९) ये सृष्टिके सारे पदार्थ इस प्रकार बार बार उत्पन्न होते हैं और रात होनेपर सबका प्रलय हो जाता है। फिर सबेरे बिना अपनी इच्छाके यह सृष्टि उत्पन्न होती है।

(२०) इस सूक्ष्म प्रकृतिके परे वह सनातन परमात्मा है

जो सब भूतोंके नाश होनेपर भी बना रहता है ।

(२१) यह जो अव्यक्त अन्तर कथन किया गया है उसको परं गति कहते हैं जिसको पाकर लौटनेकी इच्छा नहीं होती । वही मेरा आश्रम है ।

(२२) वह परं पुरुष है । अनन्य भक्तिसे ही उसकी प्राप्ति होती है । उसके अन्दर ही सब प्राणी वर्तमान हैं और उसीने इस ब्रह्मांडको फैलाया है ।

(२३) हे भरतश्रेष्ठ ! अब तुझमें वह समय बतलाता हूँ जब देह त्यागकर योगी लोग ब्रह्मलोक पहुंचते हैं अथवा पुनः मृत्युलोकमें आते हैं ।

(२४) उत्तरायणके ऋतुः महीनोंमें शुक्लपक्षके किसी पवित्र और अग्निके समान तेजस्वी दिनको जो ब्रह्मके जानने वाले देहत्याग करते हैं वे ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ।

(२५) दक्षिणायनके ऋतुः महीनोंमें कृष्णपक्षके किसी काल रात्रिको देह त्याग करनेवाला चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त करता है और वहांसे लौट आता है ।

(२६) सचमुच दो ही मार्ग सनातन हैं; एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण । पहिले मार्गसे जानेवाला उस मुक्तिको पाता है जहांसे लौटनेकी इच्छा नहीं होती और दूसरे मार्गसे जानेवाला लौट आता है—पुनः जन्म लेता है ।

(२७) इन दोनों मार्गोंको जानेवाला कोई योगी मोहको प्राप्त नहीं होता; इसलिये हे अर्जुन ! तू योगी बन ।

[२८] वेदोंमें, यज्ञोंमें, तपोंमें और दानोंमें जो पुण्यफल

हैं, पूर्ण योगीके लिये वे तुच्छ हैं; क्योंकि वह सबसे ऊंचे स्थानपर पहुंचता है जो स्थान आदि आश्रम है ।

वेदोंका महत्व कम नहीं है; यज्ञोंका महत्व भी कम नहीं है; तप और दानकी बड़ी महिमा है, इसमें कोई सन्देह नहीं । पर इन सबका अन्तिम उद्देश्य उसी अन्तर ब्रह्मकी प्राप्ति है । यदि उस अन्तर ब्रह्मकी प्राप्ति बिना वेद, यज्ञ, तप और दानके हो जाती हो तो इनकी जरूरत नहीं । पर सभी किसीके पास श्रीकृष्ण भगवान् आकर अपने मुखसे वह ज्ञान न बतला देंगे । इसलिये क्रम क्रमसे अपनी और अपने समाजकी उन्नतिके लिये वेदोंका अध्ययन, यज्ञोंका संपादन, तपोंका साधन और पात्रापात्रका विचार कर दानका अभ्यास पर आवश्यक है ।

आठवां अध्याय समाप्त ।

नवां अध्याय ।

आठवें अध्यायमें भगवान् श्रीकृष्णोंने बतलाया कि किस उपायसे परमेश्वरकी प्राप्ति होती है । अब इस अध्यायमें सारी विद्याओंमें जो श्रेष्ठ विद्या है जिससे ब्रह्मका ज्ञान होता है तथा सब भक्तियोंमें जो श्रेष्ठ भक्ति है जिससे मनुष्यपर परमात्मा प्रसन्न होता है उस ज्ञान और भक्तिका वर्णन किया जायगा ।

श्रीकृष्ण कहते हैं :—

(१) हे अर्जुन! तेरा निष्पाप हृदय देख मैं तुझे वह गूढ़ बात बतलाता हूं जिससे तेरा दुःख दूर हो जायगा ।

(२) यह राजविद्या है—सब विद्याओंमें श्रेष्ठ विद्या है ; और संसारमें जितनी रहस्यमय बातें हैं उनमें सबसे अधिक गूढ़ बात यही है ; यह सबसे उत्तम और पवित्र है; इसकी सचाईका प्रमाण अनुभव है; यह धर्म ही है । सुगमतासे करने योग्य और सदा बना रहनेवाला यही धर्म है ।

(३) इस धर्मपर जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वे मुझसे दूर रहते हैं और जन्ममृत्युके चरखेके साथ भटकते रहते हैं ।

(४) निराकार रूपसे मैं इस जगत्को फैलाये हूँ । सारे प्राणी मुझमें ही वास करते हैं । पर मैं उनके अन्दर नहीं हूँ । (मेरे सहारे माग मंमार है पर मैं उसके सहारे नहीं हूँ ।)

(५*) मुझमें सब मंमार नहीं है (मैं निःसग हूँ) ; मेरा

* चौथे श्लोकमें कहा है कि सारे प्राणी मुझमें वास करते हैं । पांचवें श्लोकमें इसका शाब्दिक खंडन है । अर्थमें कोई विरोध नहीं आता । वास्तवमें सब प्राणी और सारा जगत् परमात्माके सहारे है । पांचवें श्लोकमें जो खंडन है उसका अर्थ इतना ही है कि मैं जीवके समान देह धारण कर देहबुद्धिमें फंस नहीं जाता; मैं स्वतंत्र रहता हूँ । जीवको जैसे अहंकार होता है वैसा परमात्माको नहीं हो सकता; क्योंकि एक ही परमात्मा है और वही सब कुछ है । वहां भेदभाव या अहंकार कैसे उत्पन्न हो सकता है ? और संसार परमात्मामें है और नहीं भी, इस बातको समझानेके लिये आकाश और वायुका जो दृष्टान्त छठे श्लोकमें दिया है वह मनन करने योग्य है ।

ईश्वरीय योग देखो। मैं भूतोंका धारण और पालन करनेवाला हूँ; पर उनमें रहनेवाला नहीं।

परमात्मा किस प्रकार संसाररूप देहको धारण करके भी उससे स्वतंत्र है? जिस प्रकार वायुका आधार आकाश है और आकाश उस वायुसे स्वतंत्र है।

(६) जिस प्रकार (निराकार) आकाशमें वायुमंडल स्थिर है उसी प्रकार समझ लो कि सारा पृथिवीमंडल मुझमें स्थिर है।

जैसे आकाशसे वायुमंडलका सम्बन्ध है वैसे ही निराकार परमात्मासे पृथिवीमंडलका संबंध है। आकाश वायुमंडलसे स्वतंत्र है वैसे ही परमात्मा पृथिवीमंडलसे स्वतंत्र है। जैसे आकाश न हो तो वायुको रहनेका स्थान न मिले वैसे ही परमात्मा न हो तो पृथिवीका रहना अशभव है। इस प्रकार परमात्मा और पृथिवीका संबंध है और नहीं भी।

परन्तु परमात्मा ही पृथिवीका कर्ताधर्ता है।

(७) प्रलय-कालमें मारा जगत् मेरी प्रकृतिमें मिल जाता है। पुनः सृष्टि-रचनाके समय मैं उसे उत्पन्न करता हूँ।

(८) मैं अपनी प्रकृतिके सहारे अविद्यारूपी वेड़ियोंसे जकड़े हुए प्राणियोंको वारंवार उत्पन्न करता हूँ।

(९) मैं जो ये कर्म करता हूँ उनके बन्धनोंमें मैं नहीं फँसता क्योंकि मैं सुख दुखसे उदासीन रहता हूँ।

(१०) मैं देखता रहता हूँ और प्रकृति सारे जगत् और प्राणियोंको उत्पन्न करती है। इसी कारणसे वारंवार सृष्टि-रचना होती है।

(११) मूर्ख लोग मेरे परंभावको न जानकर और मेरे इस मनुष्य शरीरको देखकर मुझे नहीं पहिचानते ।

(१२) ये वे लोग हैं जिनका चित्त ठिकाने नहीं है; जो राक्षस और दैत्यकी धोखा देनेवाली प्रकृति रखते हैं; जिन्हें कोई ज्ञान नहीं; जिनके आचार विचारमें कोई अर्थ नहीं है ।

तात्पर्य यह है कि जड़ नेत्रोंसे जड़ सृष्टि ही देखनेवाले जड़बुद्धि मनुष्य परमात्माकी जड़ सृष्टिके अन्दर अथवा शरीरके भीतर फैली हुई चेतन शक्तिको भूल जाते हैं । उनके ज्ञाननेत्र खुले नहीं हैं ।

(१३) परन्तु जो महात्मा दैवी प्रकृति रखते हैं वे सृष्टिके आदितत्व परमात्माकी अनन्य भावसे भक्ति करते हैं ।

भक्ति कई प्रकारसे प्रकट होती है । कोई एक विशेष (खास) मार्ग नहीं है । जैसे:

(१४) कोई सदा स्तोत्र अथवा भजन गा कर अपनी भक्ति प्रकट करते हैं; कोई दृढ़ निश्चयके साथ लोकनाथकी सेवा करते हैं; कोई भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं; कोई एकाग्रचित्त होकर ध्यान करते हैं ।

(१५) कोई ज्ञानयज्ञमें मेरी उपासना करते हैं; कोई जीवात्मा और शिवात्मामें भेद न मानकर और कोई परमात्माको अपना स्वामी मानकर अथवा उसके नाना रूपोंका और

* यह संसार ब्रह्ममय है इस प्रकार भावना करके जो कर्म किये जाते हैं उनको ज्ञानयज्ञ कहते हैं । अध्ययन-अध्यापन भी इसी यज्ञके अन्तर्गत है ।

गुणोंका वर्णन कर उसकी उपासना करते हैं ।

(१६) मैं ही वेदों और शास्त्रोंमें कथन किया हुआ यज्ञ हूँ । मैं ही पितृयज्ञ हूँ; मैं ही औपाधि हूँ; मैं ही मंत्र हूँ; मैं ही अग्नि हूँ; और मैं ही होम हूँ ।

तात्पर्य, जगत् ब्रह्मण्य है ।

(१७) इस संसारका मैं पिता हूँ; मैं ही माता, धाता और पितामह हूँ । मैं ही ओंकार हूँ जिसका ज्ञान होना आवश्यक है; और मैं ही ऋक, साम और यजुर्वेद हूँ ।

(१८) मैं इस जगत्की गति हूँ, मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ; मेरी ही हुकूमत चलती है; मैं ही न्याय अन्यायको देख रहा हूँ; मैं ही इसका सहारा हूँ; मैं ही सबके शरण आनेका स्थान हूँ; मैं ही सबका मित्र हूँ; मैं सबका उत्पन्न करता हूँ; और मैं ही संहार करता हूँ; मैं ही आधार, मैं ही संहार और मैं ही विज हूँ ।

(१९) मैं ही (सूर्यके रूपमें) संसारको तपाता हूँ; और मैं ही (जलरूपमें) आकाशमें वरसता हूँ; और मैं ही पानी सोख लेता हूँ । मैं ही अमृत, मैं ही मृत्यु और मैं ही जड़ और चेतन हूँ ।

(२०) तीनों विद्याओंके जाननेवाले, यज्ञमें सोमरसको पान करनेवाले और पापोंसे बचे हुए पवित्र मनुष्य यज्ञमें मेरा पूजन कर सुखकी याचना करते हैं । वे पुण्यात्मा हो कर दिव्यलोकमें देवताओंके समान सुखी हो रहते हैं ।

(२१) देवताओंके साथ खूब सुख भोग करनेके पश्चात्

* तीनों विद्याएँ अर्थात् कर्म, उपासना और ज्ञान ।

अपने पुण्यबलको खर्च कर वे फिर मृत्युलोकमें जाते हैं । इन तीनों धर्मोंके पालन करनेवाले अपनी इच्छा पूरी करके जन्म जन्मान्तरके भागी होते हैं ।

(२२) जो लोग केवल मेरी, और किसीकी नहीं, भक्ति करते हैं उन स्थिर उपासकोंके कुशलके लिये मैं जिम्मेदार हूँ ।

(२३) जो लोग ईश्वर छोड़ श्रद्धाके साथ औरोंको भजते हैं वे भी एक प्रकारसे मेरी ही उपासना करते हैं यद्यपि वह प्रकार ठीक नहीं है ।

(२४) मैं ही सारी उपासनाओं और यज्ञोंका भोग करनेवाला हूँ परं मेरे मन्त्रके भावको न जानकर लोग भूल करते हैं ।

(२५) जो देवताओंके व्रती हैं वे देवताओंके पास, जो पितरोंके उपासक हैं वे पितरोंके पास, जो प्रकृतिके भक्त हैं वे प्रकृतिके पास, और जो मेरे प्रेमी हैं वे मेरे पास आ जाते हैं ।

(२६) जो कोई पत्र, फल, फूल, या जल भी भक्तिके साथ अर्पण करता है उसका वह भक्ति-उपहार मैं प्रसन्नतासे स्वीकार करता हूँ ।

यह भक्तिकी महिमा है । चाहे जितनी तुच्छ वस्तु हो, भक्तिसे उसकी तुच्छता जाती रहती है और वह वस्तु परमात्माको भेंट देने योग्य होती है ।

इस लिये श्रीकृष्णका उपदेश है;

(२७) जो कुछ तुम करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ दान करो, जो कुछ तप करो, सब मुझे अर्पण कर दो ।

(२८) शुभअशुभके सुखदुखमें तुम्हारा छुटकारा होगा। इस प्रकार सन्यास योगसे युक्त हो तुम मुझे पा सकोगे।

(२९) मैं सबको एक आंखसे देखता हूँ। न मेरा कोई शत्रु है न कोई मित्र; न कोई वस्तु प्यारी है और न कोई वस्तु नापसंद है। जो भक्तिमें मुझे भजते हैं वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ।

(३०) महादुराचारी मनुष्य (अपने दुराचारोंपर पछताकर) भक्तिमें केवल मेरी शरण लेता, चूंकि उसका चित्त ठिकाने हो गया है, वह साधुके समान माननीय है।

दुराचारी मनुष्य जिस वड़ी अपने दुराचारपर पछतावा कर अपने कुकर्ममय जीवनको सन्कर्ममें लगा देगा उसी वड़ी उसका दुराचारी जीवन समाप्त हो वह साधु हो जायगा। साधुके समान ही उच्च पदका वह भी अधिकारी होगा। परन्तु साधु बननेका दृढ़ निश्चय होना चाहिये। फिर—

(३१) वह बहुत जल्द धर्मान्मा हो जाता है और उस शान्तिका प्राप्त करता है जिसका कभी अन्त नहीं होता।

(३२) हे पार्थ ! जो मेरी शरण लेते हैं वे कैसे ही नीच कुलमें उत्पन्न क्यों न हुए हों; चाहे वे स्त्री जातिके हों चाहे शूद्र या वैश्य जातिके; वे अति उच्च दशाको प्राप्त करते हैं।

इस श्लोकको पढ़कर कोई यह न समझे कि स्त्रियां या शूद्र नीच हैं अथवा उनमेंसे बिरला ही कोई मुक्ति वा उच्च दशा पानेका अधिकारी हो सकता है। जिनकी यह धारणा है वे बहुत भ्रूलते हैं। जिन लोगोंने स्त्री और शूद्रको जन्ममें ही

पापी माना है उनकी आंखोंपर अपारदर्शी परदा पड़ा हुआ है जिससे वे नहीं देख सकते कि अज्ञात कुलगोत्र जावालको ब्रह्मविद्या पढ़ायी गयी थी और स्त्री जातिको गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी आदि रमणीरत्नोंने सदाके लिये गौरवान्वित कर रखा है । जिस जातिमें आराध्य देवी सरस्वती उत्पन्न हुई और जहां हमारी माताएं उत्पन्न होती हैं उम जातिको नीच जाति हम नहीं कह सकते ।

यह निःसन्देह सत्य है कि पुरुषोंमें जितना शिक्षा-प्रचार था उतना स्त्रियोंमें नहीं था; उसी प्रकार वैश्य और शूद्रका कर्म करनेवालोंमें ज्ञानकी ज्योति उतने प्रखर रूपसे प्रज्वलित नहीं हो सकती जितनी ब्रह्मविद्या और शस्त्रविद्याका अध्ययन करनेवालोंमें हो सकती है । इसीलिये कहा है कि शूद्र और वैश्यका कर्म करनेवाले भी (यद्यपि उन्हें उतना ज्ञान नहीं) भक्ति और कर्तव्य-पालनके कारण परमात्माके समीप पहुंचते हैं ।

(३३) फिर ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके विषयमें कहना ही क्या है ! वे इस क्षय होनेवाले संसारको पाकर मेरी आराधना करते हैं ।

परमात्माकी इस प्रकार शरण लेनेवालोंके लिये यही क्षय होनेवाला संसार अक्षय स्वर्ग बन जाता है । परन्तु जो लोग परमात्माकी आज्ञाका भंग करते हैं और अपना कर्तव्य पालन नहीं करते वे स्वर्गको भी नरक बना देते हैं । यह लोक-जहां आप और हम रहते हैं-क्यों निःसार कहा जाता है ? केवल

हम ही लोगोंने इसे ऐमा बनाया है। हम ही इसको स्वर्ग बना सकते हैं। सोचिये।

(३४) अपने मनको मेरी तरफ लगाओ; मेरी ही भक्ति करो, मुझे ही दंडवत् करो। इस प्रकार युक्त हो कर मेरे प्रति भक्ति करके ही मुझे प्राप्त करोगे।

एक परमात्मा छोड़ दूसरा कोई सहायक नहीं है। वही एक मनुष्यकी भक्तिका पात्र है। उसीके कारण सबका उद्धार हुआ। वही हमारा और हमारे देशका उद्धार करेगा।

नवां अध्याय समाप्त।

दशवां अध्याय।

अब ' विभूति-योग ' का वर्णन आरंभ होता है। इसके पहले अध्यायमें एक परमेश्वरकी भक्तिकी महिमा गायी गयी। उसीका शेष अंश इस अध्यायमें कहा जायगा और फिर किम वस्तुमें किम रूपमें परमात्मा वास करते हैं इसका वर्णन होगा।

श्रीकृष्ण कहते हैं:—

(१) हे प्रबलभुज अर्जुन, मेरे वचनको पुनः सुन। तू प्रीतिमें सुनता है इसलिये तेरे हितकी इच्छासे मैं कहता हूँ।

(२) मेरे जन्मको न देवता जानते हैं और न ऋषि ही; क्योंकि उन देवताओं और ऋषियोंकी मेरेसे ही उत्पत्ति है।

(३) जो मुझे अजन्मा, सृष्टिका मूल, सब लोकोंका

ईश्वर, मोहपाशसे स्वतंत्र मानता है वह इस लोकमें सब पापोंमें मुक्त होता है ।

(४-५) बुद्धि, ज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, इन्द्रियदमन, शान्ति, सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु, भय और रक्षा, अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, कीर्त्ति, अपकीर्त्ति इत्यादि जीते जागते मनुष्योंके जो भाव हैं वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं ।

(६) सातों महर्षि, उनसे पहिले जो चार प्राचीन महर्षि हो गये वे, और सब मनु मेरे ही भाव और मनसे उत्पन्न हुए और उन्हींकी सन्तति वर्तमान प्रजा है ।

(७) मेरी इन विभूतियों और योगको जो जानता है वह मेरा दृढ़ भक्त बनता है ; इसमें कोई सन्देह नहीं ।

(८) मैं सबकी उत्पत्तिका मूल हूं, मुझसे ही सब कुछ फलता फूलता है; यह जानकर पंडित लोग पूर्ण भक्तिके साथ मेरी पूजा करते हैं ।

(९) मनको मेरी तरफ लगाते हुए अपने प्राणोंको मुझपर

(१) उक्त सात महर्षि अर्थात् भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पलाश, क्रतु और वसिष्ठ अमैथुना सृष्टिसं उत्पन्न हुए मानस-पुत्र कहे जाते हैं ।

(२) इनसे पहिले सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार ब्रह्माकी इच्छा मात्रसे पैदा हुए । इन्हींको चार कुमार कहते हैं ।

(३) मनुष्य जातिके आदि पुरुष, शासक और शिक्षक, १४ मनु हुए । महर्षि, कुमार और मनुसे आगे प्रजा बढ़ती गयी ।

न्योछावर कर, जानकार लोग परस्परको शिक्षा देते हैं, मेरी चर्चा करते और मुख और संतोपसे रहते हैं ।

(१०) जो लोग भक्तिके साथ मेरा पूजन करते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूँ जिसके उपयोगसे वे मेरे पास आ जाते हैं ।

(११) और उनके हृदयोंमें रहते हुए मैं उनपर पड़े हुए अज्ञानरूपी अंधकारको ज्ञानरूपी चमकते हुए दीपकसे भगा देता हूँ:—

अर्जुनने कहा:

(१२-१३) तुम परब्रह्म हो. तुम ही परंधाम हो, तुम सबसे पवित्र हो । सब ऋषियोंके साथ देवर्षि नारद, और असित, देवल तथा व्यास भी तुमको चिरकाल रहनेवाला दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और परमात्मा कहते हैं । और तुम भी मुझसे यही कह रहे हो ।

(१४) तुम जो कुछ कहते हो, मैं सच मानता हूँ । हे केशव ! तुम्हारा स्वरूप देव या दैत्य कोई नहीं जानता ।

(१५) हे भूतोंके उत्पन्न करनेवाले ! हे पृथ्वीपति ! हे देवोंके देव ! हे संसारस्वामिन । हे पुरुषोत्तम ! तुम ही अपने आपको जानते हो ।

(१६) अपनी विभूतियोंके रूपसे तुम सारे संसारमें फैले हुए हो । उन दैवी विभूतियोंका कृपाकर पूरा पूरा वर्णन करो ।

(१७) हे योगिन् कृष्ण ! मैं तुम्हारी सदा चिन्ता करता रहता हूँ ; बतलाओ, तुम्हें कैसे जानूँ ? किन किन भावोंमें तुम्हारा स्मरण करूँ ?

(१८) हे लोकनाथ ! फिर अपने योग और विभूतियोंका विस्तारसे वर्णन सुनाओ; क्योंकि इन थोड़ेसे अमृत-वचनोंको सुनकर मेरा सन्तोष न हुआ ।

अब श्रीकृष्ण अपने योगके महत्व और विभूतियोंको बतलाते हैं:—

(१९) अब मैं विशेष कर तेरे लिये अपनी दैवी विभूतियोंका वर्णन करता हूँ। (तुम जो कहते हो कि उनका विस्तारके साथ वर्णन करो तो भाई!) उनके विस्तारका कोई अन्त नहीं है।

(२०) हे गुडाकेश (निद्राको जीतनेवाले अर्जुन!) मैं सब चर-अचर प्राणियोंके अन्दर रहनेवाला आत्मा हूँ। मैं सृष्टिका आदि, मध्य और अन्त हूँ।

(२१) बारह आदियोंमें मैं विष्णु हूँ; उजाला करनेवाली वस्तुओंमें मैं चमकता हुआ सूर्य हूँ; नक्षत्रोंमें चंद्रमा और हवाओंमें मरीचि हूँ।

(२२) वेदोंमें मैं सामवेद, देवोंमें इन्द्र, इन्द्रियोंमें मन और प्राणियोंमें मैं चेतन शक्ति हूँ।

(२३) रुद्रोंमें मैं शंकर, यक्ष और राक्षसोंमें कुबेर, वसुओंमें अग्नि, पहाड़की चोटियोंमें मैं मेरु हूँ।

(२४) कुल पुरोहितोंमें मैं प्रधान पुरोहित बृहस्पति हूँ; सेनापतियोंमें मैं स्कंद हूँ और जलाशयोंमें मैं समुद्र हूँ।

(२५) महर्षियोंमें मैं भृगु हूँ; वाणियोंमें मैं एक अक्षर ॐ हूँ; यज्ञोंमें मैं जपयज्ञ हूँ और अचल पदार्थोंमें मैं हिमालय हूँ।

(२६) सारे वृत्तोंमें अश्वत्थ, देवर्षियोंमें नारद, गन्धर्वा-
में चित्ररथ, सिद्धोंमें मैं कापिल मुनि हूँ ।

(२७) घोड़ोंमें मैं उच्चैश्रवा हूँ जा अमृतसे उत्पन्न हुआ;
बड़े बड़े हाथियोंमें मैं ऐरावत हूँ; और मनुष्योंमें मैं राजा हूँ ।

(२८) शस्त्रास्त्रोंमें मैं वज्र हूँ; गौओंमें मैं कामधेनु
हूँ; सन्तति उत्पन्न करनेवाला मैं काम हूँ और जहरीले सांपोंमें
मैं वासुकी हूँ ।

(२९) जो सांप जहरीले नहीं हैं उनमें मैं शेष हूँ; जल-
चरोंमें मैं वरुण हूँ; पितरोंमें मैं अर्यमा हूँ; संयम करनेवालोंमें
मैं यम हूँ ।

(३०) दैत्योंमें प्रचाद; गणना करनेवालोंमें काल;
जानवरोंमें शेर और पक्षियोंमें मैं गरुड़ हूँ ।

(३१) स्वच्छता फैलानेवालोंमें मैं वायु हूँ; शस्त्रधारियोंमें
राम; मछलियोंमें मगर और नदियोंमें मैं गंगा हूँ ।

(३२) सारी सृष्टियोंका मैं आदि, मध्य और अन्त हूँ;
विद्याओंमें मैं अध्यात्मविद्या और वादविवादमें मैं *वाद हूँ ।

*वादविवादके तीन भेद होते हैं : वाद, जल्प और वितण्डा ।
वितंडावाद उसको कहते हैं जिसमें निर्णय नहीं होता ; जल्प-
वाद वह है जो एक मतको खंडन करता है और दूसरे मतको
येनकेन प्रकारेण स्थापित करता है और वाद वह है, जो तत्व-
निर्णयके लिये किया जाय । वादविवादमें यही वाद अच्छा है,
इसलिये परमात्माकी विभूति हुआ ।

(३३) अक्षरोंमें मैं ओंकार; समासोंमें मैं द्वंद्व § समास, मैं ही अनन्त काल और मैं ही सबका विधाता हूँ ।

(३४) मैं ही सबको हरनेवाला मृत्यु हूँ; होनहारका मैं ही बीज हूँ; स्त्रियोंमें मैं कीर्ति, शोभा, वाणी, स्मरणाशक्ति, बुद्धि, धारणाशक्ति और क्षमा हूँ ।

(३५) सामवेदमें मैं बृहत्साम हूँ; छन्दोंमें मैं गायत्री हूँ; महीनोंमें मैं मार्गशीर्षका महीना हूँ; और ऋतुओंमें मैं वसंतऋतु हूँ ।

(३६) धोखवाजियोंमें मैं जुआ हूँ; तेजस्वियोंमें मैं तेज हूँ; मैं जय हूँ; मैं उद्योग हूँ; और नेक मनुष्योंकी मैं ही नेकी हूँ ।

(३७) यदुवंशमें मैं वामुदेव हूँ; पांडवोंमें मैं धनंजय (अर्जुन) हूँ; मुनियोंमें मैं व्यास हूँ; और कवियोंमें मैं उशाना कवि हूँ ।

(३८) दुष्टोंका दमन करनेवालोंमें मैं दंड हूँ; जयकी इच्छा करनेवालोंके लिये मैं नीति हूँ । गुप्त वस्तुओंमें मैं मौन और ज्ञानियोंमें मैं ज्ञान हूँ ।

(३९) मेरे बिना कोई वस्तु नहीं; मार चर-अचर प्राणियोंका मैं ही बीज हूँ ।

(४०) हे परंतप ! मेरी देवी विभूतियोंका अन्त नहीं है । बहुत संक्षेपसे मैंने अपनी विभूतियोंका वर्णन किया है ।

§ द्वंद्व समासमें यह विशेषता है कि दोनों पदोंकी बराबरी होती है । इसमें समता है जो औरोंमें नहीं ।

१ कीर्ति, शोभा आदि शब्द स्त्रीलिंगके हैं इसलिये स्त्रियोंमें शामिल किये गये ।

(४१) जिन जिन वस्तुओंमें महत्ता, तेजस्विता अथवा बल है उन उन वस्तुओंको मेरे ही तेजके अंशमें उत्पन्न हुई जान।

(४२) पर हे अर्जुन ! इन बहुतसी विभूतियोंके ज्ञानसे तेरा क्या लाभ है ? इतना याद रख कि मैं अपने एक अंश-मात्रसे संसार भर फैला हुआ हूँ ।

दशवां अध्याय समाप्त ।

ग्यारहवां अध्याय ।

नवें अध्यायमें सृष्टिके मुख्य मुख्य पदार्थोंको भगवान्‌के भिन्न भिन्न प्रकटरूप बतलाकर अन्तमें श्रीकृष्णने कहा कि वास्तवमें सारी सृष्टिमें मैं अंशरूपमें फैला हुआ हूँ । अब इस अध्यायमें परमात्माका विश्वरूप-विराटरूप-अर्जुनको श्रीकृष्ण योगेश्वर दिखला देंगे । इस अध्यायका नाम “ विश्वरूप-दर्शनयोग है । ”

अर्जुनने कहा :-

(१) मुझपर अनुग्रह करनेके लिये तुमने जो अध्यात्म-विषयका ज्ञान कथन किया उससे मेरा मोह दूर हो गया है ।

(२) हे कमल-नयन ! मैंने तुमसे प्राणियोंके उत्पन्न होने और नाश होनेका सविस्तर रहस्य सुना और नाशरहित परमात्माका महत्व भी सुन लिया ।

(३) तुमने जैसा अपना वर्णन किया है उस परमेश्वरीय रूपको मैं देखना चाहता हूँ ।

(४) हे योगेश्वर ! यदि मैं उस रूपको देख सकता हूँ तो उस अव्यय आत्माके दर्शन कराओ ।

श्रीकृष्ण कहते हैं :—

(५) हे पार्थ ! अच्छा तो मेरे उन सैकड़ों सहस्रों रूपोंको देख जो नाना प्रकारके नाना आकृति और रंगोंके दिव्यरूप हैं ।

(६) उन आदियों, वसुओं, अश्विनों और वायु देवताओंको देख । उन आश्चर्यभरी वस्तुओंको देख जिन्हें तूने कभी नहीं देखा है ।

(७) सारे भूमंडलों और उन पदार्थोंको, जिन्हें देखना चाहता है आज तू देख ।

(८) अपनी इन आंखोंसे तू मुझे नहीं देख सकता; इसलिये तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ जिनसे मेरा ईश्वरी योग देख ।

संजयने धृतराष्ट्रसे कहा कि,

(९) हे राजन् ! इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर श्रीकृष्णने अपना परम ईश्वरी रूप अर्जुनको दिखला दिया ।

(१०-११) मुंह और आंखोंकी कोई गिनती नहीं है । इनमें नाना प्रकारके अद्भुत दृश्य दिखायी दे रहे हैं; अगाणित सुन्दर अलंकार हैं और साथ दिव्य शस्त्र हैं । क्या ही सुन्दर प्रकाश फैलानेवाली मालाएं हैं । कैसा दिव्य वस्त्र धारण किया है ! क्या ही सुगन्धमय लेप शरीरमें लगा है; आश्चर्य है ! कितने हाथ, कितने मुंह, कितनी आंखें—कोई गिनती नहीं ! यह अनन्त रूप है ! जिस दिशामें देखिये उधर ही सुखादि अवयव दिखायी देते हैं ! कैसा प्रकाश फैला हुआ है !

(१२) हजार सूर्योंकी प्रभा एक ही साथ हो तो वह प्रभा इस प्रकाशके बराबर हो ।

(१३) उस परमात्माके रूपमें अर्जुनने सारे भूमंडलके एक एक हिस्सेको एक साथ मिले हुए देख लिया ।

(१४) यह रूप देखकर अर्जुनके आश्चर्यका पारावार न रहा; आश्चर्यसे उमके रोंगटे खड़े हो गये और शिर झुका हाथ जोड़ उमने श्रीकृष्णमें कहा:—

(१५) हे ईश्वर ! तेरी देहमें मैं सारे देवताओंको, सारे चर अचर प्राणियोंको, कमलासनपर बैठे हुए ब्रह्मदेवको, सारे ऋषियोंको और पेटके बल चलनेवाले आधे देवोंको मैं देख रहा हूँ ।

(१६) तेरे चारों दिशाओंमें फैले हुए शरीरमें मैं कितने ही हाथ, पेट, मुँह और आंखें देख रहा हूँ ! हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप ! तेरे आदि, मध्य, और अन्तका पता नहीं लगता ।

(१७) सब ओरसे प्रकाशित होनेवाले तुम तेजके समूह हो, सूर्य और अग्निकी प्रभावले तुम्हारे अनुपम प्रकाशके कारण तुम्हारी ओर देखनेसे आंखें चकाचौंध खा जाती हैं; तुम्हारे शिरपर किरीट और हाथमें गदा और चक्र शोभायमान है ।

(२१) तुम ही जाननेकी वस्तु हो; तुम्हारा कभी नाश नहीं होता; इस संसारके तुम ही आश्रय हो; तुम ही अनादि कालसे धर्मकी रक्षा कर रहे हो; तुम सनातन हो—मेरे ईश्वर हो ।

(१९) तुम्हारा आदि, अन्त या मध्य नहीं है; तुम्हारा वीर्य अनन्त है; तुम्हारी अनन्त भुजाएँ हैं, सूर्य और चन्द्रमा तुम्हारे नेत्र हैं; तुम्हारा मुख धधकती हुई आगके समान है; तुम अपने तेजसे इस भ्रमंडलको तपा रहे हो; मैं तुम्हारे दर्शन करता हूँ।

(२०) पृथिवी और आकाशके बीचका फासिला तुमसे ही भर गया है और सारी दिशाओंमें तुम ही तुम हो। तुम्हारे अद्भुत और उग्र रूपको देखकर तीनों लोक कांप रहे हैं।

(२१) देवताओंके समूह तुममें प्रवेश कर रहे हैं; कई एक मारे डरके जहाँके तहाँ खड़े खड़े हाथ जोड़ तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं; महर्षि और सिद्ध लोग बहुत प्रकारसे तुम्हारी स्तुति करते हुए याचना कर रहे हैं कि संसारका कल्याण हो।

(२२) रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विन, मरुत, ऊष्मपा; और गन्धर्व, यज्ञ, दैत्य, सिद्ध लोग—सभी आश्चर्यसे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं।

(२३) तेरे महत् रूपको देखकर संसार भयभीत हो गया है। इन बड़े बड़े मुखों और नेत्रोंको, इन भुजाओं और जाँघोंको, इन विशाल पैरों, उदरों और भयानक दाढ़ी-वाले मुखोंको देखकर मैं भी डर गया हूँ।

(२४) पृथिवीसे आकाशतक तुम्हारा शरीर फैला हुआ है। इसमें नाना प्रकारके चमकते हुए रंग हैं; बड़ी बड़ी चमकती हुई आँखों और इन खुले हुए मुखोंको देखकर मेरी तबीयत परेशान है; मन डावाँडोल हो रहा है; और हिम्मत जाती रही है।

(२५) कालाग्निके समान प्रज्वलित और भयंकर दांतोंवाले तुम्हारे मुखोंको देखकर मैं इतना घबरा गया हूँ कि मेरा दिशाज्ञान भी जाता रहा, मुझे कुछ नहीं सूझता । हे देवोंके देव ! जगत्के आश्रय ! मेरे ऊपर कृपा करो ।

(२६-२७) कौरव लोग भीष्म, द्रोण, कर्ण, मेरी तरफके सभी बड़े बड़े योद्धाओं तथा कई एक राजाओंके साथ बड़ी तीव्र गतिसे तुम्हारे भयंकर दाढ़ोंवाले मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं; और कुछ लोग तुम्हारे दांतोंमें फंस गये हैं और उनके शिर पीसे जा रहे हैं ।

(२८) जिस प्रकार नदियोंकी भिन्न भिन्न धाराएं एक समुद्रमें ही आ गिरती हैं उसी प्रकार इस मर्त्यलोकके योद्धा लोग तुम्हारे प्रज्वलित मुखमें प्रवेश कर रहे हैं ।

(२९) जिस प्रकार पतिंगे जलती हुई मशालपर अपना सर्वनाश करनेके लिये दौड़ आते हैं उसी प्रकार अपना नाश करनेके हेतु लोग बड़े वेगसे तुम्हारे मुखमें प्रवेश कर रहे हैं ।

(३०) अपने जलते हुए मुखोंसे तुम सब तरफसे सब लोकोंको घास करते हुए उसका आस्वाद ले रहे हो । हे सदा-चारियोंके रक्षक ! तुमने अपने भयंकर तेजसे सब स्थान भर दिये हैं और तुम सारे संसारको तपा रहे हो ।

(३१) हे परमेश्वर ! यह भयंकर रूप धारण करनेवाले तुम कौन हो ? मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । मुझपर कृपा करो । तुम्हारा आदि रूप क्या है, मुझे बताओ । मैं तुम्हारा

मतलब नहीं समझता ।

श्रीकृष्ण कहते हैं:—

(३२) संहार करनेवाला मैं काल हूँ; संसारका नाश करनेके हेतु उद्यत हूँ ! इस समय लड़ाईके लिये जो योद्धा कमर कसे खड़े हैं उनमेंसे एक भी मृत्युसे न बचने पावेगा । तू युद्ध न भी करे तो क्या !

(३३) इसलिये हे अर्जुन ! उठ, शत्रुओंको हराकर यशका भागी बन समृद्ध राज्यको भोग । मैंने तो इनको मार ही डाला है; हे * सव्यसाचिन ! तुझे केवल निमित्तके लिये नड़ना है ।

(३४) मैंने द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और सभी योद्धाओंको मार डाला है । तू निडर होकर उनका नाश कर । युद्ध कर; तू विपक्षियोंको अवश्य जीतेगा ।

संजयने कहा:—

(३५) केशवका यह वचन सुनकर किरीट धारण किये हुए अर्जुनने (जिसका गला इस समय भर आया था) कांपते हुए हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार कर कहा:—

(३६) हे हृषीकेश ! तुम्हारी कीर्ति सुनकर संसार प्रसन्न हो रहा है । सब लोग तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं । राक्षस लोग मारे डरके चारों ओर भाग रहे हैं । सब सिद्धोंके समुदाय तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं । यह उचित ही है ।

(३७) उनका नमस्कार करना ठीक ही है; क्योंकि

* जो बाएं हाथसे भी बाण चला सके उसे सव्यसाचिन कहते हैं ।

तुम बड़े हो-ब्रह्माके भी पिता हो । हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! तुम अक्षर हो ; तुम ही सूक्ष्म और स्थूल प्रकृति हो, और तुम ही प्रकृतिके परे रहनेवाले परमात्मा हो ।

(३८) तुम आदिदेव हो ; तुम सनातन पुरुष हो ; तुम इस संसारके सहारे हो ; तुम ही ज्ञानी हो और तुम ही जानने योग्य हो ; तुम ही परंधाम हो ; तुम्हारे अनन्त रूप हैं ; भूमंडलभर तुम ही तो हो ।

(३९) तुम ही वायु, यम, अग्नि, चन्द्रमा, वरुण हो ; और तुम ही ब्रह्मा और तुम ही ब्रह्माके पिता हो । तुम्हें बार बार नमस्कार हैं ।

(४०) सब तरफसे तुम्हें नमस्कार हैं । तुम ही सब कुछ हो । तुम्हारा अनन्त वीर्य्य और अनन्त शक्ति है । तुम सबत्र हो, इसलिये; तुम ही सर्व हो ।

(४१-४२) तुम्हें मित्र जानकर प्यारसे या वेपरवाहीसे तुम्हारी महिमा न जाननेसे यदि कभी मैंने तुम्हें हे कृष्ण, हे यादव अथवा हे मित्र ! कहकर पुकारा हो ; और उसी प्रकार हे अच्युत ! कभी खेल कूदके समय अथवा साथ सोते हुए या अक्रेलेमें या चार लोगोंके सामने मैंने किसी प्रकार तुम्हारा असम्मान किया हो तो मुझे क्षमा करना ।

(४३) तुम चर और अचर संसारके पिता हो, गुरुसे भी बढ़कर तुम पूजनीय हो ; तुमसे बड़ा कोई क्या होगा ? तुम्हारे बराबर ही कोई नहीं है । तीनों लोकमें तुम्हारा कोई सानी नहीं ।

(४४) इसलिये तुम्हें साष्टांग दण्डवत् करता हूं । मैं तुमको प्रसन्न करना चाहता हूं । जिस प्रकार पिता अपने पुत्रको, मित्र अपने मित्रको, और प्रेमी अपने प्रेमपात्रको क्षमा कर देता है ; वैसे ही तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो ।

(४५) जिम रूपको मैंने पहिले कभी नहीं देखा उसे देख कर मुझे बहुत आनंद हुआ सही, पर मारे डरके मेरा मन बेचैन है, इसलिये हे ईश्वर ! वह रूप फिर दिखलाओ । हे देवोंके देव ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न हो !

(४६) हे सहस्रों भुजाओं और मुखोंवाले ! मैं तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं जिममें शिरपर किरीट, हाथमें गदा और चक्र है ; जिमके चार हाथ हैं ।

श्रीकृष्ण कहते हैं—

(४७) मेरी कृपा और मेरी योगशक्तिमें तूने वह आदि, प्रकाशमान, अनन्त और विश्वरूप देख लिया जिसे पहिले किमीने नहीं देखा था ।

(४८) इस रूपको कोई वेदपाठ, यज्ञ, ध्यान, दान, कर्म, अथवा उग्र तपमें नहीं देख सकता । ऐसे रूपको तूने देख लिया ।

(४९) घबरा मत ! इस भयंकर शकलोंको देखकर न घबरा । भय छोड़ और मेरे इस नित्यके रूपको देख ।

संजय कहते हैं:—

(५०) ऐसा कहकर वासुदेवने अर्जुनको अपना सौम्य रूप दिखलाया और उसकी घबराहट दूर की ।

अर्जुनने कहा:-

(५१) हे जनार्दन ! तुम्हारे इस सौम्य मनुष्यरूपको देखकर मेरे होश ठिकाने हुए ।

श्रीकृष्णने कहा:-

(५२) मेरा यह रूप जो तूने देखा है, कोई जल्दी नहीं देख पाता । देवता लोग भी इसे देखनेके लिये तरसते रहते हैं ।

(५३) तूने देखा हुआ यह रूप नवेदोंसे दिखायी देता है न यज्ञ, दान अथवा तपसे ही जाना जा सकता है ।

(५४) हे अर्जुन ! अनन्य भक्तिसे अवश्य ही मेरे इस रूपको कोई भी देख सकता है । और भक्तिसे ही मैं जाना जा सकता हूँ । वास्तवमें मेरा कैसा रूप है उसके जाननेके लिये भक्ति ही चाहिये ।

(५५) जो अपने सब कर्म मुझे अर्पण कर देता है, जिसका उद्देश्य ही मैं हूँ; जो मेरी ही भक्ति करता है; और जो विषयोंकी इच्छा छोड़ किसीसे द्वेष नहीं करता वह मेरे समीप आता है ।

ग्यारहवां अध्याय समाप्त ।

बारहवां अध्याय ।

परमात्मा निराकार है और साकार भी । साकार परमात्मा सृष्टि तथा सृष्टिकार्यके रूपसे दृश्यमान है और

निराकार परमात्मा उसी साकारके अन्दर व्याप्त है । जो लोग निराकारका अनुभव नहीं कर सकते अवश्य ही वे साकारकी भक्ति और उपासना करते हैं । जो निराकार अनुभव करते हैं वे तो फिर ब्रह्मरूप ही हैं । इसलिये प्रश्न उठता है कि, परमात्माका किस रूपमें अनुभव करनेवालोंकी योग्यता अधिक है ? इसका उत्तर इस भक्तियोग नामक अध्यायमें दिया जायगा; और योगीका विशद वर्णन भी इस अध्यायमें होगा ।

अर्जुनने प्रश्न किया:—

(१) कौन योगी श्रेष्ठ हैं ? जो भक्त सदा तुम्हारी तरफ चित्त लगाये उपासना करते हैं वे अथवा वे भक्त जो तुम्हें अक्षर, अव्यक्त समझते हुए तुम्हारी भक्ति करते हैं ?

श्रीकृष्ण कहते हैं—

(१) जो लोग मेरी तरफ चित्तको स्थिर लगाये हुए बड़ी श्रद्धाके साथ मेरी उपासना करते हैं वे, मेरी दृष्टिसे उत्तम योगी हैं ।

(३-४) जो लोग मुझ अक्षर, अकथनीय, अदृश्य, सर्व-व्यापी, अचिन्तनीय, *कूटस्थ, अचल ध्रुवकी भक्ति करते हैं, और इंद्रियोंको विषयोंसे रोक कर सबको एक आंखसे देखते हैं और जो सदा प्राणिमात्रकी सेवामें लगे रहते हैं वे मेरे समीप आते हैं ।

* निर्विकार ।

१ सदा रहनेवाला ।

(६) परन्तु जो लोग अव्यक्तके उपासक हैं उनकी राहमें बहुत कांटे हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्मपर मनुष्यकी श्रद्धा जल्दी नहीं होती ।

(६-७) जो लोग अपने सारे काम मुझे अर्पण कर मर ही हो जाते हैं और अनन्य भक्तिसे मेरी उपासना करते हैं अथवा मेरे विषयका ही चिन्तन करते हैं उन्हें मैं इस मृत्यु-लोककी विपदासे बहुत जल्दी छुड़ाता हूँ ।

(८) अपने मनको मेरी तरफ लगा और अपनी बुद्धिको मेरे ही विचारमें स्थिर कर तो तू सदा मुझमें ही रहेगा इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं ।

अब इसके बाद श्रीकृष्ण भगवान् १२ वें श्लोकतक योगके कई मार्ग इसलिये बतलाते हैं कि जो मार्ग जिसे अनुकूल अथवा पसंद हो उस मार्गपर वह चले । कोई ज़बर-दस्ती नहीं है । अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और अधिकार देखकर अपनी अपनी राह ढूँढ़ निकालनेका सबको हक है ।

(९) यदि अपना मन मेरी तरफ लगाना अभी न बन पड़ता हो तो हे धनंजय ! अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करनेकी चेष्टा कर ।

(१०) यदि अभ्यासयोग भी न सधे तो जो कोई तू काम करता है उसे मेरे प्रति अर्पण कर दे । मेरे लिये ही कर्म करनेसे तुझे सिद्धि प्राप्त होगी ।

(११) यदि यह भी न बन पड़े तो मनको जीतकर मेरी शरण आ और संयमके साथ, कर्मके फलकी आशा छोड़ दे ।

(१२) अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यानसे निष्काम कर्म करना उत्तम है और ऐसे ही सन्याससे शान्ति प्राप्त होती है ।

(१३-१४) वह भक्त मेरा प्यारा है जो प्राणी मात्रसे प्रेम रखता है; जो सबसे मित्रता और दयाका व्यवहार करता है; जो मोह और घमंडसे स्वतंत्र है; जो सुखदुःखमें एकसा रहता है; जो क्षमाशील, संतुष्ट, योगमें रत, जितेन्द्रिय, दृढ़-व्रती, और मन और बुद्धिके साथ जो मेरा हो गया है ।

(१५) जो न संसारको कष्ट देता है और न संसारसे कष्ट पाता है—जिसने हर्ष, लोभ, भय और स्वार्थका परित्याग कर दिया है वह मेरा प्यारा है ।

(१६) जो पुरुष किसी विषयकी इच्छा नहीं करता; जो भीतर बाहर स्वच्छ है; जो प्रत्येक कामको यथाविधि समयपर और मन लगाकर करता है; जो किमीकी तरफदारी नहीं करता; जो क्लेशोंको तुच्छ समझता है और जिसने सब प्रकार स्वार्थके उद्योग छोड़ दिये हैं वह भक्त मेरा प्यारा है ।

(१७) कोई अच्छी वस्तु मिलनेपर जिसे न आनन्द होता है न बुरी वस्तु पा कर जो दुःखी होता है; जो निराश होकर न दुःख करता है और न आशा ही रखता है; जिसने भले बुरे सब पदार्थोंका भोग त्याग कर दिया है; और जो भक्तिमान् है वह मेरा प्यारा है ।

(१८-१९) शत्रु, मित्र, मान, अपमान, सरदी, गरमी, सुख, दुःख आदिको जो एकसा समझता और इच्छा छोड़कर

सत्कर्म करता है ; जो स्तुति सुनकर न फूलता है और न निन्दा सुनकर नाक सिकोड़ता है; जो कभी बात करता है तो कामकी ही बात बतलाता है—फजूल नहीं बोलता; जो घरबार न रखकर संतुष्ट रहता है और बुद्धिको स्थिर रखता हुआ मेरी भक्ति करता है वह मेरा प्यारा है ।

(१९) जो लोग इस धर्मरूपी अमृतको पानकर सद्धर्मसे चलते हैं वे श्रद्धावान भक्त मेरे अत्यंत प्रिय हैं ।

वारहवां अध्याय समाप्त ।

तेरहवां अध्याय ।

इस अध्यायका नाम ' क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभाग योग ' है । नामसे ही प्रकट है कि इस अध्यायमें क्षेत्र अर्थात् शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात् आत्मा इन दो वस्तुओंका परस्पर क्या संबंध है इसका वर्णन होगा । इस अध्यायमें श्रीकृष्ण प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेयका खुलासा करेंगे ।

अर्जुनने कहा:—

(१) हे केशव ! मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तथा ज्ञान और ज्ञेयको भली भांति समझना चाहता हूँ ।

(२) हे कुन्तिनन्दन ! इस शरीरको ही क्षेत्र कहते हैं ; इसका जो ज्ञान रखता है उसे जानकार लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं ।

(३) हे अर्जुन ! सब शरीरोंमें रहनेवाला मैं आत्मा हूँ ; इसलिये मुझे ही क्षेत्रज्ञ जान । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विषयक जो

पृथक् पृथक् ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है ।

(४) वह क्षेत्र जैसा कुछ है, उसका जो स्वभाव है, और उसमें जो विकार हैं, और उसकी कहांसे उत्पत्ति है, इत्यादि बातोंका और साथ साथ क्षेत्रज्ञ क्या है और उसकी कैसी शक्ति है इसका भी हाल मैं सुना देता हूं ।

(५) ऋषियोंने, वेदोंने, और ब्रह्ममूत्रकारोंने निश्चित रूपसे युक्तियोंसे नानाप्रकारसे इसका वर्णन किया है ।

(६-७) पृथिवी, जल, तेज, वायु, और आकाश ये पांच तत्त्व, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, दशों इन्द्रिय और ग्यारहवां मन, इन्द्रियोंके विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संग्रात, चेतना, धृति इन्हींको विकारसहित क्षेत्र कहते हैं ।

(८-१२) अपनी प्रतिष्ठाकी इच्छा न रखना, शेखी न मारना, दूसरोंको कष्ट न देना, दूसरोंके अपराध क्षमा करना, सबसे सीधा व्यवहार करना, गुरुकी सेवा करना, अन्दर बाहरसे साफ रहना, सत्कार्यमें दृढ़ रहना, इन्द्रियोंको अधीन रखकर विषयोंसे वचना, अपने आपको बड़ा न मानना, और

१ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांच इन्द्रियोंके पांच विषय हैं । शब्द सुनना कानका विषय, स्पर्श करना चमड़ेका विषय, रूप देखना आंखका विषय, और गन्ध लेना नाकका विषय है ।

२ पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाशकी मिलावटको संग्रात कहते हैं ।

३ विचार करनेवाली शक्तिको चेतना कहते हैं ।

४ चित्तको दृढ़ बनानेवाली शक्तिका नाम धृति है ।

जन्म, मृत्यु, जरा, और रोगादि दुःखोंका तात्पर्य समझ लेना; विहार और विलासमें मगन न होना; पुत्र, स्त्री, और घरवारमें फंस न जाना, भले बुरेकी परीक्षाके समय मनको बराबर रखना, आत्माकी अनन्य भक्ति करना, एकान्त प्रान्तमें रहना, आत्माके सम्बन्धके ज्ञानमें प्रवृत्त रहना, तत्त्वको जाननेके लिये बार बार शास्त्रोंको पढ़ना—ये सब सच्चे ज्ञानके लक्षण हैं। जो ज्ञान इसके विपरीत है वह अज्ञान है।

(१३) अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ; ज्ञेय क्या है ? जिसे जानकर मनुष्य अमर हो सकता है। ज्ञेय वह परब्रह्म है जिसका न आदि न अन्त और जो सत् असत्से अनोखी चीज है।

(१४) उस अनादि ब्रह्मके चारों ओर हाथ हैं; चारों ओर पैर हैं, चारों ओर आंखें हैं, चारों ओर शिर और चारों ओर मुख हैं। वह सबको देखता है, सबको सुनता है, संसारको वही थांमे हुए है।

(१५) उसके इन्द्रियां नहीं हैं पर इन्द्रियोंकी जो जो शक्ति है उस उस शक्तिके साथ वह प्रकाशमान है। वह सब बंधनोंसे रहित है पर सबको धारण किये हुए है; वह निर्गुण है और गुणोंका भोक्ता भी है।

(१६) वह ब्रह्म सब प्राणियोंके बाहर भीतर है, वह चलता भी है और नहीं भी, वह सूक्ष्म है इसलिये दिखायी नहीं देता; वह दूर है, और पास भी है।

१ जिस वस्तुका ज्ञान प्राप्त करना कर्तव्य है उसे ज्ञेय कहते हैं।

(१७) वह भूत मात्रा में मिला हुआ है, और अलग भी है। वह ब्रह्म भूतोंका स्वामी है; सबको मिटा देनेवाला और सबको उत्पन्न करनेवाला वही है ।

(१८) वह सूर्यादि तेजःपुंज देवोंका भी प्रकाश देता है । जहां वह है वहांसे अज्ञान दूर है, वह ज्ञान है, उसीको जानना कर्तव्य है, और वही उत्तम गुणोंके आचरण कर ज्ञान प्राप्त करनेसे जाना जाता है । वही सबके हृदयमें वास करता है ।

(१९) क्षेत्र, ज्ञान, और उस क्षेत्र ब्रह्मका अबतक संक्षेपसे वर्णन हुआ । इसको जाननेसे मेरे भक्त मेरे भावको प्राप्त होते हैं ।

(२०) प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं । नाना प्रकारके विकार और गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं ।

(२१) शरीर और मन तथा इन्द्रियोंका मूल, प्रकृति कही गयी है, और सुख दुःखके अनुभव होनेका कारण पुरुष या जीवात्मा बतलाया जाता है।

इस श्लोकमें जड़ प्रकृतिको, कार्य करनेवाली शक्ति और आत्माको, भोक्ता बतलाया है । यह असंभव मालूम हो सकता है पर जिसप्रकार वायुके भोकेसे आग ऊपरको जल उठती है अथवा किसी प्राकृतिक कारणसे हवा सीधी न बहकर टेढ़ी बहने लगती है उसी प्रकार चेतन आत्माका साथ

(१) शरीर, सृष्टि अथवा माया ।

(२) आत्मा ।

होनेसे प्रकृतिमें कार्यशक्ति आ जाती है। और आत्मा जो भोक्ता बतलाया गया इसका कारण भी प्रकृतिकी साहबत है। खुलासा यों है;।

(२२) प्रकृतिमें रहता हुआ पुरुष प्रकृतिके गुणोंको अनुभव करता है। पुण्य अथवा पाप योनियोंमें जो जन्म होता है उसका कारण प्रकृतिके इन्हीं गुणोंमें फंसना है।

(२३) इस देहमें रहनेवाले इस पुरुषको साक्षी, पालक भोक्ता, महेश्वर और परमात्मातकका नाम दिया गया है।

(२४) जो मनुष्य इस पुरुषको, प्रकृतिको और उसके गुणोंको जान लेता है वह चाहे किसी हालतमें हो जन्म मृत्युसे छूट जाता है।

(२५) कोई ध्यान करके अपनेमें ही पुरुषको देख लेते हैं; कोई सांख्य द्वारा, कोई योग द्वारा और कोई कर्मयोग द्वारा आत्माको जान लेते हैं।

(२६) और जो लोग सांख्य, योग, अथवा कर्मयोगके रहस्यको नहीं समझते वे दूसरोंसे सुनकर उपासना करते हैं। वे भी भक्त होनेके कारण मृत्युको पार करते हैं।

(२७) हे भरतकुलके गौरव ! जो जो स्थावर जंगम पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे आत्मा और प्रकृतिके संयोगसे ही होते हैं।

(२८) जो पुरुष उस अविनाशी परमेश्वरको इन सब विनाशी भूतोंमें एकसा रहता हुआ देखता है वही देखता है— उसीकी आंखें खुली हैं।

(२९) जो पुरुष परमेश्वरके न्यायको देखकर ऐसा आचरण नहीं करता जिससे उसकी हानि हो वह पुरुष सबसे ऊँचे पदपर पहुँचता है ।

(३०) जो पुरुष समझता है कि सब काम प्रकृति द्वारा ही होते हैं—आत्मा कुछ नहीं करता, वही समझदार है ।

(३१) जब कोई व्यक्ति पृथिवी आदि भिन्न भिन्न भूतोंको एक ब्रह्ममें ही एक साथ स्थित देखता है और जानता है कि उसी ब्रह्मसे ब्रह्मांडका विस्तार है तब वह ब्रह्मको पा लेता है ।

(३२) यह अव्यय आत्मा अनादि और निर्गुण है । इसलिये शरीरमें रहता हुआ भी कुछ न करता है और न कुछ भोगता है ।

(३३) आकाश जैसे सूक्ष्म है वैसे ही आत्मा भी सूक्ष्म है । और जिस प्रकार आकाशमें कलंक नहीं लगता उसी प्रकार सारे शरीरमें फैलकर भी आत्मा अकलंकित रहता है ।

(३४) जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे संसारको प्रकाशित करता है उसी प्रकार इस सारी प्रकृतिको परमात्मा प्रकाशित करता है ।

(३५) आत्मा और प्रकृतिके इस भेदको तथा प्रकृतिसे प्राणियोंके छूटनेका उपाय जो लोग ज्ञाननेत्रोंसे देख लेते हैं वे परमात्माके समीप जाते हैं ।

परमात्माके समीप जानेके उपाय—सांख्य, योग, कर्म-योग, तथा अनन्य भक्ति—इस अध्यायमें बताये गये हैं ।

परन्तु इन चारों प्रकारके उपासकोंके लिये कुछ सामान्य उपदेश भी ७ वें श्लोकसे ११ वें श्लोकतक दिये गये हैं जो बड़े महत्वके हैं—जिनके आचरणसे मनुष्य निसके अपने व्यवसायमें बड़ी सुगमतासे सिद्धि लाभ कर सकता है; अपने समाजको बहुतसा लाभ पहुंचा सकता है; और परमात्माके मन्दिरका मार्गक्रमण कर सकता है। हम लोगोंको इस समय साम्यकी बड़ी आवश्यकता है। इस अध्यायमें बारबार समताका उपदेश इसीलिये है कि लोग इसमें सबको समान मानना सीखें। यह तो इसका अध्यायका आचरणीय अंश हुआ।

अब मननीय अंशको देखिये। मनुष्य सदाचारी हो तब उसे विमल ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा क्या है? इस आत्मामें और परमात्मामें क्या भेद है? परमात्मा छोड़ इस संसारमें कुछ नहीं है इस वाक्यसे यह सिद्ध है कि जो जो चीज हम और आप किसी प्रकारसे अनुभव करते हैं वह परमात्मा ही है। इसलिये एक एक मनुष्य भी परमात्मा है। परन्तु परमात्माकी योगशक्तिसे उत्पन्न हुई प्रकृति एक ऐसी वस्तु है जो परमात्माको छिपाती है। पर यदि प्रकृति न हो तो परमात्माके दर्शन भी नहीं हो सकते। क्योंकि जैसा यह आकाश है—कोई रूप नहीं कोई आकार नहीं—मानो कुछ नहीं और सब कुछ है क्योंकि इसीके अन्दर सब कुछ है—वैसा ही परमात्मा है। ऐसा ही आत्मा है। भूमंडलके सारे पदार्थोंमें आत्मा है। आत्मा और प्रकृतिके संयोगके बिना कुछ उत्पन्न ही नहीं हो सकता। इसलिये कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें आत्मा न हो। परन्तु प्रत्येक पदार्थका आत्मा

भिन्न भिन्न नहीं है । उन आत्माओंके समूहका नाम परमात्मा है । वही परमात्मा हमारे आपके शरीरमें और वही परमात्मा घाम, पेड़, फल, फूलमें है । यहांतक दृष्टि चौड़ी होनेके लिये समय, तपस्या और ज्ञान चाहिये । सबसे आवश्यक बात आचरण है क्योंकि आचरणमें ही बुद्धि साफ होती है । और बुद्धि साफ होनेमें ही ज्ञान प्राप्त होता है ।

तेरहवां अध्याय समाप्त ।

चौदहवां अध्याय ।

गत अध्यायमें श्रीकृष्ण भगवानने परमात्मा, आत्मा और प्रकृतिका भेद बतलाया और कहा कि अच्छी और बुरी योनियोंमें जीवात्मा जो जन्म लेता है उसका कारण गुण है । वह गुण है क्या ? गुण कितने प्रकारके हैं ? मनुष्यके जीवनपर उनका क्या असर पड़ता है ? उनके बुरे परिणामोंमें बचनेका क्या उपाय है ? इत्यादि प्रश्नोंका खुलामा इस अध्यायमें होगा और इसलिये इस अध्यायका नाम 'गुणत्रय विभागयोग' है ।

श्रीकृष्ण कहते हैं:—

(१) हे अर्जुन ! जो ज्ञान सब ज्ञानोंमें श्रेष्ठ है और जिसको जानकर सब मुनि लोग इस देहबन्धनको तोड़कर मोक्ष पा लेते हैं वह ज्ञान मैं तुझे फिर बतलाता हूं ।

(२) जो लोग इस ज्ञानको प्राप्त कर मेरे स्वभावको ग्रहण

कर लेते हैं वे मुनी लोग सृष्टि-रचना पुनः आरंभ होती है तब भी जन्म नहीं लेते और न प्रलय होनेपर दुखी होते हैं ।

(३) प्रकृति मेरे अधीन है, उसीमें मैं गर्भ धारण करता हूँ—बीज बोता हूँ । उसी बीजसे सारे प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है ।

(४) सब योनियोंमें जो जो शरीर उत्पन्न होते हैं उनका मूल गर्भ प्रकृति है और गर्भ देनेवाला मैं हूँ ।

(५) प्रकृतिसे सत्व, रज, तम ये तीन गुण उत्पन्न हुए हैं । ये ही गुण जीवको शरीरमें बांध रखते हैं ।

मनुष्यके अन्दर जो भिन्नभिन्न रुचि और भाव होते हैं उनके कारण ये ही तीन गुण हैं । सत्वगुण प्रकृतिका वह गुण है जो ज्ञानका प्रकाश फैलाता है । मनुष्य जो कुछ सच्चाई और नेकी करता है उसका कारण वही सत्वगुण है । रजोगुण वह गुण है जिससे मनुष्यके अन्दर मौज उड़ानेकी इच्छा होती है और तमोगुण वह है जिससे मनुष्य अंधकारमें पड़ा रहता है । आलसी, दुराचारी और अज्ञानी मनुष्य तमोगुणी हैं ।

प्रकृतिके ये तीन गुण जीवको शरीरसे बांधनेवाली तीन रस्सियां हैं । सत्वगुण ज्ञानका प्रकाश फैलाता हुआ भी ज्ञानकी लालचसे जीवको शरीरसे बांध देता है ।

(६) उक्त तीनों गुणोंमें सत्वगुण अच्छा है; निर्मल है और ज्ञानको फैलानेवाला है; उसमें दुःख नहीं है; सुखके संग और ज्ञानकी लालचसे वह जीवको शरीरसे बांध देता है ।

(७) हे कुन्तिपुत्र ! रजोगुण रागसे भरा हुआ है ।

नाना प्रकारके विषयोंकी इच्छा और उनका प्रेम इसी गुणसे उत्पन्न होता है । जीवको यह काममें प्रवृत्त करता है । इसलिये यह जीवको कर्मके बंधनसे बांधनेवाला गुण है ।

(८) तमोगुण अज्ञानसे उत्पन्न होता है और जीवोंको अंधकारमें ढकेल देता है और उन्हें खुराफात, आलस्य, नींद आदि बुरे कामोंके बंधनोंमें फंसाता है ।

(९) सत्वगुण सुखमें, रजोगुण काममें, और तमोगुण निद्रा, आलस्य, और प्रमादमें जीवको लगा देता है ।

ये तीनों गुण सब मनुष्योंमें समान अथवा एक मनुष्यमें बराबर नहीं होते । हरएक जीवमें तीनों गुण होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु किसीमें कोई गुण अधिक होता है और किसीमें वही गुण कम होता है । किसीमें सत्वगुण अधिक होता है और रज, तम, कम होते हैं । इसीलिये भिन्न भिन्न रुचि और विचारके लोग होते हैं ।

(१०) कभी रज और तमको दबाकर सत्वगुण प्रधान होता है ; कभी रज और सत्वको दबाकर तमोगुण प्रधान होता है और कभी सत्व और तमको दबाकर रजोगुण प्रधान होता है ।

जिसमें जो गुण प्रधान होता है वह उसी गुणवाला समझा जाता है; उसके कार्य भी उसी गुणके अनुकूल हुआ करते हैं । कार्योंसे पहिचाना जाता है कि कौन मनुष्य सात्विक, कौन राजसी और कौन तामसी है । इसलिये अब उनके लक्षण बतलाते हैं ।

(११) इन्द्रियोंके सब द्वारोंसे इस देहमें जब ज्ञानरविके किरण चमकने लगते हैं तब समझना चाहिये कि इस देहमें सत्वगुणकी मात्रा अधिक है ।

(१२) जब रजकी प्रधानता होती है तब लोभ, कार्य विशेषकी ओर प्रवृत्ति, चेष्टा, बेचनी और नाना प्रकारकी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं ।

(१३) तमके बढ़नेसे अधकार, आलस्य, लापरवाही और मोह उत्पन्न होता है ।

ये तीनों गुणोंके लक्षण हुए । अब यह बतलाते हैं कि देह त्याग करनेपर किम गुणवाला जीव किस योनिको प्राप्त करता है ।

(१४) सत्वगुणकी अधिकता होनेसे मनुष्य, देह छोड़नेपर ज्ञानी लोगोंके निर्मल जन्मोंको पाता है ।

(१५) रजकी अधिकता हो तो देहावसानपर मनुष्य इच्छासे कर्म करनेवाले साधारण मनुष्योंमें जन्म लेते हैं । और जहां तमकी अधिकता है वहां अज्ञान योनीमें जन्म मिलता है ।

(१६) यह कहा गया है कि पुण्यकर्मका फल सात्विक और निर्मल होता है; रजवाले कर्मका फल दुःख और तमवाले कर्मका फल अज्ञान है ।

(१७) सत्वसे ज्ञान प्राप्त होता है; रजसे लोभ उत्पन्न होता है; और तमसे लापरवाही, मोह और अज्ञान फैलता है ।

(१८) सत्वगुणवाले लोग उच्च पदको पाते हैं; राजसी लोग मध्यम स्थितिमें रहते हैं; और तामसी लोग नीच और पापवृत्तिमें रहकर नीचे ही नीचे जाते हैं ।

सात्विकोंको ऋषि मुनियोंकी उच्च दशा प्राप्त होती है; राजसी लोग राज्यादि विनाशी पदार्थ पाते हैं और कर्मबंधनोंमें फंसकर दुःखी होत हैं; और तामसी लोगोंकी हर तरहसे दुर्गति होती है।

(१९) जब जीव यह जान लेता है कि सब कार्य करनेवाले और भोगनेवाले ये ही गुण हैं और कोई नहीं; और जब इन गुणोंके परे उस परमात्माको जीव देख लेता है तब वह ईश्वरके भावको समझ लेता है।

(२०) शरीरसे उत्पन्न होनेवाले इन तीन गुणोंको लांघकर जीव जन्म, मृत्यु, जरा आदि दुःखोंसे मुक्त होकर अमर हो जाता है।

अर्जुनने पूछा:—

(२१) हे नाथ ! ज्ञानी लोग किन बातोंसे इन तीन गुणोंको जीत लेते हैं ? इनके लिये क्या काम करना चाहिये ? कृपा कर बतलाओ कि किस प्रकार इन तीन गुणोंको जीतना होता है।

श्रीकृष्ण कहते हैं:—

(२२-२५) प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह अर्थात् सत्व, रज, और तमके कार्य प्रकट होनपर जो न उनसे घृणा करता और न उनके बन्द पड़नेपर उनकी इच्छा रखता है—इस प्रकार गुणोंके कारण जो अपने स्थानसे चलबिचल नहीं होता और यह सोचता है कि गुण अपना काम कर रहे हैं—मुझसे कोई वास्ता नहीं—जो मुख और दुःख एकसा समझता हुआ अपने

आपमें मगन रहता है—जिसके लिये पत्थर, लकड़ी और सोना सब बराबर है—जो न प्यार करता है न घृणा करता है—जो धैर्यवान् है—अपनी स्तुति और निंदाको एकसी समझता है—मान-अपमान और मित्र-शत्रुको जो एक ही आंखसे देखता है—जिसने सब इच्छाओंको त्याग दिया है—उसीको गुणातीत अथवा गुणोंको जीत लेनेवाला कहते हैं ।

(२६) और जो अनन्य भक्तिसे मेरी सेवा करता है वह गुणोंको पारकर ब्रह्म होनेमें समर्थ होता है ।

(२७) मैं ही ब्रह्मका स्थान हूं । वह ब्रह्म अमृत, अव्यय, चिरजीवी, धर्म, सुख और शान्ति है ।

तीनों गुणोंका विशद वर्णन हो चुका । हरेक गुणसे क्या क्या लाभ हैं वह भी बतला दिया गया । श्रीकृष्णका उपदेश है कि सत्वगुणी हो अनन्य भक्तिसे किसी भी रूपमें परमात्माकी सेवा करो । सत्वगुणकी वृद्धि करनेके लिये सदाचार ही एक उपाय है । श्रीमत् भागवत स्कंध १.१ अध्याय १८ श्लोक २१ में श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं कि दैवी प्रकृतिवाला जो सत्वगुण है उसकी वृद्धि सदाचार, सन्मित्रता और प्राणिमात्रसे सहानुभूति रखनेसे होती है । इसलिये पहिले अपने घरपर; फिर अपने छोटे समाजमें, फिर सारे देशमें और इस प्रकार बढ़ते कदम सदाचारी जीवन व्यतीत करनेसे मनुष्य परमात्माका पूर्ण भक्त बन सकता है ।

चौदहवां अध्याय समाप्त ।

पंद्रहवां अध्याय ।

“क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग”में प्रकृति और पुरुषका भेद बतलाया गया और “गुणत्रयविभागयोग” में प्रकृतिक गुणोंसे कैसे स्वतंत्र रहना चाहिये इसका वर्णन हुआ । अब इस “पुरुषोत्तमयोग” नामक अध्यायमें परमात्मा और जीवका योग करनेके लिये संसाररूपी वृक्षको असंगरूपी शस्त्रसे छेदनका उपदेश दिया गया है ।

(१) श्रीकृष्ण कहते हैं: यह संसार एक अश्वत्थ * वृक्षके समान है । इसकी जड़ ऊपरकी और शाखाएं नीचेकी तरफ हैं । इसके पत्ते वेद हैं । यह अविनाशी वृक्ष है । इस जो जानता है वह वेदज्ञ है ।

श्रीकृष्ण भगवानने संसारको अश्वत्थकी उपमा दी है और उसकी जड़को ऊपरकी तरफ बतलाया है । ऊपरसे ब्रह्म और मायाका मतलब है । कहना यह है कि उस वृक्षपर ब्रह्म और माया दोनों हैं जिस प्रकार मनुष्य और उसकी छाया एक साथ रहते हैं । माया ईश्वरकी छाया है । नीचेसे जीवका मतलब है और शाखाओंसे उन जीवोंके शरीरोंका मतलब है । इस प्रकार उस वृक्षके ही सब अंश हैं । ऊपर ईश्वर और महद्ब्रह्म, नीचे जीव और प्रकृति । ऊपरका अंश सदा रहनेवाला और नीचेका अंश बदलनेवाला है ।

(२) इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं । सत्व, रज, तम इन गुणोंसे शाखाएं पुष्ट हैं । इन शाखाओंपर

शब्द, स्पर्श, रस आदिके पत्ते लगे हैं । और मनुष्यलोकके वासनारूप कर्म इस वृक्षकी नीचेकी जड़ है जो इधर उधर फैल रही है ।

(३-४) इहलोकमें उस संसाररूपी वृक्षका रूप किसीको नहीं दिखायी देता । न इसके शुरूका पता लगता है और न अखीरका । इसके रहनेकी जड़ भी दृढ़ नहीं मिलती तोभी वैराग्यरूप मजबूत शस्त्रसे इस पेड़की जड़को * काटकर उस स्थानको दृढ़ना चाहिये जहांसे लौटकर नहीं आना पड़ता और यह विचार रखना चाहिये कि मेरा सहारा वही मूलपुरुष है जिससे यह सृष्टि-रचना फैली हुई है—उसीके पास मुझे जाना है ।

(५) जिन्होंने मान और मोहसे निवृत्ति पा ली है; जिन्होंने कर्मसंगके दोषोंको जीत लिया है ; जो अध्यात्म विषयमें तत्पर हैं ; सुख-दुःखका जिनपर कोई असर नहीं पड़ता वे मोहहीन पुरुष उस निर्विकार ब्रह्मपदको प्राप्त करते हैं ।

वह ब्रह्मपद कैसा है ?

(६) सूर्य, अथवा चंद्रमा, या अग्निमें इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वहां भी प्रकाश फैला सके । वह स्थान ऐसा है कि जाकर वहांसे कोई लौट नहीं आता ।

(७) इस संसारमें ये जो सनातन जीव हैं वे परमा-

* फलकी इच्छा ।

१ छुटकारा ।

त्माके ही अंश हैं । यह जीव इन्द्रियोंको और मनको अपने साथ लिये रहता है ।

(८) जब यह जीव शरीर धारण करता है और जब छोड़ देता है तब वायु जिस प्रकार पुष्पोंके गन्धको लेकर चली जाती है, उसी प्रकार यह जीव अपनी इन्द्रियोंको लेकर जाता है ।

(९) कान, आंख, चमड़ा, जीभ, नासिका और मनके सहारे जीव विषयोंको भोगता है ।

(१०) मूर्ख लोग नहीं जानते कि जीव एक शरीरको छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करता है अथवा प्रकृतिके सत्व, रज और तम इन तीन गुणोंमें मिलकर रहता हुआ सुख-दुःख अनुभव करता है । पर ज्ञानी लोग इसे समझते हैं ।

(११) यत्नवान् योगी लोग इस जीवात्माको अपने आपमें देखते हैं । पर मलीन अन्तःकरणवाले मूर्ख लोग हजार कोशिश करनेपर भी इसे नहीं समझ सकते ।

(१२) जिस तेजसे सूर्य तेजःपुंज है; जिस तेजसे सारा जगत् प्रकाशमान है; जो तेज चंद्रमा और अग्निमें है; वह तेज मेरा ही जान ।

(१३) मैं ही पृथिवीमें प्रवेश कर अपने बलसे सब प्राणियोंको धारण करता हूँ और शीतल चंद्रमा होकर मैं ही सब वनस्पतियोंको पुष्ट करता हूँ ।

१ भीतरी इन्द्रियोंको अर्थात् जिनसे विषय ग्रहण किये जाते हैं-बाहरी स्थूल रूप नहीं ।

(१४) मैं ही जठराग्नि होकर सब प्राणियोंके शरीरमें रहता हूँ; और मैं ही प्राण तथा अपान वायुके साथ मिलकर चार प्रकारके अन्नको हजम करता हूँ ।

(१५) मैं सबके हृदयमें वास करता हूँ; स्मृति और ज्ञान होना तथा न होना भी मेरे ही कारण है; मैं ही वेदों द्वारा जाननेकी वस्तु हूँ; और मैं ही वेदोंका जाननेवाला और प्रकाश करने वाला हूँ ।

(१६) संसारमें दो ही पुरुष हैं । एक नाश होनेवाला और दूसरा अविनाशी है । सब भूत क्षर हैं—अर्थात् नाशवान हैं, और कूटस्थ, अचल अविनाशी है ।

इस कथनसे यही तात्पर्य है कि प्रकृति नाश होनेवाली और जीवात्मा अविनाशी है ।

(१७) इस प्रकृति और पुरुषको छोड़ एक तीसरा पुरुष है जो पुरुषोत्तम है । उसे परमात्मा कहते हैं:—वह अवि-

१ जठराग्नि उस अग्निका नाम है जो सब प्राणियोंके पेटमें रहता और भोजन परिपक्व करता है; जठराग्नि न हो तो किसीको भूख न लगे और खाया हुआ भी हजम न हो ।

२ चार प्रकारका अन्न यह है:—भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य । जो दाँतोसे चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य, जो बिना दाँत खाया जाय वह भोज्य, जो जीभसे चाटा जाता है वह लेह्य, और ऊँखकी तरह जिसका रस चूसा जाता है वह चोष्य कहाता है ।

नाशी ईश्वर है—वही तीनों लोकमें प्रवेश कर संपूर्ण संसारको धारण किये हुए है ।

(१८) जिस कारण मैं विनाशी प्रकृतिके परं हूं और अविनाशी जीवात्मासे ऊंचेपर हूं मुझे लोग और वेद 'पुरुषोत्तम' कहते हैं ।

(१९) जो पुरुष मोहमे छूटकर मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सब प्रकारमे मेरी भक्ति करता है ।

(२०) हे निष्पाप अर्जुन ! शास्त्रके इस गूढ़ रहस्यको, जो मैंने तुझसे कहा है, जानकर पुरुष बुद्धिमान् होता है और उमका जीवन सफल होता है ।

पंद्रहवां अध्याय समाप्त ।

सोलहवां अध्याय ।

परमात्मा और जीवात्माके बीचमें प्रकृतिका परदा लटका हुआ है । जीवात्मा प्रकृतिका ज्ञान प्राप्त करके उसे हटा सकता है और फिर परमात्माके दर्शन कर सकता है । इसलिये श्रीकृष्ण भगवानने इससे पहिले प्रकृतिके तीनों गुणोंका वर्णन कर बतलाया कि सत्वगुण ज्ञानका प्रकाश करनेवाला है । प्रत्येक मनुष्यको अपने और दो गुणोंको दबा कर इस सत्वगुणको प्रधान करना चाहिये । इससे पहिले सत्वगुणके कुछ थोड़ेसे लक्षण आ गये हैं—अब विशेष रूपसे

उसकी विवेचना होगी । सत्वगुणवाले मनुष्यकी प्रकृतिको दैवी प्रकृति कहते हैं । इसी दैवी प्रकृतिके लक्षण इस अध्यायमें बतलाये जायेंगे और साथ साथ तामसी लक्षण भी दिखा दिये जायेंगे ताकि लोग उन आसुरी बातोंसे बचें । इस अध्यायका यही विषय है और इसलिये इसका नाम “ दैवासुरसंपाद्विभाग योग ” है ।

जो पुरुष सत्वगुणी होते हैं अथवा जिनकी दैवी प्रकृति है या यों कहिये कि जिनके दैवी संपत्ति है उनके लक्षण श्रीकृष्ण भगवान इस प्रकार बतलाते हैं :

(१-३) अभय (किसीसे न डरना), चित्तकी शुद्धि, सत्यासत्यका विचार, दान, इंद्रियोंका दमन, यज्ञ (निष्काम भावसे लोकोपकार करना), वेदोंका अध्ययन, तप, सीधापन (किसीसे छल कपट न करना), अहिंसा (किसी जीवको कष्ट न देना), सत्य (सच बोलना और सच ही बर्तना), अक्रोध (क्रोध न करना), त्याग (उदारता रखना), शान्ति, चुगली न खाना, सब प्राणियोंपर दया करना, विषयोंमें न फँसना, कोमल स्वभाव, बुरे कर्म करनेपर लाज्जित होना, व्यर्थ ही हाथ पैर न हिलाना, अपने गुणगौरवसे तेजस्वी रहना, यथावश्यक क्षमा करना, आपत्ति आ पड़नेपर हिम्मत न हारना, शरीर, मन और वचनसे पवित्र रहना, किसीसे द्वेष न करना, अभिमान न करना ये सात्विक वासनावाले पुरुषके लक्षण होते हैं ।

(४) दंभ अर्थात् अपने अवगुणोंको छिपाकर अपना महात्मापन प्रकट करना, दर्प अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषोंका अपमान

करनेके लिये गर्व करना, अभिमान अर्थात् घंमड, पारुष्य अर्थात् किसीका दिल दुखानेके लिये कटु वचन कहना और अज्ञान अर्थात् उलटी बुद्धि रखना ये तामसी वासनावाले मनुष्योंके दोष होते हैं ।

(५) दैवी संपत्तिसे मोक्ष होता है और आसुरीसे बंधन होता है । हे अर्जुन ! तू शोक मत कर । क्योंकि तूने तो दैवी संपत्तिका आश्रयकर जन्म पाया है ।

(६) इस लोकमें दो प्रकारके मनुष्योंकी सृष्टि है: देव और राक्षस । देवोंके संबन्धमें बहुत कुछ कह चुके हैं; अब राक्षसोंका हाल सुन ।

(७) राक्षसी स्वभाववाले लोग न यह जानते हैं कि किस प्रकार सुखसे सांसारिक जीवन निर्वाह करना होता है, न यह समझते हैं कि सन्यास क्या चीज होती है । वे न स्वच्छताको समझते हैं, न सदाचार ही जानते हैं । उनमें मत्यता होती ही नहीं ।

(८) वे संसारको मिथ्या मानते हैं और अप्रतिष्ठ समझते हैं अर्थात् धर्मकी व्यवस्था नहीं मानते । वे कहते हैं कि संसारका कोई ईश्वर वीश्वर नहीं है । ईश्वर और संसारसे कोई ताल्लुक नहीं है । प्राणी उत्पन्न होते हैं तो स्त्रीपुरुषोंसे और कोई कारण नहीं ।

(९) ऐसे विचारवाले लोग पापी होते हैं । उनमें सच समझनेकी बुद्धि नहीं होती । वे बेरहमीके ही काम करते हैं । ऐसे अपकारी लोग संसारका नाश करनेके लिये ही पैदा होते हैं ।

(१०) वे लोग ऐसी इच्छाएं रखते हैं जो जल्द पूरी न हों; और दंभ, मान और मस्तीसे उन्मत्त हो उठते हैं । तुच्छ वस्तुओंको भ्रमसे पूज्य मानकर वे कार्य करते हैं अर्थात् छल, कपट और झूठके सहारेसे अपना काम निकालनेकी चेष्टा करते हैं । उनके कार्य बड़े ही अपवित्र होते हैं ।

(११) वे जवतक जीते हैं चिन्ता ही किया करते हैं । उनका बड़ा भारी उद्देश्य काम-भोग करना होता है । इसी सुखको वे सुख समझते हैं ।

(१२) वे तरह तरहकी आशाओंमें फंसे रहते हैं । कभी काम और क्रोधसे लुट्टी नहीं पाते और कुवामना पूरी करनेके लिये वे अन्यायसे धन इकट्ठा करना चाहते हैं ।

उनके विचार वस ऐसे ही हुआ करते हैं:—

(१३) आज यह काम तो बन गया; अब वह भी बन जायगा । इसमें इतना धन मेरे पास हो गया: इतना और मिल जायगा ।

धनके विषयमें ऐसी चिन्ता करते हैं । और अब उनके क्रोध और अभिमानका भी नमूना देख लीजिये ।

(१४) आज इसे तो मार लिया है—अब औरोंको भी मजा चखाऊंगा । वस फिर क्या है ? मैं ही मैं हूँ । मैं चाहे जो कर सकता हूँ । मेरे ऐसा भी कोई सुखी और बली है ?

(१५) मेरे पास धन है और लोग भी हैं । मेरी बराबरी करनेवाला है ही कौन ? अब मैं यज्ञ करूंगा—दान दूंगा और मौजसे दिन काटूंगा । ये उन लोगोंके विचार हैं जिनकी बुद्धि

अज्ञानसे मारी गयी है ।

(१६) जिनके चित्तमें तरह तरहकी भ्रमकी लहरें उठा करती हैं और जो अज्ञानरूप जालमें और भोगोंमें सदा फंसे रहते हैं वे बड़े ही घोर नरकमें जा गिरते हैं ।

और तो क्या; उनका शरीर ही उनके लिये नरक बन जाता है ।

(१७) ये लोग अपनी ही प्रशंसामें मगन रहते हैं; बड़ोंकी इज्जत नहीं करते; धन, मान और गर्वसे फूले रहते हैं और अपनी धार्मिकता दिखानेके लिये एकाध यज्ञ कर डालते हैं अर्थात् वह यज्ञ विधिसंगत नहीं हो सकता ।

(१८) अहंकार, बल दर्प, काम और क्रोधकी मात्रा यहांतक बढ़ जाती है कि ये निन्दक लोग अपनी और दूसरेकी देहमें जो एक परमात्मा है उसको भूलते हैं—उसका द्वेष करते हैं ।

(१९) उन क्रूर स्वभाववाले द्वेषी और नीच लोगोंको मैं सदा ही संसारकी आसुरी योनियों ही जन्म देता हूं ।

(२०) हे कुन्तिपुत्र ! आसुरी योनियोंमें जन्म पाकर ये मूढ़ असुर लोग बार बार जन्म लेते हैं पर मुझे न प्राप्त कर नीचमे और भी नीच गति को प्राप्त होत हैं ।

(२१) हे अर्जुन ! काम (इन्द्रियों द्वारा विषय-भोगकी इच्छा), क्रोध (ज़रा ज़रासी बातपर आग बबूला हो उठना) और लोभ, ये नकरके तीन दरवाजे हैं इसलिये इन तीनोंको दूरसे नमस्कार करना चाहिये ।

(२२) नरकके इन तीन दरवाजोंसे जो मनुष्य बचता है वह अपनी भलाई करता हुआ मुक्ति लाभ करता है ।

(२३) जो शास्त्रकी मर्यादाको तोड़कर अथवा वेदकी आज्ञाको तुच्छ समझकर मनमानी घरजानी करता है उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता—उसे सुख नहीं मिलता—मोक्ष तो दूर रहा ।

(२४) इसलिये कार्य अथवा अकार्य समझनेके लिये शास्त्रको देखना चाहिये; शास्त्र जैसा कहे वैसा करना ही उचित है ।

मालहवां अध्याय समाप्त ।

सत्रहवां अध्याय ।

इस अध्यायमें श्रद्धाका वर्णन है। भोजन, यज्ञ, तप और दानका भी इसमें वर्णन है । और इसके सिवाय ॐ तत् सत्की महिमा भी गायी गयी है । पिछले अध्यायमें श्रीकृष्णने कहा था कि जो लोग शास्त्रकी मर्यादाको तोड़कर मनमाना व्यवहार करते हैं वे लोग किसी कामके नहीं होते; इसलिये शास्त्रकी आज्ञाका पालन सर्वथा कर्तव्य है । परन्तु ऐसे भी बहुतसे लोग होते हैं जिनका धर्म “ मनःपूतं ममाचरेत् ” होता है । वे शास्त्र-ग्रन्थ नहीं देखते; पर वे जो पवित्र कार्य समझते हैं—यह समझना चाहे उनकी भूल हो—उसीको श्रद्धासे करते हैं । उस कुरुक्षेत्रके युद्धमें ही,

हो सकता है कि, कौरव, पांडवोंसे लड़ना अपना कर्तव्य समझते हों और श्रद्धासे लड़नेके लिये तैयार हुए हों; इसलिये यह कैसी श्रद्धा है और इसका क्या परिणाम है ? श्रीकृष्ण भगवान इस अध्यायमें इस विषयका खुलासा करेंगे; इसलिये इस अध्यायका नाम 'श्रद्धात्रयविभागयोग' है ।

अर्जुनने पूछा:-

(१) जो लोग शास्त्रविधिकी परवाह नहीं करते-पर जो कुछ करते हैं श्रद्धाके साथ करते हैं उनकी यह कैसी श्रद्धा है ? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी ?

श्रीकृष्ण कहते हैं:-

(२) मनुष्योंमें तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है; सात्विकी, राजसी और तामसी । और यह स्वाभाविक होती है । हर एकके विषयमें मैं अब कहता हूँ ।

(३) हे अर्जुन ! सब किसीकी श्रद्धा अपनी अपनी प्रकृतिके अनुकूल होती है । मनुष्यमें श्रद्धा होती है; पर जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह बनता है ।

(४) जिनमें सात्विकी श्रद्धा होती है वे देवताओंको पूजते हैं; राजसी श्रद्धावाले लोग यक्ष-राक्षसोंकी पूजा करते हैं; तामसी प्रकृतिवाले भूत-प्रेतों और तामसी योनियोंकी पूजा करते हैं ।

जो मनुष्य जैसा होता है वह वैसेकी ही पूजा करता है; और जैसेकी पूजा करता है वैसा ही बन जाता है ।

(२-६) जो लोग ऐसे कठोर तप करते हैं, जिनका वेदशास्त्रोंमें विधान नहीं है वे पाखंडी, अहंकारी, और गुलज्जर उड़ानेवाले लोग हैं। इनमें बुद्धि नहीं होती। ये लोग शरीरमें जो पंच महाभूत हैं उनको क्षीण करते हैं। और उनके शरीरमें जो परमात्मा है उसे भी कष्ट देते हैं। ऐसे लोगोंको असुर समझना चाहिये।

(७) इन तीन स्वभाववालोंके आहार, यज्ञ, दान और तप भी अलग अलग होते हैं। वे सब भी तीन तीन प्रकारके हैं। उनका भी हाल सुन।

(८) सात्विक लोग आयु, उत्साह, पराक्रम, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ानेवाला रसीला, चिकना और शरीर बलिष्ठ करनेवाला भोजन पसंद करते हैं।

(९) राजसी लोग तीता, खट्टा, खारा, गरमागरम, चटपटा, रूखा, पेटमें गरमी पैदा करनेवाला और इसी प्रकारका दुःख, शोक और रोग बढ़ानेवाला भोजन करना पसंद करते हैं।

(१०) तामसी लोगोंको टंडा, बासी, नीरस, सड़ाबूसा, बहुत देरका रखा हुआ, जूठा और अपवित्र भोजन प्यारा लगता है।

यज्ञ भी तीन प्रकारके होते हैं। उनका वर्णन सुनिये।

१. वृथा मौन रहना, कांटोंपर सोना, कीलोंपर बैठना, पेड़ोंमें लटकना, चारों ओर आग सुलगाकर बीचमें बैठना इत्यादि इसी मेलके तप हैं। ऐसे तप करनेवालोंसे बचना चाहिये।

(११) वह यज्ञ जो शास्त्रोंके अनुकूल हो और अवश्य कर्तव्य समझकर किसी फलकी इच्छासे नहीं बल्कि कर्तव्यके लिये ही किया जाता हो वह सात्विक यज्ञ है ।

उसी प्रकार कोई कार्य जो कर्तव्य समझकर किया जाता है वह सात्विक कार्य है ।

(१२) जो यज्ञ फलकी इच्छासे अथवा लोगोंको अपनी बड़ाई दिखानेके लिये किया जाता है वह राजसी यज्ञ है ।

(१३) जो यज्ञ शास्त्रके विरुद्ध, बिना मंत्र उच्चारण किये, बिना अन्न अथवा बिना दक्षिणा दिये, अथवा बिना श्रद्धाके किया जाता है वह तामसी यज्ञ है ।

अब तपका वर्णन सुनिये ।

देवाद्भिर्जगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

(१४) देव, ब्राह्मण, गुरुजन, तथा बुद्धिमानोंका पूजन और पवित्रता, सीधापन, ब्रह्मचर्य, अहिंसाका आचरण शारीरिक (शरीरसे होनेवाला) तप कहाता है ।

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

(१५) ऐसा भाषण करना कि जिससे किसीका दिल न दुखे, सच्ची, प्यारी और हितकी बात कहना, और वेदोंका अध्ययन करना वाङ्मय (वाणीसे होनेवाला) तप कहाता है ।

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

(१६) मनको प्रसन्न रखना, सौम्य रहना, फजूल न बोलना, मनको काबूमें रखना और मनमें पवित्र भाव लाना मानस (मनसे होनावाला) तप कहाता है ।

(१७) जब ये तीन प्रकारके तप बड़ी श्रद्धाके साथ फलकी इच्छा छोड़कर किये जाते हैं तब उनको सात्विक तप कहते हैं ।

(१८) जो तप अपन सत्कार, मान, बड़ाईके लिये हांगसे किया जाता है उस चंचल तपको राजस तप कहते हैं ।

(१९) जो तप दृढ अथवा दुराग्रहसे, निजको कष्ट देकर अथवा दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है उसको तामस तप कहते हैं ।

दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतम् ॥२०॥

(२०) जो दान योग्य व्यक्तिको देश और काल देखकर, कर्तव्य समझकर, न कि उसका बदला पानेकी इच्छासे-दिया जाता है उसको सात्विक दान कहते हैं ।

इस सात्विक दानको समझानेकी इस समय बड़ी आवश्यकता है । जो लोग इस प्रकारका दान नहीं देते वे फजूल रुपया खर्च करते हैं । देश, काल और पात्र देखकर दान देना चाहिये । वर्तमान समयमें हमारे देशवासियोंको यदि किसी चीजकी बड़ी भारी जरूरत है तो ऐसी दो चीजें हैं; एक विद्या और दूसरा अन्न । इस देशमें दाता कहलानेवाले लोग भी हैं । परन्तु जबतक इन दो चीजोंकी कमी है तबतक

कौन कह सकता है कि दानी देश, काल और पात्र सोचकर दान देते हैं ? आतशबाजियोंमें रुपया उड़ जाता है; दावतोंमें और अयोग्य व्यक्तियोंको खिलाने पिलानेमें सब धन स्वाहा हो रहा है तब उन दीन दुखियोंकी कैसी दुर्दशा होती होगी जिन्हें न पेटभर खानेको अन्न मिलता है, न अपने रातदिनके परिश्रमसे पैदा किया हुआ अन्न कहाँ जाता है इसका पता ही लगता है । जिन लोगोंमें अब भी कुछ मनःष्यत्व रह गया है उनको श्रीकृष्ण भगवानकी दानकी व्याख्या देखकर अपने दानकी दिशा बदल देनी चाहिये ।

श्रीमत् शंकराचार्य कहते हैं:-“ देयं दानि जनाय च वित्तम् । ” यदि आपके पास धन है तो उसपर उन्हीं लोगोंका अधिकार है जो दीन हैं । भरतवर्षमें करोड़ों दीनोंकी संख्या रहते हुए भी अभीतक धनका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है !

दानोंमें सबसे बड़ा दान विद्यादान है । और भारतवर्षमें इसका बड़ा अभाव है । लोग मूर्ख हैं इसीलिये शरीर और आत्माका संवध कायम रखने लायक भी अन्न नहीं पाते । शिक्षाप्रचारकी बड़ी आवश्यकता है । इससमय सचमुच जो शिक्षाप्रचारका काम उठावेगा वह सच्चा सात्विक दानी होगा ।

(२१) जो दान किसी उपकारके बदलेमें, या किसी फलकी इच्छासे दिया जाता है ; अथवा जिस दानके देनेसे दुःख होता है वह दान राजस दान है ।

(२२) जो दान देश और कालका विचार न कर किसी नालायक आदमीको अनादर अथवा झिड़क करके दिया

जाय उसको तामस दान कहते हैं ।

अब ईश्वरके तीन नामोंका वर्णन होकर यह अध्याय समाप्त होगा ।

(२३) ॐ तत् सत् ये तीन ब्रह्मके नाम हैं । उसी ब्रह्मने पहले ब्राह्मण (ब्राह्मज्ञ), वेद और यज्ञ बनाए ।

(२४) इसलिये ब्रह्मवादी लोग ॐ इस शब्दका उच्चारण करके फिर शास्त्रोक्त यज्ञ, तप, दान आदि क्रियाएं करते हैं ।

अर्थात् कोई कार्य करनेके आरंभ में ॐ शब्दका उच्चारण कर परमात्माका स्मरण करना चाहिये ।

(२५) जो लोग मोक्ष छोड़ और किसी वस्तुकी कामना नहीं करते वे यज्ञ, दान, तपादि क्रियाओंको करते हुए, तत् शब्दका उच्चारण करते हैं ।

तत् का उच्चारण करनेसे यह मतलब है कि वे अपने मारे कर्म तत् अर्थात् उस ब्रह्मको अर्पण करते हैं ।

(२६) अच्छा भाव और सत्यता प्रकट करनेके लिये सत् शब्दका प्रयोग होता है । मंगलकार्योंमें भी इस ' सत् ' का उच्चारण होता है ।

(२७) यज्ञ, दान और तपके प्रति जो निष्ठा है उसे भी सत् कहते हैं और यज्ञ, दान, तपके लिये जो जो कर्म किये जाते हैं उनको भी सत् (सत्कर्म) ही कहते हैं ।

(२८) विना श्रद्धाके जो होम, दान अथवा तप किया है उसे असत् कहते हैं । ऐसा कर्म न इस लोकमें काम आता है न उस लोकमें ।

सत्रहवां अध्याय समाप्त ।

अठारहवां अध्याय ।

इस ' मोक्ष-सन्यास-योग ' नामक अध्यायमें श्रीकृष्ण भगवान पिछले सतरहों अध्यायोंका उपसंहार करेंगे। सन्यास और त्याग किसको कहते हैं ? कर्म छोड़ना आवश्यक है या नहीं ? त्यागके कितने प्रकार हैं ? त्यागी कौन है ? कर्मके कौन कौन परिणाम हैं ? कर्मका कारण क्या है ? ज्ञान और ज्ञानके लक्षण क्या हैं ? कर्मके कौन कौन भेद हैं ? बुद्धि क्या है और उसके कौन कौन भेद है ? धृति किसको कहते हैं ? उसके क्या लक्षण हैं ? इत्यादि बातोंका खुलासा कर भगवान श्रीकृष्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र इन चार वर्णोंका वर्णन करेंगे। फिर अपने वर्णाश्रम धर्ममें रहनेसे लाभ, दूसरेके धर्ममें हानि और मुक्तिका उपाय तथा भक्तिका फल प्रतिपादन करेंगे। इसके उपरान्त अर्जुनको युद्ध करनेका उपदेश देकर गीतापाठ करनेके पात्रापात्रका विचार कर अन्तमें गीतापाठ तथा श्रवणका फल कथन करेंगे।

सन्यासके विषयमें अर्जुनके मनमें अभी सन्देह है। इस लिये वह प्रश्न करता है।

(१) हे हृषीकेश ! हे विशाल भुजावाले कृष्ण ! हे केशिनिपूदन ! मैं सन्यास और त्यागको अलग अलग समझना चाहता हूँ ।

श्रीकृष्ण कहते हैं:

१ केशि नामक दैत्यको श्रीकृष्णने मारा था इसलिये उनका यह भी एक नाम पड़ा ।

(२) आत्मज्ञानी लोग काम्य कर्म (अश्वमेधादि यज्ञ) छोड़ देनेको सन्यास कहते हैं । बुद्धिमान् लोग सब कर्मोंके फलोंको त्याग देना ही त्याग समझते हैं ।

(३) कुछ ज्ञानी लोग कर्मोंको दोषपूर्ण समझते हुए छोड़ देना ही अच्छा समझते हैं । और कुछ लोग यज्ञ, दान, तप आदि कर्मोंको न छोड़ना ही उचित मानते हैं ।

(४) हे भरतकुलमें श्रेष्ठ अर्जुन ! उस त्यागके विषयमें मेरी राय सुन । त्याग तीन प्रकारका बतलाया गया है ।

त्यागके तीन प्रकार बतलानेसे पहिले श्रीकृष्ण भगवान् कर्म करना चाहिये अथवा नहीं इस विषयमें अपनी अटल मम्माति प्रकट करते हैं ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

(५) यज्ञ, दान, और तप इन कर्मोंको कदापि त्याग न करना चाहिये । ये कर्म करने ही योग्य हैं, क्योंकि इनसे मनुष्य पवित्र होते हैं ।

(६) ये कर्म भी संग और फलको छोड़कर करना उचित है । यह मेरा निश्चित और उत्तम मत है ।

२ काम्य कर्म उसे कहते हैं जिसमें किसी फलविशेषकी इच्छा हो ।

३ सन्यासका यहां सन्यास आश्रमसे मतलब नहीं है । छठे अध्यायके १ ले श्लोकमें सन्यासीकी यह व्याख्या है:-“अनाश्रितः कर्मफले कार्यकर्म करोतियः स सन्यासी” । उसी सन्यासके सन्याससे यहां मतलब है ।

(७) नियत कर्मोंका त्याग ठीक नहीं है । यदि कोई ऐसा करे तो वह भूलता है । इस त्यागको तामस त्याग कहते हैं ।

(८) जब शरीरको कष्ट होते हैं और इन कष्टोंसे बचने-के लिये कर्मोंका त्याग किया जाता है तो वह राजस त्याग है । उससे त्यागका जो फल है वह नहीं मिलता ।

(९) संग और फलको छोड़ कर्तव्यके खयालसे जब कर्म किया जाता है तो वह संग और फलका त्याग ही सात्विक त्याग है ।

कर्तव्य कैसा ही हो—चाहे उसके करनेमें जानका खतरा हो चाहे आनन्द आता हो—उस आनन्द और क्लेशकी परवा न कर उसे करना चाहिये । यही निःसंग होना है ।

(१०) अकुशल कर्म हो तो क्या और कुशल हो तो क्या उसमें फंसना न चाहिये । अकुशलसे न दुःखी होना चाहिये न कुशलसे सुखी । आत्माका ज्ञान रखनेवाले त्यागी पुरुष इसी दृष्टिसे कर्म करते हैं और उनका संशय दूर हो जाता है ।

(११) देह धारण करनेवाले जीवके लिये यह कदापि संभव नहीं है कि वह काम करना छोड़ दे; पर जो पुरुष काम करता हुआ उसके फलाफलको छोड़ देता है वही सच्चा त्यागी है ।

(१२) कर्मोंके फल तीन प्रकारके होते हैं:—अनिष्ट, इष्ट और मिश्र । जो लोग फलकी इच्छा नहीं छोड़ते उन्हें इन फलोंको इस जन्मके बाद भोगना पड़ता है; परन्तु

त्यागीके लिये कोई भोग नहीं है ।

(१३-१४) हे अर्जुन ! अब सब कर्मोंकी सिद्धिके लिये आवश्यक उन पांच कारणोंको सुन जिनका उल्लेख सांख्य और वेदान्तमें हो चुका है । वे पांच कारण ये हैं : अधिष्ठान (शरीर), कर्ता (जीव), करण (इन्द्रियां); नाना प्रकारकी चेष्टाएं (प्राण, अपान आदि वायुओंकी) और दैव ।

(१५) मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मनसे जो कोई कार्य करे वह कार्य अच्छा हो या बुरा, उसके ये ही पांच कारण हैं ।

(१६) ऐसा होनेपर भी (कुछन करनेवाले) आत्माको ही जो मनुष्य सब कुछ करनेवाला समझता है वह बुद्धिहीन और दुर्मति होनेके कारण कुछ नहीं समझता ।

(१७) जिसमें अहंकार भाव नहीं है अर्थात् जो यह नहीं समझता कि मैं यह कर्म कर रहा हूं और जो काम करता हुआ किसी बातकी इच्छा नहीं रखता वह इन लोगोंको मारकर भी नहीं मारता और न इसके लिये वह जबाबदेह है ।

(१८) ज्ञान, ज्ञानका विषय और ज्ञानी इन तीन बातोंसे ही कर्ममें प्रवृत्ति हुआ करती है । कर्मके साधन भी तीन हैं:-करण (इन्द्रिय), कर्म और कर्ता ।

(१९) सांख्य शास्त्रमें ज्ञान, कर्म और कर्ता भी तीन तरहके लिखे गये हैं । उनके अलग अलग लक्षण हैं । उनको भी क्रमसे कहता हूं ; सुन ।

(२०) जिस ज्ञानको प्राप्तकर पुरुष सब भूतोंमें—ब्रह्मासे लेकर छोटे छोटे जीवोंतक—एक ही भाव—एक ही परमात्मा देखता है वह ज्ञान सात्विक ज्ञान है ।

(२१) जिस ज्ञानसे सब भूतोंमें—भिन्न भिन्न प्राणियोंमें—भिन्न भिन्न भाव दिखायी दें वह राजस ज्ञान है ।

(२२) जिस ज्ञानसे पुरुष विनाकारण एक ही वस्तुपर प्रेम करता है—उसी वस्तुको अपना सर्वस्व समझ लेता है—दृष्टिको नहीं फैलाता और सिद्धान्तको नहीं समझता—वह तामस ज्ञान है ।

अब कर्मोंके तीन भेद सुनिये:

(२३) सात्विक कर्म वह है जो शास्त्रोक्त हो—संगसे रहित हो—और राग तथा द्वेष छोड़कर—फलकी इच्छा त्यागकर किया जाय ।

(२४) राजस कर्म वह है जो किसी इच्छाको पूरी करनेके लिये अथवा अपना बड़प्पन दिखानेके लिये, या दुःखी होकर किया जाय ।

(२५) तामस कर्म वह है जो भले बुरे परिणामका—यह काम करनेसे किसीका कुछ नुकसान तो नहीं है—इसमें किसीको हानि तो नहीं पहुंचती—मैं यह कार्य करनेमें समर्थ हूं या नहीं—इन बातोंका विचार न करके किया जाय ।

कर्ताके तीन भेद:—

(२६) जब काम करनेवाला यह समझे कि यह काम तो मेरे हाथों हो रहा है पर इससे मेरा रागद्वेष नहीं; मैं नहीं

मेरी इन्द्रियाँ इसे कर रहीं हैं; इस बुद्धिके साथ साथ उसमें कार्य करनेकी शक्ति और उत्साह हो तब वह कर्ता सात्विक कहाता है ।

(२७) जब काम करनेवाला उस काममें प्रीति रखता हो और उसका फल पानेके लिये तरसता हो, लालची, नुकसान करनेवाला, अपवित्र और सुख दुःखमें फँसनेवाला हो तब उसे राजस कर्ता कहते हैं ।

(२८) जो मनुष्य मन लगाकर काम नहीं करता, शरीरसुखको सुख मानता है, हठ और ठिठार्ई करता है, दूसरोंको धोखा देता और ठगता है, आजका कार्य कलपर छोड़ देता है—काम करना ही नहीं चाहता; सदा दुःखी रहता है और जरासे काममें ही सारा समय नष्ट कर देता है ऐसा कर्ता तामसी कहलाता है ।

(२९) बुद्धि और धृतिके भी गुणोंके अनुसार तीन भेद हैं । उनका भी अलग अलग और मविस्तर वर्णन सुनाता हूँ । बुद्धिके तीन भेदः—

(३०) प्रवृत्ति अर्थात् गृहस्थका जीवन क्या है ? और निवृत्ति अर्थात् सन्यासीका जीवन क्या है ? इसी प्रकार क्या कर्तव्य है और क्या करना पाप है ? इन बातोंको और भय और अभय, गुलामी और स्वतंत्राका रहस्य जो बुद्धि समझती है वह सात्विक बुद्धि है ।

(३१) जिस बुद्धिसे धर्म क्या है और अधर्म क्या है—कौन कार्य करना उचित है और कौन नहीं—यह ठीक ठीक

नही समझ पड़ता वह राजसी बुद्धि है ।

(३१) अंधकारमें फंसी हुई जो बुद्धि अधर्मको धर्म मानती और सब बातोंको उलटी ही देखती है वह बुद्धि तामसी बुद्धि है ।

धृतिके तीन भेदः—

(३३) जिस धृतिसे पुरुष अपने मन, श्वास (सांस) और इन्द्रियोंको एक साथ एकाग्र कर समाधिके योग्य बना सकता है वह सात्विकी धृति है ।

(३४) जिस धृतिसे अपने कर्मसे फल पानेकी इच्छा रखनेवाला पुरुष अपने धर्म, अर्थ और काम तीन पुरुषार्थोंको सिद्ध करनेके लिये काटिबद्ध रहता है वह राजसी धृति है ।

(३५) जिस धृतिको रखकर कोई दुर्बुद्धि मनुष्य अपनी सोनेकी आदत, डर, रंज, निराशा और मूर्खताको नहीं दूर कर सकता वह तामसी धृति है ।

तीन प्रकारके सुखः—

(३६-३७) हे भारतकुलमें श्रेष्ठ अर्जुन ! अब तीन प्रकारका सुख भी सुन ले । एक वह सुख है जो योगके अभ्याससे मिलता है और जिससे सारे क्लेश दूर हो जाते हैं । आरंभमें तो वह सुख ज़हरका प्याला मालूम होता है पर अन्तमें वही अमृतका काम करता है । इस प्रकार आत्माका ज्ञान होनेपर पुरुष जो प्रसन्नता लाभ करता है वह सात्विक सुख है ।

(३८) आरंभमें तो अमृतके समान सुख देनेवाला पर पीछेमें विषके समान जान लेनेवाला सुख राजस सुख है । यह सुख इन्द्रियके विषयभोगसे उत्पन्न होता है ।

(३९) जो सुख आरंभसे अन्ततक आत्माको भ्रममें फंसाए रहे वह तामस सुख है । ऐसा सुख निद्रा, आलस्य, और बेपरवाहीसे मिला करता है ।

(४०) इस संसारमें, अथवा देवताओंके देवलोकमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इन सत्व, रज, तमसे अलग हो ।

इन्हीं तीन गुणोंके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रका नामाभिधान हुआ है ।

(४१) हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र

इस संसार और परलोकमें जो मनुष्य सुखी होना चाहता है उसे ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करने पड़ते हैं : धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । नित्यके धार्मिक कर्म, शरीरकी रक्षा, और दूसरोंसे प्रीति, कर्तव्य पालन करना पहिला धर्म है । अपना जीवन निर्वाह करने और दानधर्म पालन करनेके लिये दूसरे पुरुषार्थकी आवश्यकता है । तीसरा पुरुषार्थ सादेच्छाओंको पूर्ण करता है । चौथा पुरुषार्थ मोक्ष अर्थात् सब प्रकारकी स्वतंत्रता है जो पहिले तीन पुरुषार्थोंकी सिद्धिसे प्राप्त होती है ।

१ ब्रह्मका ज्ञान रखनेवाला । २ क्षत्र अर्थात् धावको भरनेवाला ।

३ संसारमें व्यापारसे प्रसिद्ध होनेवाला । ४ दासता करनेवाला ।

इन चारों वर्णोंके स्वाभाविक गुणोंके अनुसार ही उनके कर्तव्य बांधे गये हैं ।

ब्राह्मणके लक्षणः—

शमो दमस्तपः शौचं क्षांतरिर्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

(४२) मनको शुद्ध रखना, इंद्रियोंको विषयोंसे खींचना, तप, शरीर और मनको पवित्र रखना, क्षमा करना, सीधापन, शास्त्रोंका ज्ञान, परमार्थसंबंधी विशेष ज्ञान, ईश्वर और वेदोंमें श्रद्धा, ये ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं ।

क्षत्रियके लक्षणः—

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

(४३) क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म ये हैं; वीरता, तेजस्विता, धीरता, निपुणता और युद्धमें पीठ न दिखाना, दीनोंको दान देना और ईश्वरमें श्रद्धा रखना ।

वैश्यके लक्षणः—

कृपिगोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

(४४) १—खेती करना, गौ की रक्षा करना, और संसारभर व्यापार फैलाना वैश्यका स्वाभाविक काम है ।

शूद्रके लक्षणः—

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

५ सत्रहवें अध्यायके १४, १५ और १६ और १७ वें श्लोकमें शारीरिक, वाङ्मय और मानसिक तथा सात्विक तपका वर्णन है । उसी तपसे यहां मतलब है ।

२-उक्त तीनों वर्णोंकी दासता कर उनकी सहायता करना शूद्रका स्वाभाविक काम है ।

गीताधर्मके अनुसार चारों वर्णोंके स्वभाविक कार्य आपने देख लिये । क्या ये कार्य अब हो रहे हैं ? अगर नहीं तो स्वाभाविक कार्योंका छोड़नेवाले वर्ण फिर कैसे स्वाभाविक रह सकते हैं ? ब्राह्मणका स्वाभाविक काम जो ब्राह्मण नहीं करता वह स्वाभाविक ब्राह्मण नहीं है—वह ब्राह्मणपदसे च्युत है ; उसे ब्राह्मण मानना अपनी बुद्धिका दुरुपयोग करना है । जो क्षत्रिय क्षत्रियका कार्य नहीं करता वह क्षत्रिय नाममात्रका है । जो वैश्य व्यापार द्वारा संसारमें अपने देशकी प्रतिष्ठा नहीं करा सकता वह वैश्य नहीं—वैश्यका टूटा फूटा निशान है ।

यह माना कि समय बदल गया है । श्रीकृष्णके समयमें जो देशकी दशा थी वह आज नहीं है । यह भी माना कि समयके परिवर्तनके साथ साथ धर्मका रूप भी बदलता जाता है । परन्तु समयको देखकर ही क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपना अपना काम ठीक तरहसे कर रहे हैं ?

क्या यह ऐसा समय है कि ब्राह्मण, शम दम, तप शौच, क्षमा, आर्जव, ज्ञान विज्ञान और आस्तिकताका प्रचार नहीं कर सकता ? ब्राह्मण कहलाना तो बहुत आसान हो गया है पर ब्राह्मणपर कितनी जिम्मेदारी है इसका कोई खयाल नहीं ! जो ब्राह्मणकुमार अपनी जिम्मेदारीको नहीं निवाहता उसके लिये कुछ दूसरी ही संज्ञा है ।

क्या क्षत्रिय अपने धर्मका पालन नहीं कर सकते ? खूनका दर्या बहानेकी जरूरत नहीं है। पर जीवन संग्रामसे मुंह मोड़ने-वाले क्षणिकाय कंगाल देशभाइयोंका सेनापातित्व ग्रहण करने-के लिये क्षत्रिय खूनकी जरूरत है। रणभूमिमें अपने शस्त्रोंका विद्युत्प्रकाश दिखानेका अवसर नहीं है पर परमुखके निहार-नहारोंमें मर्दाना बाना लानेके लिये क्षत्रिय तेजकी आवश्यकता है। क्षत्रियके घर जन्म लेनेसे ही कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। क्षत्रियके कर्मसे ही सच्चा क्षत्रिय होता है।

वैश्योंके कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये तीन प्रधान कर्म हैं। पर इनमेंसे एक भी उनसे नहीं बन पड़ता। वाणिज्य इस देशमें उठ ही गया है। आजकल प्रायः दलाली होती है—दूसरोंसे माल खरीदते और यहां बेचते हैं। यह वाणिज्य नहीं है। अपनी वस्तु आप तैयार करना और उसे बेचना वाणिज्य कहलाता है। क्या समय इतना विपरीत है कि लोग वाणिज्य नहीं कर सकते ?

गोरक्षाके विषयमें कैसी उदासीनता फैली हुई है ! प्रत्येक हिन्दू गौको माता मानता और नित्य स्मरण करता है। पर गौओंकी कैसी दुर्दशा है। जिन लोगोंने गौको माता मानना भिखाया उन्होंने इस देशपर बड़ा भारी उपकार किया है। और क्या सचमुच ही गौ माता नहीं है ? जिस गौकी सन्तानोंकी सहायताके बिना आप अन्न नहीं पैदा कर सकते ; जिस गौका दूध पीकर आप और आपके बाल बच्चे हृष्ट पृष्ट हो सकते हैं ; जिस गौका मल मूत्र भी आपको नरि रोग और

आपके स्थानकी वायु शुद्ध करता है वह परं उपकारी गौ, माता नहीं तो क्या है ? वह हमारे जीवनके लिये परमावश्यक है । भारत जैसा कृषिप्रधान देश गौके विना कब जीवित रह सकता है ? परन्तु शोक है ! हम लोगोंने अभीतक अपने जीवन और जीवनके उपयोगी पदार्थोंको नहीं जाना ! प्रत्येक हिन्दूपर यह लाजिम है कि वह भोजनसे पहिले गौके लिये अन्न अलग कर दे । इस अन्नको गोश्राम कहते हैं ।

वैश्योंका धर्म है कि वे गोरक्षा करें । इस समय शान्ति-पूर्वक जिम प्रकारसे हो गो-सेवा करनी चाहिये । अपने घर गाय रखकर, गोशाला खोलकर, गोश्राम नहीं तो उसके दाम गोशालाओंको देकर लोगोंको गो-रक्षाकी यथासंभव चेष्टा करनी चाहिये ।

वैश्यका कर्म खेती करना है । जवसे धनवानोंने कृषिकी तरफ ध्यान देना छोड़ा तवसे कृषिकी दुर्गति हुई । इस समय जो लोग अपढ़ और निर्धन हैं उन्हीं लोगोंके हाथमें खेतीकी तगदीर आ गयी है । न उन्हें कृषिशास्त्र मालूम है न कृषिकी उन्नतिके लिये उनके पास धन है । ऐसी अवस्थामें विद्वानोंकी सहायतासे धनवान वैश्योंको सामने आना चाहिये । कृषि ही इस देशकी जीविका है—उसीसे हम जीवित रह सकते हैं । आजतक उसीपर हमारा गुजारा हुआ है । सरकारको कृषिसे ही सबसे अधिक आमदनी मिलती है । कृषिसे गो-रक्षा होगी—कृषिसे शरीर-रक्षा होगी—और कृषिसे ही दुर्भिक्षका नाश होगा ।

‘कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम् ।

पर यह काम अपढ़ और निर्धनोंका नहीं । विद्वान् ब्राह्मण

और धनवान् वैश्य ही इसे कर सकते हैं ।

सोचिये, तो ही गीतापाठसे कुछ लाभ है ।

(४५) अपने अपने कर्म करनेसे ही मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होती है । अपने काममें ही लगे रहनेसे किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है उसका भी हाल सुन ।

(४६) जो पुरुष अपने कर्तव्यपालन द्वारा उस संसार-व्यापी जगत्पिताकी पूजा करता है वह परमात्माको पाता है ।

(४७) अपने धर्ममें चाहे कोई दोष भी दिखायी दे तो भी वह दूसरेके अच्छे प्रकार किये हुए धर्ममें भी अच्छा है । अपना स्वाभाविक कर्म करनेसे मनुष्य पापका भागी नहीं होता ।

(४८) अपना जो स्वाभाविक कर्म है उसमें दोष होनपर भी उसे न छाड़ना चाहिये; क्योंकि दोष तो सभी कामोंमें होते हैं—जैसे अग्निमें धूआं, वैसे काममें दोष ।

(४९) जिसकी बुद्धि कितनी वस्तुमें नहीं फंसती—जो अपने आपको इच्छाओंसे स्वतंत्र और स्वाधीन रखता है वह मन्यासके साथ कर्म करके वह सिद्धि प्राप्त करता है जो मन्याससे प्राप्त होती है ।

(५०) अब हे कुन्तिनन्दन ! मैं यह भी संक्षेपसे बतला देता हूं कि किस तरह निष्कर्मसिद्धिको प्राप्त हुआ मनुष्य ज्ञानमय ब्रह्मको प्राप्त करता है ।

१ यहां अपना कर्तव्य—पालन करनेको ही ईश्वरकी पूजा कहा है ।

२ मन्याससे यहां इच्छा छोड़नेका मतलब है ।

३ निष्कर्मसिद्धि अर्थात् सिद्धकी वह अवस्था जो कर्म और इच्छा छोड़नेसे प्राप्त होती है ।

(५१-५३) शुद्ध बुद्धिसे युक्त होना, आत्मिक बलसे मनको रोकना, शब्दादि विषयोंको छोड़ना, रागद्वेषको दबाना, एकान्तमें बैठनेकी आदत डालना, नियमित भोजन करनेका अभ्यास करना, शरीर, वाणी और मनको जीतना, चित्तको ईश्वरमें लगाये रहना, चित्तको विषयोंसे हटाना; तथा अभिमान, बल (धर्मके विरुद्ध), तिरस्कारके साथ अभिमान, काम, क्रोध, भोगके साधन, ममता और अशान्तिको छोड़ना- इतनी बातें जब मनुष्य कर चुकता है तब वह ब्रह्ममें मिलने योग्य बनता है ।

(५४) ब्रह्म-विचारमें मगन रहनेवाला प्रसन्नचित्त पुरुष न कभी दुखी होता न किसी बातकी इच्छा रखता है । वह मारे प्राणियोंको एक दृष्टिसे देखता हुआ मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त करता है ।

(५५) उस भक्तिमें वह पुरुष परमात्माका वास्तव रूप जान लेता है और फिर परमात्माको पा लेता है ।

(५६) संसारके सब काम करते हुए मेरा आश्रय ग्रहण करनेसे पुरुष मेरी कृपासे मेरे निरंतर और अविकार पदको पाता है ।

(५७) अपने सब कामोंको कर—पर उन्हें मुझे अर्पण कर दे । मैंपर हो और इसी प्रकार ज्ञानयोगका आश्रय कर चित्तको मेरी तरफ लगा ।

(५८) मेरी तरफ चित्त लगानेसे सब विघ्नोंको तू पार कर जायगा । पर यदि अहंकारवश तू न मानेगा तो तेरा नाश होगा ।

(५९) अहंकारके वश अगर तू अब भी युद्ध न करना ही निश्चय करे तो तेरा यह निश्चय किसी कामका नहीं; क्योंकि तेरा क्षत्रियस्वभाव ही तुझमे युद्ध करावेगा ।

(६०) हे कुन्तिपुत्र ! इस समय भ्रमके कारण जो युद्ध तू नहीं करना चाहता वही युद्ध तुझे अपने कर्मके बंधनसे बेवस हो करना पड़ेगा ।

(६१) हे अर्जुन ! प्राणीमात्रकी देहमें ईश्वर वास कर रहा है । उमीकी मायामे सब प्राणी किमी कलके पुजोंके समान काम कर रहे हैं ।

(६२) उस ईश्वरकी शरण ले । उसकी कृपासे तुझे उत्तम शान्ति और उत्तम स्थान प्राप्त होगा ।

(६३) यह ज्ञान मैंने तुझे बतलाया है । यह गूढ़मे भी गूढ़ ज्ञान है । इसको अच्छी तरह विचार फिर जो तेरी इच्छा हो, कर ।

(६४) मैं फिर वह गूढ़से भी गूढ़ बात खोलकर तुझमे कहता हूं । सुन; तू मेरा प्यारा है और तेरा मन सुदृढ़ है । इसलिये मैं हितकी बात कहता हूं ।

(६५) अपने मनको मेरी तरफ लगा; मेरा भक्त बन, मेरी ही भक्ति कर; मुझे ही नमस्कार कर; मैं तुझसे कह देता हूं कि तू मेरे पास आवेगा; क्योंकि तू मेरा प्यारा है ।

(६६) सब धर्मोंको छोड़ एक मेरी शरण ले; दुःख मतकर; मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त करूंगा ।

गीता पढ़नेका अधिकार किसको है ?

(६७) हे अर्जुन ! यह जो कुछ तुझे मैं बतलाया है वह किसी विषयलंपट मनुष्यसे न कहना और जो ईश्वरका भक्त न हो, जो ऐसे उपकारी वचन सुनना न चाहता हो अथवा जो मेरी निन्दा करता हो उसको भी कभी यह ज्ञान न बतलाना ।

गीताप्रचारका उपदेश:—

(६८) इस बड़े गूढ़ ज्ञानका जो पुरुष मेरे भक्तोंमें प्रचार करेगा (मैं समझूंगा कि,) वह मेरा बड़ा भक्त है और वह मुझे प्राप्त करेगा ।

(६९) मनुष्योंमें कोई भी इससे बढ़कर मेरे लिये काम नहीं कर सकता और मैं भी इस लोकमें उससे बढ़कर किसीको प्यार नहीं कर सकता ।

गीतापाठका फल:—

(७०) अर्जुन ! हम लोगोंके इस धर्मकर्मसंबंधी संवादको जो (मन लगाकर तथा अर्थ समझ कर) पढ़ेगा वह अपने इस ज्ञानयज्ञसे मुझे प्रसन्न करेगा । यह मेरा मत है ।

गीतापाठ सुननेका फल:—

(७१) जो श्रद्धावान् और निन्दा न करनेवाला पुरुष गीतापाठ सुनकर मनन करेगा वह भी मुक्त होगा और पवित्रात्माओंके पुण्य लोकमें स्थान पावेगा ।

(७२) हे पार्थ ! क्या तूने मन लगाकर इस गीताशास्त्रको श्रवण किया ? क्या तेरा ध्यानसे पैदा हुआ भ्रम दूर हो गया ?

अर्जुनने कहा:-

(७३) हे अच्युत ! मेरा मोह नष्ट हो गया; तुम्हारी कृपासे मुझे धर्मका रहस्य मालूम हुआ । मेरा सन्देह जाता रहा । जो तुम आज्ञा दो मैं करनेके लिये तैयार हूँ ।

संजयने कहा:-

(७४) हे धृतराष्ट्र ! श्रीकृष्ण वामुदेव और महात्मा पार्थका यह अद्भुत और रोमांचित करनेवाला संवाद मैंने सुना ।

(७५) साक्षात् योगेश्वर श्रीकृष्णके मुखसे यह कर्म-योगका उपदेश मैंने व्यासजीकी कृपासे सुन लिया ।

(७६) हे राजन् ! श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस अद्भुत और पवित्र उपदेशका बारबार स्मरण आ कर बड़ा हर्ष होता है ।

(७७) और हे पृथ्वीनाथ ! श्रीकृष्ण भगवानका वह बड़ा अद्भुत रूप भी बारबार आंखोंके सामने आता है जिससे बड़ा आश्चर्य और हर्ष होता है ।

गीताशास्त्र आरंभसे अन्ततक सुनकर और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको पहिचान संजय अपना यह मत प्रगट करते हैं:-

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवानीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

(७८) जिस पक्षमें योगशास्त्र वतलानेवाले श्रीकृष्ण योगेश्वर हों और युद्ध करनेके लिये पराक्रमी धनुर्धर अर्जुन हों उस पक्षकी अवश्य जीत होगी; उस पक्षकी ओर न्याय रहेगा और उस पक्षको श्री और समृद्धि अवश्य जयमाला पहिनावेगी ।

अंतिमके इस एक श्लोकमें गीताका सारांश भर दिया

गया है। जहां योगका उपदेश देनेवाले योगेश्वर श्रीकृष्ण और उनके उपदेशमें कर्मयोगी बने अर्जुन हैं वहां किस बातकी कमी है? श्री, समृद्धि, विजय और न्यायका ही वहां साम्राज्य है। श्रीकृष्ण परमार्थशास्त्रके उपदेष्टा क्या थे मानो परमार्थशास्त्रने प्रत्यक्ष श्रीकृष्णरूप धारण किया था। और अर्जुन शत्रुओंको मारनेवाले धनुर्धर क्या थे मानो वीरताने प्रत्यक्ष नररूप धारण किया था। जब वीरता और परमार्थ दोनों एक साथ होते हैं तभी संसार और स्वर्गमें भेद नहीं रहता। अर्जुनकी वीरता और श्रीकृष्णका योगसामर्थ्य इन दोनोंका जहां मेल हो वहां और क्या चाहिये? वहीं स्वर्ग है—वहीं सब कुछ है!

श्रीकृष्ण भगवानका गीतोपदेश और उमको सुननेवाला अर्जुन जैसा कर्मयोगी—दोनों जब एकही कार्यको उठा लेते हैं तो उम कार्यमें विजय लाभ करेंगे इसमें सन्देह ही क्या है?

गीतोपदेशके अमृतका प्याला रखा हुआ है!

इस अमृतको पान कर भारतवासी यदि अपनी उन्नति आप करना चाहें तो सफलताके साथ कर सकते हैं। अब अर्जुन तो नहीं रहे। पर श्रीकृष्ण परमात्माका यह दिव्य ज्वलन्त उपदेश संसारभर अपना प्रकाश फैला रहा है। इस प्रकाशमें जो अपना शरीर तेजःपुंज, मन दृढ़ और पवित्र, और आत्मा स्वतन्त्र करना चाहे वह कर सकता है; वही अर्जुन है।

गीता अर्जुनके लिये ही है। यदि भारतवर्ष अर्जुनकीसी निष्ठा, अर्जुनकीसी जितेंद्रियता, अर्जुनकीसी तेजस्विता प्राप्त करे तो एक नहीं कितने ही अर्जुन इसदेशमें तैयार हो जायेंगे।

भारतवासीरूप अर्जुन जब इस गीतासे लाभ उठावेंगे तब गीता अन्तमें जो प्रतिज्ञा करती है वह पूरी हुए बिना न रहेगी ।

भारतवासियोंको अब कौरवोंमें लड़ना नहीं है—न शस्त्रोंका ही उपयोग करना है । कौरवोंसे लड़ना तो गीताका निमित्त मात्र था । यदि कौरव-पांडव युद्ध न होता तोभी इस शास्त्रके महत्त्व लोगोंपर प्रकट हुए बिना न रहते । उस युद्धके समय गीताकी जितनी ज़रूरत थी उतनी आज भी है । जवतक संसारमें स्वर्ग नहीं बन जाता तवतक गीताकी ज़रूरत बनी है ।

भारतवर्षकी जो एक मात्र सम्पत्ति धर्म, उसका भी रूप विगड़ गया है ! वर्णाश्रम धर्मपर एकाध पंडित चाहें तो लम्बा चौड़ा व्याख्यान सुना सकते हैं ; पर उस धर्मका अब कोई अर्थ न रहा ! समाजका नाम रह गया है—उसमें जीवन नहीं ! नित्य नयी नयी बुराइयां भारतवासियोंमें जड़ फैला रही हैं ! इनको दूर करना—विघ्नबाधाओंको हटाना और अपने आदर्शके अनुसार यदि और कहीं नहीं तो, अपने देशमें ही समाज जीवित करनेकी चेष्टा करनेके लिये भारतवासियोंको अर्जुन बनकर गीताधर्मका प्रचार करना चाहिये । भारतवासियो ! उठो जागो, संसारमें अन्धकार फैल रहा है उसे दूर करो । भारतीय तत्वज्ञानके लिये संसार तरस रहा है ! भारतके नवयुवको ! इस गीतामृतको पानकर अमर बनो और लोगोंका दुख दूर करो ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

अथारह तां अध्याय समाप्त ।



उपसंहार ।

श्रीमद्भगवद्गीता तत्त्वज्ञानका ग्रन्थ है। इसमें शरीर और जीवात्मा, विश्व और विश्वात्मा, अज्ञान और ज्ञान, दुःख और सुखका वास्तविक भेद दिखलाकर सच्चे सुखकी प्राप्ति, श्रेष्ठ ज्ञानका उपादर्जन, परमात्माके दर्शन, और जीवात्माके अनुभव करनेका उपाय बतलाया है।

युद्धके समयमें अर्जुन अपने संबंधियोंको देखकर क्षात्रधर्मसे मुंह मोड़नेपर उतारू हो गया तब श्रीकृष्ण भगवानने अर्जुनको जो सिद्धान्त समझाये हैं उन्हीं सिद्धान्तोंको लेकर महाभारतकार श्रीव्यासजीने जो अठारह सुमनोंकी सुगंधमय माला नैयार की वही यह श्रीमद्भगवद्गीता है।

अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पलायनम् ।

आयु रक्षति मर्माणि आयुरन्नं प्रयच्छति ॥

जबतक दममें दम है तबतक शत्रुको पीठ न दिखाऊंगा और किसीके सामने हाथ न पसारूंगा, क्योंकि जब आयुष्य है तब कौन किसको मार सकता है और जबतक शरीर है तबतक इसकी रक्षाके लिये अन्नदाता परमात्मा भी मौजूद है। अर्जुनका यह कौल था, पर कौरवोंका सेनाव्यूह देखकर उसका जी घबरा गया ! यह क्यों ? क्या अर्जुन डर गया ? नहीं, अर्जुन शत्रुओंकी विशाल सेनाके उग्र रूपसे भयभीत नहीं हुआ, पर अपने कर्तव्यपालनसे डर गया ! उसने सोचा कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे ये गुरुजन मारे जायेंगे—मेरे मित्र मुझसे जुदा होंगे—और भारतभूमिसे क्षत्रियवंश नष्ट हो जायगा—पतिहीन कुलस्त्रियोंमें अधर्म फैलकर भावी कुरूप, कुरंग और कुशील सन्तानोंकी जड़ जमा देगा !

आत्माका अमरत्व ।

यह मोह दूर करनेके लिये श्रीकृष्ण भगवानने आत्माका अमरत्व समझाया है । हम, आप और ये लड़नेवाले वीर योद्धा क्या ऐसे ही हैं जैसे दिखायी देते हैं ? हम क्या हैं ? हमारे हाथ, पैर, शिर, नाक, कान, पेट 'हम' नहीं हैं ! किसी मनुष्यका हाथ फट जानेसे वह मनुष्य नहीं फट जाता । उसी प्रकार किसीकी गर्दन उड़ जानेसे कोई मर नहीं मिटता । शरीर एक तरहका कपड़ा है जो फटनेपर या पुराना होनेपर हम फेंक देते हैं और नया धारण कर लेते हैं ! मरता कौन है ? हम तुम नहीं मरते—मरता है शरीर; इसलिये श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि किसीके मरनेपर शोक मत करो— अपना कर्तव्य किये जाओ । इसके अतिरिक्त जो मरता है वह जीता भी है और जो जीता है वह मर ही जाता है । फिर शोक करनेकी बात ही क्या है ?

क्षात्रधर्म ।

क्षत्रियधर्म, वर्णव्यवस्थाके अनुसार, अपने देशकी परापहारी शत्रुओंसे रक्षा करना, और उद्दंडको दंड देना है । अपना जी बचानेके लिये अथवा अपने मित्रोंको देखकर नैनसुख लूटनेके लिये युद्ध करनेसे पीछे डिगना निरी कायरता है ।

पुरुषार्थ ।

अपना धर्म पालन करना ही इहजीवनकी इतिकर्तव्यता है । शोक अथवा मोहको मनसे भगाकर एक कर्तव्यपर ही दृष्टिको स्थिरकर उस कर्तव्यमें लग जाना ही पुरुषार्थ है । उसमें चाहे मृत्यु

हो जाय-मृत्यु हुई तो स्वर्गका द्वार खुला है । और जीत हुई तो भी कीर्ति और श्रीसमृद्धि हाथ जोड़े ऋद्धी है । परन्तु स्वर्गप्राप्ति अथवा कीर्तिके लिये कर्तव्य करना ठीक नहीं । क्योंकि फलकी इच्छासे जब मनुष्य कार्य करता है तब वह इच्छा उसे धर दबाती है । कभी कभी तो इस इच्छामें लोग इनने लिपट जाते हैं कि कर्तव्यको भूलकर मनके लड़्डू ही खानेका आदत उन्हें पड़ जाती है और कार्य कुछ भी नहीं बनता । यदि कार्य अच्छी तरह करना हो तो जश्तक वह कार्य पुरा न हो तबतक उस कार्यको छोड़ और कोई विचार भी मनमें उत्पन्न न होने पावे । जो मनुष्य इस ढंगसे काम करता है उसका काम ऊंचे दर्जेका होता है ; क्योंकि उसकी सारी शक्तियां उस काममें लग जाती हैं । जब काम अच्छा होगा तब उसका फल भी उत्तम होगा इसमें संदेह ही क्या है ? किसी कार्यमें सफलता प्राप्त करनेकी यही खूबी है ।

योग ।

‘योग’ शब्दका अर्थ है ‘मेल’ । योग कई प्रकारका होता है । जिस योग द्वारा श्रीसमृद्धि, आरोग्य और कीर्ति मिलती है वह भी योग है; और जिस योगसे परमात्माके साथ संयोग होता है वह भी योग ही है । तात्पर्य, अपनी सारी शक्तियोंको किसी एक कार्यमें अथवा किसी एक ही वस्तुपर लगा देनेका ही नाम योग है । योगसे बढ़कर संसारमें दूसरी शक्ति नहीं है । योगसे मनुष्य बुद्धिमान् और पराक्रमी होता है । योगसे मनुष्य बलिष्ठ और सुन्दर बनता है । योगसे मनुष्यमें वह शक्ति आ जाती है जिससे परमात्माके दुर्लभ दर्शन सुलभ हो जाते हैं । परन्तु यह बड़े अभ्यासका काम है । सबसे पहिले मनको एकाग्र करन-

की चेष्टा करनी चाहिये । शरीरको नींद द्वारा विभ्राम देनेके कार्यसे लेकर घमासान युद्धमें हाथ, पैर, आंख कान आदि शरीरके सारे अवयवोंको फुर्तीसे काममें लानेके कार्यतक जितने छोटे बड़े कार्य हैं उनमेंसे जो कोई कार्य आप चाहे किसी वक्त करते हों उस कार्यमें उस वक्ततक आपका मन इस तरह युक्त होना या मिल जाना चाहिये कि आपको यह न मालूम पड़े कि यह कार्य और आप कोई दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं—कार्य और कर्तामें भेद ही न रह जाय । यही योग है और इसी योग पद्धतिसे जो लोग परमात्माका ध्यान करते हैं वे परमात्माको सचमुच पा जाते हैं । फिर संसारकी कोई बात पाना क्या कठिन है ?

जिन लोगोंको आरामतलबीकी आदत पड़ी हुई है उनके लिये यह ज़रा टेढ़ी खीर है । क्योंकि आरामतलब वे ही लोग होते हैं जो मनकी मुसाहिबीमें लगे रहते हैं—वे मनको अपना मुसाहिब बनाना नहीं जानते । वे कोई सद्ग्रन्थ पढ़ते भी हैं तो उनका मन दूसरी ओर लगा रहनेसे उन्हें उन सद्ग्रन्थोंमें भी प्रकाशके बदले मायामोहका अधकार दिखायी देता है । वे लोग न इहलोक बना सकते हैं न परलोक ही । परमात्मा तो त्रिगुणातीत है—सत्व, रज, अथवा तमके फन्दमें फंसनेवाला नहीं है । उसके साथ ऐसे लोगोंका संबन्ध होना दूर रहा—वे संसारके सामान्य पुरुषार्थ करनेमें ही असमर्थ होते हैं । जिन्हें सृष्टिकी अद्भुत लीलाका रहस्य जानना है उन्हें पहिले यह जानना चाहिये कि परमात्माके पास पहुंचनेके लिये परमात्माके समान होनेका अभ्यास करना पड़ता है ।

यह अभ्यास वे लोग नहीं करते जो 'आओ, पीओ, और मौज करो' इस मतके माननेवाले हैं । ऐसे मतवाले लोग दो

तरहके होते हैं। एक तो वे जो बापका कमाया धन फूंककर अन्तमें तबाह होते हैं और एक वे लोग हैं जिनके पास बापकी कमाई नहीं है पर अगर मिले तो उड़ानेमें कसर न करें। ऐसे लोग मनके लड्डू ही खाते रहते हैं। एक आदमीने थोड़ेसे रुपये खर्च कर कांचके बरतन खरीदे और उन कांचके बरतनोंपर बड़ा भारी व्यवसाय चलाना चाहा। पर मनमें वह अपनी भारी संपत्तिपर विचार करने लगा। उसने सोचा कि इतने दिनोंमें मेरे पास इतने लाख रुपये जमा हो जायेंगे। मारे श्रेष्ठीके वह फूल उठा और मनोराज्यके नशेमें चूर होकर अपनी स्त्रीपर कल्पनातरंगमें ही क्रोधित हो कांचके बरतनोंपर उसने लात मार दी। बस, फिर क्या था—सारे बरतन फूट गये और सारी आशा विद्वेष्टीमें मिल गयी! इसीलिये श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि विषयचिन्ता मत करो; क्योंकि इससे मनुष्य उस चिन्तामें फंस जाता है; मन फंसनेसे क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधसे शोक या मोह उत्पन्न होता है, मोहसे चित्त अस्थिर होता और विवेक जाता रहता है, फिर मनुष्य आपसे बाहर होकर अपने आपको भूल जाता है।

ब्राह्मी स्थिति ।

परन्तु जो मनुष्य मनपर विजय लाभ कर अपने कर्तव्यपालनमें अपनी सारी शक्तियोंको लगा देता है वह इस प्रकारके अभ्याससे अपनी बुद्धिको दिन दिन अधिकाधिक स्थिर करता है और दुःखसे डाँवाडोल नहीं होता। वह ब्रह्म-चिन्तामें मगन होकर संसारको ब्रह्ममय देखता है। उसके किसी कार्यसे किसी की हानि नहीं होती, क्योंकि विश्वकल्याण ही विश्वात्माके दर्शनकी सोपान-परंपरा है।

कर्मयोग ।

पाश्चात्य देशोंकी इतनी उन्नत अवस्था क्यों है ? और वेद, उपनिषद्, गीता आदि उत्तम ज्ञानसंपन्न ग्रन्थोंके रचयिता आर्ष मुनियोंकी हिन्दू सन्तानोंकी ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है ? इसका उत्तर यही है कि पाश्चात्य देश कर्मवीर है और भारतवासियोंने कर्मयोगको तिलांजलि दे दी है !

भारतवर्ष परमार्थप्रधान देश है। परमात्माका अगम्य स्थान वर्णन करनेमें भारतवासियोंकी जितनी बुद्धि खर्च हुई है उतनी और किसी बातमें नहीं। भारतवासी अर्थात्क परमात्माके जितने पीछे लगे हैं उतना वे अपने खाने पीनेका भी विचार नहीं करते। जो करते हैं वही होता है ! यदि खाने पीनेका, आरोग्यका, और श्रीसमृद्धिका विचार करें तो वही हांगा और इन बातोंको जोड़सझादू परमेश्वरका ही पीछा करें तो पीछा ही करते रहेंगे। एकसे श्रीसमृद्धि मिलेगी; दूसरेसे परमार्थ विषयके ज्ञानका प्रचार होगा। पहिला उपाय पाश्चात्य देशवासियोंने किया; दूसरा हम लोगोंने। पाश्चात्य देशवासी मालामाल हुए और हमारी यह दशा हुई कि हमारे विषयमें अब यदि पाश्चात्य तत्त्ववेत्ता ' बुभुक्षितः किं न करोति पापं । श्लीणा नरानिष्करुणा भवन्ति, ' यह कहें तो वह अक्षर अक्षर सत्य है। सच पूछिये तो पाश्चात्य मार्गने जितना लाभ उठाया है उतना पूर्वोक्त मार्गने नहीं उठाया ! परन्तु इसका कारण प्राचीन ऋषिमुनि नहीं है। उन्होंने हिन्दू धर्मको ऐसा बना दिया कि सांसारिक और पारलौकिक दोनों प्रकारकी उन्नति हों। इसीलिये गीतामें कर्मयोगका अवतार है। कर्मयोगका उद्देश्य यह है कि पाठकोंकी, उनके देश और

जातिकी, ऐहिक उन्नति पाहिले ही और फिर आप ही पारलौकिक उन्नति होगी । कर्मयोगकी पद्धतिसे कार्य करनेपर परमात्माके दर्शन भी होते हैं और धन, आरोग्य तथा धन भी मिलता है । तीसरे अध्यायमें इसीलिये कर्मयोगका विवेचन किया गया है ।

परमात्मा निर्गुण—निराकार है । जीवात्मा उसके समीप तभी पहुँचता है जब वह उसके समान हो जाता है । यह बहुत सच है । पर निर्गुण और निराकार कोई कैसे हो सकता है ? यह तो सभी विश्वास ही नहीं होता कि हमारा शरीर और यह सृष्टि रूप परमात्माका शरीर ही सत्य नहीं है; सत्य तो उसके अन्दरका आत्मा और परमात्मा है । इसका अनुभव करनेको तपस्या करनी पड़ती है । वह तपस्या शरीर, मन और बुद्धिसे करनी पड़ती है । इसलिये शरीर, मन और बुद्धि की भली भाँति रक्षा करनी पड़ती है । इसके लिये अन्न और वनस्पतियोंके रससे शरीरमें वीर्य बनाये रखना होता है । शरीर स्वच्छ रहनेसे बुद्धि और मन भी वैसे बन जाते हैं । ऐसे पावेत्र मन, बुद्धि और शरीरसे परमात्माके स्वरूपकी अहर्निश चिन्ता किये बिना दर्शन नहीं होते । परन्तु अहर्निश चिन्ता करना तबतक साध्य नहीं है जबतक मनुष्य अपने शरीर और मनको इतना सुदृढ़ न बनाले कि संसारकी लीला अथवा प्रकृतिके उलटफेरका उसपर कुछ भी प्रभाव न पड़े । शरीर और मनपर पूर्ण स्वामित्व तभी उत्पन्न होता है जब इंद्रियोंको स्वार्थ-संपादनसे रोक लें अर्थात् जो कोई कार्य हम करें वह स्वार्थके लिये न हो—वह परमात्माको समर्पित हो—उसके फल मनुष्य जातिको प्राप्त हों । विश्वात्माका कार्य विश्वकल्याणकी

कामना है । विश्वात्माकी प्राप्ति विश्वकल्याणकी कामनामें तन, मन, धन अर्पण कर देनेसे होती है ।

जो लोग सब काम धाम छोड़कर 'हरिनाम' लेना ही पुरुषार्थ समझते हैं वे बहुत भूलते हैं । उन्हें जानना चाहिये कि जीवात्मा जो शरीर धारण करता है वह शरीरको निकम्मा बना रखनेके लिये नहीं । हम आप ऐसी कोई बात कर कसते हैं जिससे कोई लाभ न हो—जिसका कोई काम न हो । पर परमात्मा ऐसी भूल नहीं कर सकता कि व्यर्थ शरीर निर्माण करे । उसी प्रकार बुद्धि और मनका भी हाल है । मनुष्य अपने शरीर, मन और बुद्धिकी समोन्नति करे इसीलिये शरीर धारण किया जाता है । ऐसे समुन्नत शरीरमें विश्वकल्याणके काम आना ही परमात्माके भक्त जीवात्माओंका उद्देश्य है । इसलिये काम धाम छोड़ना अनुचित और सब काम करना ही उचित है ।

परन्तु काम निष्काम हो कर करना चाहिये । सामने परमात्माको और मनमें विश्वकल्याणकी कामनाको रखकर योगपूर्वक कार्य करना ही कर्मयोग है । इससे दोनों लोक बनते हैं । योगपद्धतिसे जो लोग कार्य करते हैं वे अपना नाम अजर अमर कर जाते हैं । मनुष्य अमर तो है ही पर योगसे वह अपना नाम भी अमर कर जाता है । योगकी व्याख्या स्मरण रखिये, जिस कामको हाथमें उठा लोगे उसमें अपनी सारी शक्तियां खर्च करो और उस कामको पूरा कर छोड़ो । इस तरह काम करनेकी आदत डालने और अपने सब काम अपने आरोग्य, बुद्धिमत्ता, बल और देशसेवामें लगा देनेसे बिना बुलाये भक्तका सेवक परमात्मा और कर्मधीरपर लट्टू होनेवाली कीर्त्ति दोनों आप ही आप पास आ जाते हैं ।

मनुष्यको सदा दो प्रकारके कामोंकी ओर ध्यान देना

चाहिये; (१) नित्यके कार्य; और (२) नैमित्तिक कार्य । नित्यके कार्य अर्थात् सूर्योदयसे प्रथम ही शौचादि विधि और जलस्नानसे निवृत्त हो सूर्यदेवके कोमलकिरणोंसे सर्वांगस्नान करते हुए संध्यावन्दन, प्राणायाम और गायत्री जप करना, तथा नित्यके जो पंचमहायज्ञ हैं उनको प्रसन्नतापूर्वक संपादन करना । नैमित्तिक कार्य वे हैं जो समयकी विशेष परिस्थितिके कारण उत्पन्न होते हैं; जैसे प्लेग, महामारी, हैजा, दुर्भिक्ष आदिसे (जो भारत-वासियोंके नित्यके सहचर हैं उनसे) और दुष्टोंके अत्याचारसे लोगोंको बचाना, देशपर शत्रु आक्रमण करे तो शत्रुको हटाना । इन कामोंको करते हुए सदा यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हमें किस प्रकारके लोगोंमें काम करना है, उनकी क्या धर्म-कल्पनाएं हैं, उनको प्रिय वस्तु कौनसी हैं, और कौन बात करनेसे उनके दिलमें दर्द पैदा होता है । इसका विचार न कर जो लोग देशसेवा करने जाते हैं वे देशमें एक नयी हलचल पैदा कर देते हैं और कभी कभी अपने कियेका समर्थन करनेके लिये यह कह देते हैं कि ऐसी हलचलसे लोगोंमें जान आती है । हां, यह बात अवश्य है कि लोगोंमें सर्वसाधारणको नुकसान पहुंचानेवाली जो बातें या कुरीतियां हैं उनको जोरोंके साथ मेट देना चाहिये । परंतु ऐसी कुरीतियोंके मेटनेमें किसीके धर्म, उपासनाकी रीति, मंत्रविधि अथवा सम्मान्य नेताके सम्भारित्रपर आक्षेपआघात करना सर्वथा अनुचित है । जो लोग चाहते हैं कि समयका सामना करने योग्य बुद्धिमत्ता और कार्यशक्ति हम लोगोंमें ला दें उन्हें समयपर बड़ी गंभीरतासे विचार करना चाहिये । उदाहरणार्थ वर्तमान समय लीजिये, देशकी दशा क्या है ? देशकी अधोगतिका मुख्य कारण क्या है ? क्या इसके कारण नानाविध धर्मसमाज अथवा इंद्रदेवका

कोप है ? लोग क्यों बदम हैं और क्या करनेसे उनमें दम आ जायगा ? उनमें आरोग्य और बलका कैसे संचार होगा ? धन और धान्य कहांसे मिलेगा ? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका आदि देशोंके पराक्रमकी सामर्थ्य कैसे आवंगी ? और कैसे भारतवर्ष अपने कर्मयोगकी शिक्षाका प्रचार दिग्दिगन्तमें करेगा ? इन प्रश्नोंपर विस्तरशः विचार करनेका यह स्थान नहीं है । केवल यह कह देना है कि आरोग्य, राजनीति और समाजशास्त्रके अज्ञानसे ही उन्नतिका मार्ग रुका हुआ है । कार्य-कर्त्ताओंको इधर ध्यान देना चाहिये ।

दूसरी बात जो कर्मयोगीको जाननी है वह यह कि छोटी छोटी बातोंमें भी लोग श्रेष्ठ पुरुषोंका अनुकरण करते हैं । कपड़े पहननेकी रीतिसे लेकर बात करने और मिलनेका ढंग, खान पानका विचार आदि जितनी बातें हैं उन सब बातोंमें कर्मयोगीको ऐसा आचरण करना चाहिये कि उसके अनुकरणसे लोगोंकी हानि न हो । और एक बात; बहुतसी ऐसी बातें समाजमें देखनेमें आती हैं कि वास्तवमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं परन्तु उनसे कोई नुकसान भी नहीं है और लोग उनपर बड़ी श्रद्धा करते हैं । ऐसी अवस्थामें लोगोंको अपने अनुकूल बनानेके लिये स्वयं पवित्र मनसे उन बातोंको करना चाहिये । श्रीकृष्ण भगवानने तीसरे अध्यायमें इन तीनों बातोंपर बड़ा जोर दिया है । अभिमानको त्यागकर जो कर्मवीर श्रीकृष्ण भगवानके इस उपदेशामृतसे अमर होकर कर्मक्षेत्रमें अवतीर्ण होंगे उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी ।

स्वभाव और कर्म ।

यह बात प्रत्येक मनुष्यको ध्यानमें रखनी चाहिये कि सब मनुष्य एक ही प्रकारके काम नहीं कर सकते । इसलिये प्रत्येक

मनुष्यको अपनी प्रवृत्ति और स्वभाव पहिचान कर किसी काम-को उठाना चाहिए । नौकरी भी करनी हुई तो ऐसी नौकरी करनी चाहिये जिसमें मन लगे-इस तरह मन लग जाय कि उस नौकरीसे अफसरी हासिल हो । स्वभाव, प्रवृत्ति और संस्कार मनुष्यको किसी खास कामके योग्य बनाते हैं । इसलिये इनका विचार कर लेना चाहिये । जो लग ऐसा विचार नहीं करते वे भ्रमसे अपनी विरादरी, अपनी नौकरी, या अपना गांव छोड़ कर दूसरी जगह चले जाते हैं और फंसते हैं । एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानके पहिले इस बातका खूब विचार कर लेना चाहिये कि क्या इस स्थानपर हम रह ही नहीं सकते ? अथवा क्या उस स्थानकी (जहां जाना है) इच्छा हमारा पिंड छोड़ ही नहीं सकती ? अगर नहीं छोड़ सकती तो स्थानपरिवर्तन ही ठीक है ।

ब्रह्मचर्य ।

भारतवर्षकी वर्तमान दुर्दशाके अन्य अनेक कारणोंमें प्रचलितः ब्रह्मचर्यका अभाव है । इसी कारण गीता जैसे परम उपकारी ग्रन्थोंके रहते हुए भी हम बात बातमें अपमानित होते हैं और अपनी उन्नति और पराक्रमके विषयमें हतोत्साह हो रहे हैं ! संसारमें इतना गिरा हुआ देश और कोई नहीं है ! विदेशी बालक यहां आकर भारतवासी युवकोंको लजाते हैं इसका अनुभव किसको नहीं है ! विदेशमें ८०-९० वर्षके वृद्ध भी उत्साही, पराक्रमी और व्यायामपटु होते हैं ! विदेशमें ५० वर्षके मनुष्य भी अपनेको पूर्ण युवा मानते हुए कालिजोंमें अभ्यास करते हैं ! और हे भारतवर्ष ! तू ही इतना क्यों गिर गया कि तेरी युवा सन्तान २५ वर्ष की भरजवानीमें मृत्युको आलिंगन देती है ? इसका कारण ब्रह्मचर्यका अभाव है ! नवयुवको ! याद रखो, तुम्हारी उन्नति तुम्हारे ब्रह्मचर्यपर ही निर्भर है ।

हम लोग जो अन्न खाते हैं उसका शरीरके अन्दर रस बनता है । रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि. अस्थिसे मज्जा और मज्जासे वीर्य बनता है । इसी वीर्यसे शरीर की रक्षा होती है । इसी वीर्यसे शरीर बलिष्ठ, मतेज और हृष्टपुष्ट होता है । यही जीवनका आश्रय है । इसीकी रक्षा करना परम धर्म है—इसी रक्षाका नाम ब्रह्मचर्य है । शास्त्रीयरीत्या परीक्षा कर देखनेसे मालूम हुआ है कि वीर्यका एक बिन्दु रक्तके चालसि बिन्दु बराबर है और जननेन्द्रिय ही सारी शक्तियोंका उगमस्थान है—उसीके बने रहनेसे सब कुछ बनता है ।

मरणं बिन्दुपातेन जावनं बिन्दुधारणात् ।

तस्मादतिप्रयत्नेन कुरुते बिन्दुधारणम् ॥

वीर्यक्षयसे ही मृत्यु होती है और वीर्यधारण ही जीवन है । इसलिये हर उपायसे वीर्यकी रक्षा करना चाहिये । हिन्दुओ ! स्मरण रखो, विलासितासे ही तुम्हारा सर्वनाश हुआ है ! विलासिताको अब यहां न रहने दो । समय, सात्विक कार्य करनेके लिये और वीर्य, उस कार्यको धीरता और सफलतासे करनेके लिये है । ब्रह्मचर्यके बिना संसारमें किसीकी किसी प्रकारकी उन्नति नहीं होती । संसारमें जो बड़े ऋषि मुनि और प्रचंडशक्ति-संपन्न आविष्कारक, रणधीर योद्धा, प्रभावशाली वक्ता और लेखक उत्पन्न हुए वे सब ब्रह्मचारी थे । भारतके नवयुवको ! यदि तुम्हें इस जीवनका सच्चा आनन्द लूटना है और अपने अभागे देशको स्वतंत्र देशोंकी पंक्तिमें बैठाना है तो ब्रह्मचारी बनो । तुम्हारे पास धन नहीं है तो परवा नहीं; ब्रह्मचर्य है तो नेपोलियनकी तरह तुम भी संसारको अपने पराक्रमसे थरा सकते हो । वीर्यकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि तुम्हें संसारकी कोई शक्ति नहीं हिला सकती । वीर्यके बलसे ही योगी लोग परमात्मा-

को पाते हैं । इससे निश्चित है कि संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वीर्यके बलसे प्राप्त न हो ।

सिद्धे बिन्दौ महायत्ने किं न सिध्यति भूतले ?

ब्रह्मचर्य-पालनेमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिये । शहरके रहनेवालोंके इर्द गिर्द इतने प्रलोभन हैं कि शहरवासियोंमें पकाध ही कोई मनुष्य ब्रह्मचर्यनाशके महापापसे बचता है । नशेखोरोंकी संगसोहबत, अश्लील नाटकोंके देखनेमें जागरण, अश्लील उपन्यासोंका पठन, आलस आदिसं सदा बचनेका अभ्यास करनेवाला पुरुष ही ब्रह्मचारी रह सकता है । ब्रह्मचर्य पालनके लिये आठों प्रकारके मैथुनसे सदा दूर रहना चाहिये ।

श्रवणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणं ।

संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥

ये आठ प्रकारके मैथुन हैं । प्रत्यक्ष ह्योसंभोगके अतिरिक्त श्रवणादिसे भी वीर्यकी अधोगति होती है । इसलिये कदापि मनमें रेतःपातका विचार न आना चाहिये । अभ्यास करनेसे यह कोई कठिन बात नहीं है । पर अभ्यास आरंभ करना ही कठिन होता है । इसलिये सदा स्मरण रखना चाहिये कि वीर्य जीवन, जीवनहेतु और प्रभुके दर्शनके लिये है । वीर्यका एक और उपयोग है और वह सिखाना भी नहीं पड़ता । प्रत्येक वीर्यवान् मनुष्यमें अपने जैसा एक और प्राणी उत्पन्न करनेकी इच्छा होती है । इस इच्छाको पूर्ण करना पाप नहीं है—धर्म ही है । वीर्यका नाम ही उत्पत्ति-बीज है और उसका काम सन्तान उत्पन्न करना है । परंतु व्यर्थ ही वीर्यका नाश करना महापाप है ; क्योंकि इससे मनोहर संसारकी मनोहरता जाती रहती है—जीवन फीका जान पड़ता है और कोई पराक्रम नहीं बन पड़ता । लोगोंमें जीवन ला देना अथवा एक जीता जागता प्राणी

तैयार करना-ये ही दो वीर्यके काम हैं ।

परन्तु वीर्यरक्षा तभी हो सकती है जब मनुष्य वीर्यके महत्वको समझे । हमलोगोंमें खानेपीने, उठनेबैठने और चलनेफिरनेके विषयमें इतने बाहियात नियम चल गये हैं कि इन नियमोंका बिना थोड़े ब्रह्मचर्यका पालन नहीं हो सकता । ब्रह्मचर्यका अर्थ है कि प्रकृतिपर प्रभुत्व जमाना और हमारी जीवनचर्या ऐसी है कि हम लोग प्रकृतिके गुलाम बन रहे हैं । प्रातःकालसे लेकर सोनेतक हम लोगोंको अपने लिये ऐसे नियम बना लेना चाहिये जिनसे शरीर, मन और बुद्धिकी उन्नति हो । पहिली बात ध्यानमें रखनेकी यह है कि हमें जहांतक संभव हो निसर्ग-नियमोंसे चलना चाहिये । भोर सबेरे बिछौनेसे सो-कर उठिये और देखिये कि वायु कितनी स्वच्छ और पवित्र है । इस वायुमें प्राणशक्ति फैली रहती है । सबेरे उठनेवाला कर्म-योगी इस वायुसे अपने जीवनके लिये भरपूर प्राणशक्ति प्राप्त कर लेता है । इस विषयमें पशुपक्षी हमारे गुरु हैं । उनका प्रातःसमीरसे जो आनन्द मिलता है और जो पवित्र शक्ति प्राप्त होती है वह उनके निरांगा कंठसे बाहर फूट निकलती है । इस-लिये सबेरे उठनेकी शिक्षा हमें पक्षियोंसे ग्रहण करनी चाहिये । इसके उपरान्त आपके शरीरसे रोग निकाल बाहर करनेके लिये सूर्यदेव अपने कोमल किरणोंसे आपको सर्वांग स्नान कराने आते हैं । परन्तु आप इस वक्त बन्द काठरियोंमें खर्राटे मारते पड़े हों तो सूर्यदेव क्या करेंगे ? शरीर सदा स्वच्छ रखना चाहिये । निसर्गकी अद्भुत कृति पर्वतसे निकली हुई किसी पवित्र धारा-में अथवा गंभीर समुद्रकी विद्युत्शक्तिसंपन्न लहरोंमें स्नान करना अत्युत्तम है । जहां समुद्र अथवा देवन्दी न हो वहां कुण्ठके जलसे ही शरीर स्वच्छ रखना चाहिये । शरीर स्वच्छ

कर परमात्माकी आराधनासे अथवा निसर्गदेवकी कृपणा-पूर्वक पूजा करनेसे मन उल्लसित और बुद्धि तीव्र होती है । सूर्यदेवके कोमल किरणोंसे शरीरके रंग रगमें प्राण संचय करने हुए, ऋषि मुनियोंने, पंचमहाभूतोंकी उपासना, सूर्यदेवकी अर्घ्यप्रदान और प्राणायाम करनेका क्या ही उत्तम उपदेश दिया है । यह उपदेश सदाके लिये है । प्यारे युवको ! क्या आपके रहते वह अरण्यरुदन मात्र होगा ? संबर उठते ही सिगरेट तमाखूसे शरीर और मन विषमय करनेके बदले उक्त प्रकारसे यदि लोग समयका उपयोग करें तो क्या ही अच्छा हो । इसी प्रकार जीभके गुलाम बनकर मनमाना खानेकी आदत डालनेके बदले यदि भूख लगनेपर ही स्वच्छ पवित्र और यथासंभव जैसाका तैसा अन्न खानेका अभ्यास करें तो हमारी शक्ति कितनी अद्भुत हो जाय । सोनेसे पहिले नशा-खोरी या गप्पापट्ट करनेके बदले यदि हम मलमूत्र विस्मर्जन कर ईश्वरकी आराधना कर सोवें तो कैसी मीठी नींद ले सकते हैं—स्वप्न या स्वप्नावस्था कैसे आप ही आप भाग जाती है ! वैसे ही बंद कोठरियोंमें मुंहपर चादर अथवा पुरानी रजाई ओढ़कर सोनेके बदले स्वच्छ कपड़ोंके साफ बिस्तरेपर खुली हवामें यथासमय सोनेका प्रयत्न करें और ७ । ८ घंटेसं अधिक न सोवें तो मनकी प्रसन्नता कितनी बढ़ती जाती है ! और अन्तमें यह कह देना है कि अश्लील उपन्यास पढ़ने अथवा नाटक देखकर शरीरमें विष फैलानेके बदले यदि गीता जैसे ग्रन्थको नित्य पढ़नेपर सोनेका अभ्यास डालें तो नींदकी खुशामदमें रात बिता देने वालोंको भी कैसी अनायास विश्रान्ति मिलती है ! इत्यादि बातोंपर अभ्यासपूर्वक विचार करनेवाला मनुष्य साहसी, बलवान्, तेजस्वी और प्रभावशाली बनता है; क्यों-

कि उसका वीर्य नष्ट नहीं होने पाता बल्कि वीर्यवृद्धि होती रहती है।

जो लोग अनर्थ वीर्यपात कर चुके हैं वे प्रायः औषधियोंकी शरण लेकर अपना तन, मन, और धन देकर सर्वनाश कर लेते हैं। उन्हें निसर्गके नियमोंको जानना चाहिये और यह विश्वास रखना चाहिये कि उनके अनुकूल चलनेसे वे अपनी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाते ही जायंगे। अभी हम लोग सांस लेनातक नहीं जानते। जंगलमें रहनेवाला मनुष्य हम लोगोंको सांस लेना सिखला सकता है। वह जन्मसे ही निसर्ग-देवीकी गोदमें पला रहनेसे नैसर्गिक श्वसनशास्त्रका वास्तवमें (बकवादमें नहीं) पंडित होता है। मनुष्यको ठीक उसी तरह सांस लेनेकी चेष्टा करनी चाहिये जिस तरह जन्मते ही नन्हा बालक लेता है। वह सांस पूरी सांस होती है। पूरी सांस लेनेसे शरीरके अन्दरका सब मैल साफ हो जाता है। परन्तु शहरकी संगसुहबतने हमें निसर्गसे इतनी दूर ला छोड़ा है कि पूरी सांस लेना सीखनेके लिये अब तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसी तपस्या करनेवाले लोग अमेरिका, जर्मनी आदि देशोंमें उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस विषयमें ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें नैसर्गिक व्यायामपद्धति और पूर्ण श्वसनके व्यायाम बतलाये गये हैं। स्थलसंकोचके कारण हम यहां उनको नहीं लिख सकते। इतना बतला देना पर्याप्त समझते हैं कि हम लोग जिस प्रकार सांस लेते हैं वह ठीक नहीं है; हमको स्वच्छ वायुम रहकर वह प्राणमय वायु यथाशक्ति खींचकर शरीरके अन्दर फैला देनेकी चेष्टा करनी चाहिये और फिर अन्दरकी दूषित वायु बाहर निकाल देनी चाहिये। चेष्टा करनेसे इस तरह सांस लेनेकी आदत पड़ जायगी। यह चेष्टा ही सच्ची औषधी है। इस औषधीसे असाध्य क्षयरोग भी साध्य होते हैं और मनुष्य

वीर्यवान् बनता है । शायद यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि सांस नाकसे ही लेना चाहिये—मुहसे नहीं ।

जब मन किसी मोहक वस्तु या स्त्रीको देखकर बहकने लगे तब भी इसी प्रकार सांस लेकर शरीरका विष निकाल देना चाहिये ।

इस प्रकार ब्रह्मचर्यके लिये जो लोग यत्न करते हैं ये महापुरुष भी बन सकते हैं; उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं ! वे ही परमात्माके प्यारे भक्त हैं । उनकी बुद्धि स्थिर होती है । वे ईश्वरको जान लेते हैं ।

ज्ञानयोग ।

परमात्मा ज्ञानमय है । ज्ञानसे ही उसके दर्शन होते हैं ।

परंतु जो लोग ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती । जिनकी बुद्धि अस्थिर है उन्हें किसी विषयका ज्ञान नहीं प्राप्त होता । इसलिये ब्रह्मचर्य पालन कर ज्ञान लाभ करना चाहिये ।

मनुष्य स्वयं ज्ञानी है; परन्तु प्रकृतिके परदेमें उसे ज्ञानका अनुभव नहीं होता । इसलिये अज्ञानसे वह ऐसे कर्म करता है जिनसे वह उन सब कर्मोंमें फंसता है और ज्ञानका प्रकाश उसे नहीं दिखायी देता । जबतक ज्ञानका प्रकाश उसपर नहीं पड़ता तबतक वह उस ज्ञानके लिये जन्म लेता रहता है । जन्मका यही उद्देश्य है कि मनुष्य ज्ञानी हो ।

परन्तु ज्ञान प्राप्त करनेका उपाय केवल विचार कर बेकार पड़े रहना नहीं है । सच्चा ज्ञान अनुभव-ज्ञान है । पुस्तकें पढ़कर बिना अनुभव जो ज्ञान होता है वह असल ज्ञान नहीं है । अपने जीवनमें हम जिस ज्ञानको उपयोग कर परख लेते हैं वही सच्चा ज्ञान है । अर्थात् सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेका उपाय जीवनका खुबुपयोग है । इस उपायकी कर्मभूमि अपना शरीर मन और बुद्धि, तथा देश, मानव जाति और प्राणि-मात्र है । पहिले हमने

जिस शरीरको धारण किया है उसके एक एक पुर्जेका ठीक रखना हमारा कर्तव्य है । फिर जिस मनसे हम अपने शरीरकी मशीन चलाते हैं उसे अपनी विवेकबुद्धिकी माहबतमें रखना हमारा कर्तव्य है । और इस प्रकार जब हम अपने शरीरके स्वामी बन जाते हैं तब हमारा यह काम है कि जिस संसार-स्वामीके निकट हमें जाना है उस संसारकी शारीरिक और मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नतिका कार्य करें । इस प्रकार हमारा शरीर, मन और बुद्धि अखिल ब्रह्मांडमें व्याप्त हो जाना चाहिये । तभी तो हम जीवात्मासे विश्वात्मा बनेंगे । इस आदर्शको सामने रखकर सबसे पहिले हम अपनी उन्नतिके साथ साथ ।

देशोद्धार

करनेकी प्रबल इच्छा होनी चाहिये । देशका उद्धार कौन करेगा ? जिनका देश है उन्हींको उसके उद्धारकी फिक्र करनी चाहिये । यही तो न्याय है । जो लोग निर्गुण निराकार ईश्वरके भरोसे हाथ मलते रहते हैं उनके देशका उद्धार कदापि नहीं हो सकता । जैसे हमारे शरीरकी उन्नति हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता, उसी प्रकार हमारे देशरूपी देहको भी और कोई बलिष्ठ नहीं कर सकता । यदि हमें बलिष्ठ होना है तो पहिले हमें काममें हाथ लगा देना चाहिये, फिर ईश्वर मालिक है । जो लोग

ईश्वरी अवतार

मानते है उन्हें जानना चाहिये ईश्वर आलसी दुराचारी और परमुक्त निहारनेवालोंकी बन्द कांठरियोंमें अवतार नहीं लेता । ईश्वर उन्हींकी मदद करता है जो अपनी आप मदत करते हैं । श्रीकृष्ण भगवानने क्या कहा है ? जब महात्माओंपर अत्याचार होते हैं तब मैं अवतार लेता हूँ । पहिले महात्मा हों

और जब उनपर अत्याचार हो तब ईश्वरके अवतारकी बात निकालनी चाहिये। अत्याचार, कष्ट, और नाना प्रकारकी आपदाएं सहनेके लिये जब मनुष्य तैयार हो जाता है तब कहना चाहिये कि उसने अपने शरीरपर अधिकार जमा लिया—उसका जीधन अपना जीवन है—उसकी आत्मा एक ही शरीरके अन्दर नहीं बल्कि संसारमें फैली हुई है।

इस प्रकार जिसका हृदय फैल जाता है वही ज्ञानयोगका अधिकारी होता है। उसीको ज्ञान प्राप्त होता है और वही जीवात्मासे विश्वात्मा बनता है; क्योंकि अपने भाइयोंके लिये प्रसन्नतासे कष्ट स्वीकार करनेवाला कर्मवीर सुखदुःखसे छूट जाता है। वह अपना कर्तव्य ही करता है। उसे अपना शरीर एक करखाना मालूम होता है और उस कारखानेसे वह लोगोंकी उन्नतिके सामान तैयार करता है इस लिये लोग उस शरीरको पूज्य मानते हैं।

मन्यास ।

इस प्रकार भूतसेवामें शरीर, मन और बुद्धिको लगा देना ही सन्यास है। जो लोग गेरुए वस्त्र पहिन लेते हैं और 'छत्रमें भोजन और मठमें निद्रा' का व्रत धारण करते हैं वे सन्यासी नहीं हैं। गीताकार कहते हैं कि सन्यासी जितेन्द्रिय होना चाहिये। उसे सबको समदृष्टिसे देखना चाहिये और कोई कार्य करते हुए सुख दुःख न मानना चाहिये। ऐसी वृत्तिवाला पुरुष वही हो सकता है जो स्वार्थको जलांजलि देने और भूतसेवा करनेमें जीवन दे दे। वह जीते जी मुक्त हो जाता है। उसका नाम, काम और धाम तीनों अमर होते हैं।

ध्यान ।

हम आप अपने सब काम करते हैं। परन्तु जिस विशाल

शक्तिने यह विश्वब्रह्मांड रचा—जिसकी सत्तासे नित्यप्रति सूर्यदेव आकर हमारे रोगोंका नाशकर हमें तेजस्वी बनाते हैं और निशाकालमें चंद्रदेव हमारे वीर्याधार वनस्पतियोंको सुधारससे पुष्ट कर जाते हैं—जिसकी सत्तासे वायुदेव हमारे शरीरको शुद्ध बनानेका हर समय काम कर रहे हैं और वरुण इस वसुन्धराको शस्यश्यामा बनानेके लिये गिरिकन्दराओंसे पवित्र जलधाराएँ प्रवाहित करते हैं—जिसकी सत्तासे रत्नगर्भा वसुन्धरा हमारी श्रीसमृद्धिको वृद्धिगत कर रही है, उस सर्वपालक न्यायमूर्ति परमात्माके ध्यानमें हम एक पल भी खर्च न करें यह कितनी शोचनीय अवस्था है !

हमारी जीवनचर्या ही निसर्गनियमोंके इतनी प्रतिकूल हो गयी है कि हमें उस प्रचंड दैवी शक्तिके लाभहानिका थोड़ासा भी ज्ञान नहीं है और इसलिये पंचमहाभूत हमें किस प्रकार पालते पोसते हैं और हम उनका कैसा निरादर करते हैं इसका विचार सपनेमें भी पास फटकने नहीं पाता ! फिर प्रकृतिके परे उस परमात्माकी कौन सुध ले ? इसलिये हमारी यह अधोगति हुई कि परमार्थकी डींग हांकनेभर ही सामर्थ्य रह गयी है और पाश्चात्य देशवासी जो पार्थिव उन्नतिमें लगे रहे वे निसर्गनियमोंको जानने लगे हैं । उन नियमोंसे उन्हें जो लाभ हांता है उसकी हमें खबरतक लगने नहीं पाती ! वे निसर्गनियमोंका पालन कर परमात्माकी ओर जा रहे हैं और हम परमार्थकी बातोंमें ही लगे रह कर पार्थिव उन्नति भी करने योग्य नहीं बन सके !

इसलिये हमें निसर्गके नियमोंको समझना चाहिये और जिस परमात्माकी सत्तासे सदा हमारी सेवा करनेके लिये निसर्गदेव तत्पर हैं उस परमात्माके ध्यानमें जितना समय खर्च करें उतना थोड़ा ही है । परमात्माका ध्यान करनेके लिये निसर्गनियमोंका

पालन करना पड़ेगा जिनका उल्लेख पीछे हो चुका है । उन नियमों-के अनुकूल चलनेसे मनुष्यमें स्वातंत्र्यवृत्ति उत्पन्न होगी; क्योंकि स्वभावतः ही मनुष्य स्वतंत्र है । परन्तु स्वतंत्र होनेके लिये इंद्रियों की अचीनताका पाश तोड़ कर विवेक और न्यायके अधीन होना चाहिये।

आत्मावलंब ।

मनुष्यको एक आत्माका ही भरोसा रखना चाहिये । जितने काम हम लोगोंको करने पड़ते हैं उन सबमें एक अपना ही सहारा हो । हम लोग अबतक सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आदि सभी बातोंमें दूसरोंकी ओर देखते हैं; यह बहुत ही बुरा है । इससे अज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हर बातमें मनुष्यको स्वतंत्र होना चाहिये । स्वतंत्रतासे ही मनुष्यकी पूर्ण उन्नति हो सकती है । परतंत्र मनुष्य कदापि अपने मन, बुद्धि अथवा शरीरकी थथेष्ट उन्नति नहीं कर सकता । इसीलिये पहिली बात स्वावलंबन है । फिर

नियमितता ।

मनुष्यमें यदि वक्तपर सब काम करनेकी आदत न हो तो यह मनुष्य कोई अच्छा काम नहीं कर सकता । हम लोग जो नित्य काम करते हैं उन कामोंको ठीक समयपर करें तो इससे अपना और अपने देशका कल्याण होगा । सोना, सोकर उठना, स्नान संध्यादि करना, व्यायाम और प्राणायाम, भोजन और जलपान, व्यवसाय और मनोरंजन आदि सभी काम ठीक समयपर करें तो हमारे और आपके लिये बहुतसा ऐसा समय बच जायगा जब हम और आप और कोई अच्छा काम कर सकते हैं । यह बड़ा भारी लाभ है पर इतना ही मत समझिये । नियमिततासे शरीरके अन्दर जो कार्यवाही हुआ करती है वह ठीक

समयपर जैसी चाहिये वैसी हांती है। समयपर काम न करने से शरीरके पुर्जे बिगड़ जाते हैं और मस्तक तड़कने लगता है—रोग पैदा होते हैं—मन मलीन हो जाता है और बुद्धि भ्रष्ट होती है इसीलिये ध्यानपद्धति बतलानेसे पहिले श्रीकृष्ण भगवानने स्वावलम्बन और नियमितताकी शिक्षा दी है।

ध्यानपद्धति ।

ध्यान करनेका समय निश्चित नहीं है; क्योंकि जिस समय आप चाहें उसी समय आप ध्यान कर सकते हैं। जिस समय ध्यानमें मन लगे वही समय ठीक है। सायंकालका मनपर कैसे प्रभाव पड़ता है यह बात सभी जानते हैं और इसीलिये उस समय खाना पीना बन्द कर ईश्वरकी आराधना करनेकी अच्छी रीति है। परन्तु जो लोग सबरे नहीं उठ सकते वे नहीं जानते कि प्रातःकालकी क्या महिमा है। वे पहिले सूर्योदयसे पूर्व उठ कर मकानके ऊपरी छतसे अथवा किसी मैदानमें जाकर सृष्टिसौन्दर्य देखें तो उन्हें मालूम हो जायगा कि परमात्माका अथवा निसर्गदेवका ध्यान करनेका उत्तम समय प्रातःकाल ही है। प्रातःकाल और सायंकाल, और हो सका तो मध्याह्नमें भी ईश्वरकी आराधना करनी चाहिये। ईश्वरकी आराधनाका कोई खास मार्ग नहीं है, जिसके जीमें जैसा आवे वह वैसी ही उपासना करे। परन्तु आर्य ऋषियोंने और गीताकारने भी निश्चित मंत्रों द्वारा उपासना करना उत्तम माना है। मुख्य मंत्र गायत्री है। इस मंत्रको मनमें उच्चारण कर उसके भावको समझते हुए विश्वात्माके ध्यानमें मगन होना चाहिये। परन्तु सब लोग चाहे जैभे स्थानपर बैठ ध्यान नहीं कर सकते। इसलिये ध्यान करनेके लिये आसनकी भी व्यवस्था बतलायी है। स्थान पवित्र, स्वच्छ और सूर्य किरणोंसे शोधित होना चाहिये। वहां गन्दी

हवा कहींसे न आने पावे इसका प्रबन्ध कर लेना चाहिये । ऐसे स्थानमें कुशासनपर धूतवस्त्र बिछाकर श्रद्धालु पुरुष बैठ जाय । फिर पालथी मारकर स्वाभाविक स्थितिमें शरीरके सारे अवयवोंको कर ले अर्थात् कमर या गर्दन झुकी न रहे; हाथ जरा पीछेकी ओर और छाती आगेकी ओर फैली हुई हो । फिर दोनों भौओंके बीचमें दृष्टिको एकाग्र कर परमात्माका ध्यान करना चाहिये । इस समय मनमें और किसी प्रकारका विचार न घुसने पावे । हां, ध्यान करते समय पूर्ण श्वसन लेने, निरोध करने और छोड़ देनेका अभ्यास करना बहुत अच्छा होगा । इस प्रकार नित्य नियत समयपर ध्यान करना चाहिये और जब जब मन बहकने लगे तब तब परमात्माका ध्यान कर इसी प्रकार पूर्णश्वसन करना चाहिये । ऐसे समय विषयचिन्तामें फंसनेके लिये मन जबर्दस्ती दौड़ जाय तो उसके बुरे परिणामका ही ध्यान करना चाहिये ।

इस प्रकार जो लोग योगपद्धतिसे ध्यान करते हैं वे जिस दर्जेका उनका ध्यान होगा वैसा फल पाते हैं । थोड़े अभ्याससे भी बड़ी कठिनाई दूर होती है और यह अभ्यास इस संसारमें और जन्म जन्मान्तरमें भी काम आता है । अर्जुनने जब पूछा कि योगसे च्युत हुए मनुष्यकी क्या गति होगी तब भगवानने यही उत्तर दिया कि उसकी अच्छी गति होगी—वह दूसरे जन्ममें किसी श्रीमान् और पवित्र कुलमें उत्पन्न होगा अथवा किसी ऐसे स्थानमें जन्म लेगा जहां वह अपना योगाभ्यास पूरा करनेकी सामग्री पा सके ।

प्रकृति और प्रभु ।

‘प्रकृति’ इस एक शब्दसे सारे संसारकी देख-अदेख वस्तुओंका बोध होता है । और ‘प्रभु’ यह नाम उस आधारका

है जिसकी सत्तासे संसारकी स्थिति है ।

प्रकृतिके दो भेद हैं ; एक परा और दूसरी अपरा ।

पंच महाभूत अर्थात् पृथ्वी, आप, तेज, वायु, अकाश, और मन, बुद्धि, तथा अहंकार ये अपरा प्रकृतिके आठ भेद हैं । अर्थात् यह सारी सृष्टि, सृष्टिके सम्बन्धी सारे शास्त्र, सिद्धान्त, तर्क और ' मैं हूँ ' इम विषयका ज्ञान आदि अपरा प्रकृतिके अन्तर्गत हैं । भूस्तर, वनस्पति, जीवन, ज्योतिष, गणित, मानसनीति आदि सारे शास्त्रों और सिद्धान्तोंका अपरा प्रकृतिमें अन्तर्भाव होता है । तात्पर्य मिट्टीके एक कणसे लेकर देखने और जाननेकी सब बातें और उनका ज्ञान अपरा प्रकृति है ।

परन्तु इन सब वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करनेवाली, भोग करनेवाली और संसारको चलानेवाली एक शक्ति है जिसे जीव कहते हैं । इसीको पुरुष अथवा परा प्रकृति भी कहते हैं । यह ज्ञानस्वरूप है । यही मनुष्यके ज्ञानकी सीमा है ।

जीव इच्छा और संस्कारोंसे आच्छन्न है । इच्छा निर्मूल होनेपर जीव ही शिव या प्रकृतिका प्रभु है । वह सर्वव्यापी है-निर्गुण और निराकार है ।

इस प्रकार संसार या संसारकी प्रत्येक वस्तु अथवा प्रत्येक मनुष्यके तीन रूप हैं:- (१) प्रकृति अर्थात् पंचमहाभूतोंसे बना शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, (२) जीवात्मा अर्थात् इच्छा-च्छन्न आत्मा, और (३) निर्गुण-निराकार आत्मा ।

जीवोंमें इच्छाच्छन्न होनेके कारण सुखदुःखका भागी होता है और दुःख दूर करनेके लिये जिस सर्वव्यापी शक्तिकी सत्तासे संसारचक्र चल रहा है उसकी शरण लेता है । ऐसी शरण लेनेवालोंके चार भेद हैं:-भार्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी । इनमें ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने बलका पूर्ण उपयोग

कर अज्ञान रूपी जंजीरको तोड़ देता है । वह अपनी बुद्धिका सदुपयोग करता है और शरीरको अच्छे कामोंमें लगाता है ।

जीव और ब्रह्म ।

उस निर्गुण-निराकार परमात्माका नाम ब्रह्म है । जीव भी ब्रह्म है-परन्तु हम उसको तबतक अनुभव नहीं कर सकते जबतक सांसारिक संस्कारका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है ।

ब्रह्मज्ञानके लिये ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता है । जीवनको ब्रह्मार्पण कर देना पड़ता है । परन्तु सभी कार्य क्रमसे होते हैं-एकएक कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता । ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये पहिले विचार और अचारको शुद्ध करना पड़ता है ।

‘संपूर्ण जगत् ब्रह्ममय है’ इस सिद्धान्तको सामने रखकर जो कर्मवीर अपने शरीर, मन और बुद्धिको ब्रह्ममय संसारकी हितकामना और हितसाधनामें लगाता है वही ब्रह्मस्वरूपको पहिचाननेकी चेष्टा कर रहा है । इस प्रकार जिसका जीवन ब्रह्म-विचार और ब्रह्मचर्यसे षीतता है वह मृत्युसमयमें यमदूतोंसे नहीं डरता-आनन्दसे ब्रह्मविचारमें मगन ही ब्रह्मके समीप पहुँचता है ।

मृत्युसमयमें जीसकी जैसा इच्छा होती है वह वैसा ही जन्म धारण करता है । मृत्युसमयमें निकम्मा शरीर छोड़ अपनी इच्छा पूर्ण करनेके लिये नवीन देह धारण करनेका समय है । इस समय जो इच्छा होती है उसका हमारे अबतकके जीवनसे घना संबंध है । इसलिये मृत्युसमयमें उच्चविचार होने अथवा दूसरा जन्म उत्तम बनानेके लिये अभीसे-इसी पलसे अपने आचार विचार सुधारनेकी बड़ी ही आवश्यकता है ।

जीवकी उन्नति क्रमसे होती है । जीवपर पड़ा हुआ माया-पटल हटाने और उसे अपना स्वरूप देखनेके लिये परिश्रम और समयकी आवश्यकता है । इसलिये जो मनुष्य धीरजके

साथ स्वार्थत्यागपूर्वक हृदय और विचारको उन्नत और विशाल बनानेकी चेष्टा करता है वह मनुष्य इस अनन्त काल, अनन्त उद्योगमय जीवन और अपने अनन्त स्वरूपको पहिचाननेकी चेष्टामें उन्नति करता रहता है । कुछ उन्नति हो जानेपर उसे मनुष्यका सौ वर्षका जीवन अथवा बारह घंटेका दिन, जीवन अथवा दिन प्रतीत नहीं होता । वह अपने रात दिनको ब्रह्मकालसे और जीवनको ब्रह्मजीवनसे विचारता है । सृष्टिके प्रभव-प्रलयके समय ही प्रातःसंध्या प्रतीत होते हैं और अपना जीवन ब्रह्मके समान अनन्त ज्ञात होता है । यही मोक्ष है ।

ऐसे कर्मवीर अपने जीवनपर प्रभुता रखते हैं और कालकी गतिको भी रोक सकते हैं । ये मृत्यु-कालको हटा सकते हैं । दक्षिणायनमें देहत्याग करनेसे क्या हानि है और उत्तरायणमें शरीरविसर्जनसे क्या लाभ है उसे वे जानते हैं और इच्छा मृत्युके अधिकारी होते हैं ।

यह विषय बहुत ही कठिन है; क्योंकि ग्रन्थोंके अध्ययनसे ही इसके सिद्धान्तोंकी सत्यता नहीं सिद्ध होती । इसका संबंध प्राणीके जीवनसे है । जीवनका एक एक पल इस अथाह शास्त्रका एक एक ग्रन्थ है । प्रत्येक पलमें हम क्या बिचासते हैं और क्या करते हैं उनपर ही इसके विषयका यथार्थ ज्ञान होना न होना निर्भर है । इसलिये सदसद्विवेकबुद्धिसे पूरा पूरा काम ले कर इस समय क्या कर्तव्य है उसे निश्चित कर काममें हाथ लगानेका श्रीकृष्णभगवानने उपदेश दिया है ।

राजविद्या

जिस विद्यासे सृष्टि और सृष्टिकर्त्ताका रहस्य मालुम होता है वह राजाविद्या है । इस विद्याको पढ़नेसे प्राणियोंके दुःख दूर होते हैं; इसलिये यह सब विद्याओंसे श्रेष्ठ है और इसीलिये इस-

का नाम राजविद्या है ।

सृष्टिके दो भेद हैं एक दृश्य और दूसरा अदृश्य अथवा एक रूपात्मक और दूसरी भावात्मक । प्राणियोंके जितने व्यापार हैं वे इन्हीं दो वस्तुओंसे हुआ करते हैं । परन्तु रूप और भावको संसारसे अलग कर देनेपर बाकी क्या बचता है ? एक शरीरसे इंद्रियां, मन और बुद्धिको निकाल देनेपर और क्या रहता है ? किसने इन इंद्रियोंको उत्पन्न किया ? यह शरीर किसका है ? शरीरके विषयमें हम कहेंगे कि हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं; हमारी बुद्धि है । हम कौन हैं ? हमारा नाम आत्मा है । उसी प्रकार इस विशाल सृष्टिरूप शरीर और उस शरीरसे काम लेनेवाली इंद्रियां, मन, और बुद्धिका भी कोई आधार है और उसका नाम विश्वात्मा या विश्वेश्वर है-वही सृष्टिकर्त्ता है । यह संसार उसी ब्रह्मका शरीर है । परन्तु जिस प्रकार पण्डित लोग शरीरको ही सारसर्वस्व नहीं समझते और आत्माका ध्यान करते हैं उसी प्रकार विश्वनाथ भी विश्वको ही विश्वनाथ नहीं समझते और ब्रह्ममें ही लीन रहते हैं । इस प्रकार ही सृष्टिसे सृष्टिकर्त्ता स्वतंत्र हैं ।

मनुष्य और मनुष्यके शरीरमें भी यही संबंध है । तब क्यों लोग पेसा नहीं समझते ? इसका कारण अज्ञान है । ज्ञान और अज्ञानके मेलसे ही सृष्टिकी उत्पात्ति है । इसी अज्ञानको योग-माया कहते हैं । माया क्या है ? वस्तुका यथार्थ रूप न देखना । धुंधले प्रकाशमें पड़ी हुई रस्सी सांप, रेतिले मैदानमें पड़ी हुई सीप चांदा अथवा अपने ही पैरोंकी आवाज किसी दूसरेकी आहट मालूम देना ही माया है । हम अपने शरीरको अथवा सृष्टिको जैसा समझना चाहिये वैसा नहीं समझते । मनुष्यदेह बुद्धि और शरीरके सदुपयोगके लिये है-शरीर सुखके लिये

आत्मा नहीं है । आत्माने जो शरीर धारण कर लिया है वह कोई विशेष कार्य करनेके लिये है । जो लोग ऐसा नहीं मानते वे प्रकृतिके दासत्वकी जंजीरसे जकड़ जाते हैं । इस दासत्वशृङ्खलाको तोड़नेके लिये वे उस प्रभुकी उपासना करते हैं जो हम सबका पिता है और संसारमें न्यायका साम्राज्य ही स्थिर करना जिसका उद्देश्य है ।

जो मनुष्य जिस भावसे उसकी उपासना करता है वह उसी भावको प्राप्त होता है । परमात्मा सर्वत्र, सर्वप्रकार और सर्वसाक्षी है । इसलिये उसके यहां उपासना-भेदसे किसीको स्वर्ग या नरक नहीं मिलता । भाव-भक्तिका फल ही भक्तलोग पाते हैं ।

विभूति-भेद ।

परमात्मा सबका पिता है और सभी उसकी उपासना करते हैं । परन्तु उपासनाओंमें भेद है और परमात्माके भिन्न भिन्न स्थानोंमें भिन्न भिन्न चित्र दिखायी देते हैं । यह क्यों ?

प्रभु ईसाके भक्त ईसाको ही परमेश्वरका अंश और गिरजेको ही उपयुक्त प्रार्थनामन्दिर मानते हैं । इस्लाम मतावलम्बी मुसलमान भाई पीर पैगम्बरको ही दैवी विभूति और मसजिदको ही पवित्रतम स्थान समझते हैं । परन्तु हिन्दू लोग ही क्यों तेतीस करोड़ देवताओंमें, फल, फूल, और पत्तियोंमें, नदियों और समुद्रोंमें, पर्वतों और गिरिकन्दराओंमें, भस्म और मृत्तिकामें भी ईश्वरको देखते हैं और क्यों नहीं एक ईश्वरको मानते ? कारण स्पष्ट है ।

परमात्मा सर्वत्र है । पृथिविके एक एक कण और सूर्यदेवके एक एक किरणमें परमात्मा वर्तमान है । परन्तु मनुष्यकी दृष्टि इतनी विशाल नहीं है कि अखिल ब्रह्मांडमें व्याप्त हो कर उस विश्वरूप विश्वात्माका चित्र नयनपुटमें बना ले । इसलिये जहां-

तक जिसकी दृष्टि पहुँचती है वहींतक उसका परमात्मा है । जिस स्थानपर चित्त लग जाय वहीं परमात्मा है । मनुष्यका आरोग्य, बल, बुद्धि, यश, विद्या आयुष्य, और तेज बढ़ानेवाले जितने पदार्थ हैं उतने सब पदार्थोंमें मनुष्यका चित्त रममाण होना अत्यन्त स्वाभाविक है । अब जहाँ मनुष्यका मन रममाण हुआ वहाँ यदि परमात्माके अस्तित्वके विश्वाससे पवित्रताका संचार हो जाय तो और क्या चाहिये ? इसलिये वसुन्धरा-देवीके जितने सुगन्धमय और प्रकाशमान आभूषण हैं वे हिन्दुओंको पवित्र तीर्थोंके समान हैं ।

और एक बात । किसी स्थानमें ईश्वरके अस्तित्वका विश्वास मनुष्योंके लिये जितना उपयोगी और स्थिरस्थायी होता है उतना किसी शास्त्रका सिद्धान्त नहीं हो सकता यह बात भारत-वर्षमें सिद्ध हो चुकी है । उदाहरणार्थ—भागीरथीके जलकी महिमा । शास्त्रसे सिद्ध हुआ है कि इसके जलमें जो आरोग्य, बल, और बुद्धि बढ़ानेकी शक्ति है उतनी और किसी नदीके जलमें नहीं । परन्तु इस सिद्धान्तको जाननेवाले कितने लोग नित्य गंगास्नान करते हैं ? हमारा विश्वास है कि धर्मविश्वाससे गंगास्नान अथवा तीर्थयात्रा करनेवालोंकी ही अधिक संख्या है । इसलिये हिन्दुओंने ऐसी वस्तुओंको जो देवदेवी मान लिखा सो अच्छा ही किया ।

विश्वरूप ।

विश्वरूप दर्शनके लिये भर्जुनको जो दिव्यदृष्टि प्राप्त हुई वह हमारे पास कहां है ? पर हाँ, हमारी जितनी विशाल दृष्टि, जितना विस्तृत भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान, और उदार हृदय होगा उतना ही विशाल यह विश्वरूप हमें दिखायी देगा ।

किसी मनुष्यसे मुलाकात करनेका क्या यही मतलब नहीं है कि हम उसके शरीरकी तेजस्विता, सारं भवयवोंका गठन और उसका चरित्र जानें ? बस तो परमात्माका अनन्तरूप दर्शन करनेके भी यही अर्थ है कि हम अपनी दृष्टिको जितनी दूर फैला सकें उतनी दूर फैला कर उसके पंच महातत्वों और तत्वोंसे गठित अखिल ब्रह्मांडका दर्शन करें और परमात्माकी न्यायसत्ता, दुष्टोंको दंड देने और शिष्टोंके पालन करनेकी वृत्ति तथा आजतक संसारमें किनकिन अद्भुत घटनाओं और ऐतिहासिक कर्मवीरोंमें यह देवी शक्ति प्रत्यक्ष हुई है उनका स्मरण करें ।

वर्तमान समयमें सृष्टिके विविध स्थानोंमें कैसे नानाविध चमत्कार हो रहे हैं और मानवी जातिका कौन अंश किस कार्यमें लगा हुआ है इस विषयका गंभीरतापूर्वक मनन करें और इस समय कौन सच्चरित्र और न्याय फैला रहा है; कौन किस-पर अत्याचार कर रहा है, कौन कायरतासे गर्दन झुकाकर न्यायको मिटा रहा है; कौन उस न्यायकी सत्ता स्थापित करनेके लिये तैयार हो रहा है; और अखंड न्यायकारी भगवान् वीरों और साधु पुरुषोंको श्रीसमृद्धिके लिये क्या क्या सामग्री प्रस्तुत कर रहा है तथा नीच, अत्याचारी, और कापुरुषोंको अपनी दाढ़ोंमें कैसे पीस रहा है; आंख खोल कर, हम लोग इस चित्रको देखें । देखिये, प्रभु अपनी अनन्त भुजाओंसे सच्चरित्र और धर्मवीरोंको आलिंगन दे रहे हैं, और नीचोंको अपने सर्वप्राप्ती अनलमें भस्म कर रहे हैं !

भक्ति ।

भक्तिका अर्थ है अत्यन्त एकता । भक्त वही है जो अपने उपास्य देवसे विभक्त या अलग न हो । परमात्माकी भक्ति करनेका फिर यही अर्थ हुआ कि परमात्मासे इतना मेल हो जाय

कि परमात्मा अपनेसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु न प्रतीत हो ।

जिस मनुष्यको परमात्माका भक्त बनना है उसे परमात्माकी विश्वकल्याणकी वृत्ति अपनेमें ला छाड़नी चाहिये । प्राणीमात्रसे प्रेम करना, सबसे मित्रता और दयाका व्यवहार करना, मोह और अभिमान न करना, सुखदुःखकी परवा न करना, क्षमा, संतोष, प्राणायाम, जितेंद्रियता, स्वार्थत्याग, न्याय, शान्ति, मित और आवश्यक भाषण इत्यादि परमात्माकी भक्तिके उपाय हैं ।

इस उच्चतम भक्तिको सभी कोई नहीं प्राप्त कर सकते । परन्तु सभी भक्त थोड़ी थोड़ी भक्ति अवश्य कर सकते हैं मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रकी भक्ति करना कठिन है; परन्तु वीरवर इनुमानकी वीरताका भक्त बनना उतना कठिन नहीं । अपने स्वभावके अनुकूल जिस मनुष्यको जो आदर्श उचित जान पड़े उसी आदर्शका वह ध्यान करे । वीरताकी भक्ति करनेसे उदारता आती है । उदारतासे दृष्टि विशाल होती है । इसलिये इस समय भारतवर्षमें वीरताकी ही भक्ति होनी चाहिये जिससे कायरता दूर होगी और चित्त शुद्ध और हृदय उदार होगा । परमात्माकी भक्तिका यह भी एक उपाय है ।

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ।

परा और अपरा प्रकृतिका वर्णन पीछे हो चुका है । उसमें यह बतलाया जा चुका है कि यह देह किन तत्वोंसे बनी और देह धारण करनेवाला कौन है । उभी प्रकार यह सृष्टि किन पदार्थोंसे बनी है और सृष्टिकर्ता कौन है ? इसी देह और देही-को, सृष्टि और सृष्टिकर्ताको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं ।

जीवात्मा प्रकृतिजन्य विकारोंके कारण प्रकृतिके चरखेमें भटकता है । जितेंद्रिय, निर्भय, और शुद्ध हृदय हो नित्य ध्यान करनेसे प्रकृतिकी दासतासे स्वतंत्रता प्राप्त होती है । इसका

थोड़ेमें अनुभव लेना हो तो रातको सोने समय इस शरीरका वास्तविक रूप सामने रख आत्माका ध्यान कीजिये । कुछ दिनोंके अभ्याससे मनकी चिन्ता इतनी शीघ्रतासे नष्ट हो जायगी और आपको इतनी मीठी नींद लेनेका अवसर मिलेगा कि देखकर आप आश्चर्य करेंगे । परन्तु रातको ऐसे विचार मनमें उत्पन्न कब हो सकते हैं? जब जीवनके नियम पालन किये जायँ-जिस समय विश्राम करना है उस समय विश्रामके लिये लेट जायँ और जिस समय जीवन-संग्राममें युद्ध करना है उस समय युद्धके लिये कमर कसकर तैयार हों । अनुभव लेनेका अभ्यास करनेसे ये बातें उतनी कठिन नहीं मालूम होंगी ।

प्रकृतिके तीन गुण ।

प्रत्येक मनुष्यमें ज्ञान, सुख, कर्म, दुःख, आलस्य, और अज्ञानके बीज रहते हैं । सृष्टिके मूलमें भी इन बीजोंका अस्तित्व है । इनके तीन विभाग किये गये हैं: (१) सत्व, (२) रज और (३) तम । सत्व ज्ञान और सुखका प्रकाश है; रज कर्म-और दुःखका मूल है; तम आलस्य और अज्ञानका कारण है । जब ये तीनों गुण सम परिमाणसे रहते हैं तब वह शून्यावस्था कही जाती है, क्योंकि ज्ञान+अज्ञान=०; सुख+दुःख=०; कर्म+आलस्य=० । इसलिये सृष्टिकार्यके अर्थ इस समतामें विषमता उत्पन्न होनेकी आवश्यकता होती है । यह विषमता ब्रह्मसत्तासे उत्पन्न होकर सृष्टि और शरीरका कार्य करती है । प्रत्येक प्राणीमें इसीलिये इन तीन गुणोंमेंसे एक न एक प्रबल और दूसरे निर्बल होते हैं । किसीमें सत्वगुण प्रधान होता है तो किसीमें रजोगुण और किसीमें तमोगुण ।

तीनों गुणोंमें सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी प्रधानतासे मनुष्यके अन्य गुण दबते हैं और सृष्टिका ज्ञान और सुख प्राप्त

होता है इसलिये सात्विक बननेका उपदेश है । रजोगुण विलास और विहारकी इच्छामें मनुष्यको जकड़ डालता है । उसी प्रकार तमोगुण मनुष्यको आलसी और खुराफाती बनाता है ।

सात्विक बननेके लिये मनुष्यको नैसर्गिक नियमोंका पालन करना पड़ता है । प्रत्येक कार्यमें—भोजन, शयन, विहारादिमें—नियमित होना पड़ता है । ब्रह्मचर्यकी बड़ी सावधानीसे रक्षा करनी पड़ती है । जो लोग सात्विक होना चाहते हैं उन्हें शरीर, मन और बुद्धिसँ पूरा पूरा काम लेकर देशसेवा अथवा भूत-सेवामें योग देना चाहिये ।

सत्वगुणप्रधान मनुष्यके इहपरलोक दोनों बनते हैं । रजोगुणप्रधान व्यक्ति सुखी नहीं होता क्योंकि उसे ज्ञानका आस्वाद नहीं ! तमोगुणी मनुष्य इस जन्ममें अपना चरित्र न सुधारें तो वह पशुयोनिमें फिर जन्म लेता है ।

परन्तु जिस मनुष्यको इन तीनों गुणोंकी उत्पत्तिका यथायं ज्ञान हो जाता है वह प्रकृतिकी दासतासे स्वतंत्र हो जाता है । उसे चिरशान्ति प्राप्त होती है । वह गुणातीत हो ब्रह्मस्वरूप होता है । पर अभी ब्रह्मस्वरूप हो जाना हमारा आपका काम नहीं है । हम भारतवासी इस समय यह चाहते हैं कि पहिले हमारे शरीर दृष्टपुष्ट और तेजस्वी हों, आंधंपेट कगाल भाइयोंको अन्नवस्त्र मिले; हमारी राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक स्थिति इस प्रकार हो जाय कि प्रत्येक हिन्दूको अपनी योग्यता दिखाने और अधिकार भोगनेका अवसर मिले । उसी प्रकार भारतवर्षसे कायरता दूर हो जाय और वह प्रबल राष्ट्रोंकी पंक्तिमें स्थान पा ले । यह कार्य होनेसे पहिले ही यदि हम लोग ब्रह्मीभूत होनेका प्रयत्न करें तो हमने व्यर्थ ही शरीर धारण किया ! शरीर धारण करनेका क्या कोई आस उद्देश्य

नहीं है? क्या बिना उसका पूरा उपयोग किये हम उस संपत्तिको लात मारकर फेंक दें? नहीं नहीं; उसका पूरा उपयोग करनेसे ही आत्माका उद्देश्य सिद्ध होगा। ब्रह्मनिकेतनका यही राजमार्ग है।

पुरुषोत्तम-योग ।

पुरुषोत्तम नाम उस परमात्माका है जो हमारे इस अनन्त संसारका मूल है। उस परमात्माकी प्राप्तिका नाम ही पुरुषोत्तम-योग है। सत्वरजादि प्रकृतिगुणोंसे ढके रहनेके कारण ही हम उस परमात्माके समीप नहीं पहुँच सकते। इसलिये मानवी उन्नतिको अन्तिम लक्ष्य इन प्रकृति-बन्धनोंको तोड़कर ब्रह्मस्वरूप होना है।

प्रकृतिके गुणोंसे स्वतंत्र होनेके लिये असंग अर्थात् वैराग्य साधन करना पड़ता है। अभ्याससंन मनुष्य निःसंग हो सकता है। विषयभोगसे मन हटाकर जो मनुष्य अपने मन, तन और बुद्धिके सारे परिश्रम देश अथवा विश्वके हितसाधनमें लगा देता है और भक्तिके साथ अपने समयके एक एक पलको अमूल्य समझ कर प्रामाणिक ग्रन्थोंके पठन, श्रवण और मनन करता हुआ ज्ञानको काममें लाता है वही निःसंग हो तीनों गुणोंकी दासत्वशृंखला तोड़ डालनेमें कठिनाई नहीं देखता। वह आत्माज्यातिके प्रकाशसे उस परंपदको देख लेता है जो यहांसे इतना दूर है कि इस विश्वप्रासादको प्रकाशमान् करनेके लिये उत्पन्न हुए अगणित तेजोमय दीपकोंका भी प्रकाश वहां-तक नहीं पहुँचने पाता। एक आत्माज्योतिमें ही इतनी शक्ति है कि उसका प्रकाश विश्वके आंरसे छोरतक फैल जाता है। यह परंपद सत्य और न्यायकी अखंड सत्ता है।

प्रकृतिके संयोगसे आत्माको जीवदशा प्राप्त होती है। जीवदशा प्राप्त होनेपर जीवात्माका ज्ञान भी संकुचित होता है; क्योंकि वह सृष्टिकार्यके लिये अपने योग्य एक भूमंडल अथवा

शरीर तैयार करता है । इसी शरीरका वह अपना शरीर समझता है । शरीरकी यदि परवा न करे और अपने रूपका ध्यान करे तो वह सारे भूमंडलको ही अपना शरीर समझने लग जायगा । परन्तु ऐसा होना इतना आसान नहीं है । सत्त्वादि गुणोंसे स्वतंत्र होनेके पहिले उन गुणोंसे पूरा पूरा काम लेना उसका कार्य है । एक जन्मसे दूसरे जन्ममें जीव लोग इसीलिये जाते हैं कि वे अपनी शक्तिका एक बारमें पूरा उपयोग नहीं कर सकें तो दूसरे बार कर लेंगे । दूसरा जन्म लेनेके पहिले पूर्वजन्मसे वह अपने साथ कुछ संस्कार ले जाता है जिनके अनुकूल ही दूसरे जन्मकी उसकी देह, मन और बुद्धि तैयार होती है । यह कार्य उसी प्रकारसे होगा है जैसे वायु फूलोंसे सुगंध बहा ले जाती है । जीव यह सब अपनी उन्नतिके लिये करता है । परन्तु सबकी समान अवस्था नहीं होती । कोई जीव अपने जीवनमें तमोगुणका दास हो तामस संस्कार लेकर पशुयोनिमें जन्म ग्रहण करता है; कोई भोग, विलासादिको ही पुरुषार्थ मान राजस संस्कार ले कर अपने योग्य स्थान ढूँढ़ लेता है; और कोई सात्विक संस्कारोंके साथ योगियोंके यहाँ उत्पन्न हो कर अपनी जीवनयात्रा सफल करता है । इन बातोंपर जीवका पूरा अधिकार है । जो जैसा चाहेगा वैसा ही पावेगा ।

सब लोग जीवकी इस जीवदशाका रहस्य नहीं जानते क्योंकि कभी सपनेमें भी वे अपने जीवनको अमूल्य नहीं समझते । उन्हें अपनी पहिचान नहीं होती । परन्तु योगियोंको यह रहस्य मालूम हो जाता है; क्योंकि वे केवल शास्त्रोंकी चर्चा नहीं करते किन्तु अपने जीवनको वैसा बना देते हैं । उन्हें सर्वत्र परमात्मा दिखायी देता है । सूर्य, चन्द्र और अग्निके प्रकाशको वे प्रत्यक्ष परमात्माका प्रकाश जानते हैं । उनके लिये

चंद्ररूपसे वनस्पतियोंपर सुधा बरसानेवाला और प्रत्येक देहमें जठराग्निके रूपसे अन्नका पाचन करनेवाला वही परमात्मा है । उनपर ज़रा जरासी बातोंका प्रभाव नहीं पड़ने पाता । उनपर संकुचित संसारके संस्कार नहीं जमने पाते और वे सर्वज्ञ और सर्वमय सर्वात्माकी ही उपासनामें लगे रहते हैं । मोक्ष नाम उन्हींके जीवनका है ।

देव और असुर ।

ऊपर जिस मोक्षका उल्लेख है उसके अधिकारी सात्विक लोग अथवा देव ही होते हैं इसलिये ऐसे पुरुषोंके लक्षणोंकी तालिका दी जाती है:-दान, दम, यश, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, प्रियभाषण, अक्रोध अनासक्ति, शान्ति, दोष दृष्टिका अभाव, भूतदया, प्रेम, लोलुपताका अभाव, आचार विचारमें मृदुता, मधुरता, जनमनलज्जा, स्थिरता, तेजस्विता, सहिष्णुता, अन्तर्बाह्य पवित्रता, द्वेषाभाव, अहंकारशून्यता । इनमें एक भी लक्षण ऐसा नहीं है जो बिना ब्रह्मचर्यके सधे । इसलिये सात्विक पुरुषोंका प्रधान लक्षण ब्रह्मचर्य है ।

असुरोंके स्वभाव, आचार और विचार सात्विक वृत्तिके विपरीत होते हैं । इन्हें ज्ञान अथवा सुखसमृद्धि नहीं प्राप्त होती । इन्हें विश्व और विश्वात्माका पता नहीं, इसलिये क्या कर्तव्य है और क्या करनेसे पाप होता है इसका विचार भी इनकी मोहान्ध बुद्धिमें नहीं आता । शरीर, मन और बुद्धिको ये पवित्र और स्वच्छ रक्षना नहीं जानते । इन्हें शिष्टाचार नहीं मालूम । झूठ बोलना तो इनके घरकी खेती है । और तो क्या ईश्वरतकको ये नहीं मानते और कहते हैं कि स्त्री पुरुषके संयोगसे सृष्टि उत्पन्न होती है-उसमें परमेश्वरका क्या लगता है ?-परमेश्वर कोई चीज ही नहीं है !

महानास्तिक चार्वाकका कथन है:-“ हमारा शरीर ही हमारी आत्मा है। जीव शरीरकी एक रासायनिक उपाधि मात्र है। मृत्यु ही मोक्ष है। वेदोक्त कर्म मंड और निशाचरोंने लोगोंको फंसानेके लिये कल्पित किये हैं। क्योंकि उनके फल दृष्टेगोचर नहीं। भांखोंसे जो दिखायी दे अथवा इंद्रियगोचर हो वही सत्य है-प्रत्यक्ष प्रमाण ही केवल प्रमाण है। तात्पर्य, देह ही आत्मा और देहोपभोग-विषयभोग ही परंपुरुषार्थ है।” चार्वाकका एक ही वेद है-‘अनुभव’। (भारतवर्षमें, समाजमें महानर्थ उत्पन्न करनेवालोंको भी विचारस्वातंत्र्य और उपदेश स्वातंत्र्य था !)

उन्होंने दुनियाको दुनियादारीके लिये समझ लिया है। इनसे समाजकी बड़ी हानि होती है। ये अपना स्वार्थ बनाने और दूसरोंका माल दडपनेमें बड़े उस्ताद हैं। इनका सारा पुरुषार्थ ‘काम’ है। परन्तु काम, क्रोध और लोभ नरकका रास्ता दिखानवाले मार्गदर्शक हैं। इसलिये जिन्हें नरकसे बचना है उनका कर्तव्य है कि काम क्रोधादिसे बचें और परमात्मा, जीवात्मा और संसारसंबंधी जो सत्य सिद्धान्त हैं उनके अनुकूल अपने जीवनको बना कर्तव्य पालन करें।

श्रद्धा ।

श्रद्धाका अर्थ है हृदय विश्वास। किसी देव देवीपर अथवा उन्नतिके किसी मार्गपर जो हृदय विश्वास होता है उसीका नाम श्रद्धा है। यह श्रद्धा जिसका जैसा स्वभाव हो वैसे ही होती है। सात्त्विक मनुष्योंकी श्रद्धा सात्त्विक महापुरुषोंपर और ब्रह्मचर्यादि उपायोंपर ही होती है। उसी प्रकार राजसी लोग यक्ष किन्नरोंको मानते हैं और परापहारादि मार्गको ही उचित मार्ग समझते हैं। वैसे ही तामसी लोग भूतप्रेतादिमें विश्वास रख कर

जादूटाना जैसे उपायोंपर ही श्रद्धा रखते हैं । मनुष्यकी जैसी इच्छा होती है वैसा उसका स्वभाव बनता है और जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है । इसीलिये श्रद्धाके तीन भेद किये गये हैं:-सात्विकी, राजसी और तामसी ।

परन्तु एक बात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये कि इन बातों-पर मनुष्यका पूरा अधिकार है । मनुष्यकी इच्छापर ही अच्छी अथवा बुरी श्रद्धा निर्भर करती है । इसलिये जिन लोगोंको सात्विक श्रद्धासे इहपरलोकमें सुख लाभ करनेकी इच्छा हो वे सात्विक नियमोंका पालन करें । ये नियम खाने पीने आदि सभी नित्य और आवश्यक कार्योंके संबंधमें हैं ।

आहार ।

आहार या भोजनका मनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है । तीते, खट्टे और तेलहे पदार्थ खानेवाले लोग प्रायः रोगी, तेज़मिज़ाज़ और दुर्बल होते हैं । इसलिये मनुष्यको ऐसा भोजन करना चाहिये जिससे मन प्रसन्न रहे, बुद्धि तीव्र हो और शरीरमें बल आवे । चाय, काफी अथवा मदिरा सात्विक खानपान नहीं है । उसी प्रकार तरह तरहकी मिठाइयां खाना भी शरीर और मन दोनोंके लिये हानिकर है । सात्विक अन्न नैसर्गिक होता है । नैसर्गिक अन्न अथवा भोजनसे उन वस्तुओंका मतलब है जो मनुष्यकी बनायी न हों-परमात्मा द्वारा ही वसुधामें उत्पन्न हुई हैं । अर्थात् मांस, मदिरा, मिठाई, अचार आदि पदार्थ नैसर्गिक नहीं हैं । गेहूं, चावल, बाजरा, चना, तरकारियां और फल, मेवे आदि नैसर्गिक पदार्थ हैं । इन्हींका आहार सर्वोत्तम है । इन सब वस्तुओंको नैसर्गिक अवस्थामें ही खाना सर्वोत्तम है । ऐसे आहार करनेवाले जंगली मनुष्यों और जानवरोंको देखिये । वे कैसे निरोगी और बलिष्ठ होते हैं । परन्तु इस समय

ऋषिमुनियोंकी सन्तान्—कन्दमूल भक्षण करनेवालोंकी सन्तति निसर्गसे बहुत दूर चली गयी है । इसलिये एकाएक सब प्रकार अवस्थाका पलट जाना असंभव और हानिकर भी है । इसे केवल आदर्शस्वरूप सामने रख कर लोग यदि यथासंभव और यथाश्यास नैसर्गिक अन्न और फल खाया करें तो कितना घन, कितनी शरीरसंपत्ति और कितना समय और अमूर्त्य कार्योंके लिये बच जायगा !

यज्ञ ।

यज्ञ नाम है स्वार्थत्यागका । अपनी प्रतिष्ठाके लिये अथवा लाचार हो कर जो स्वार्थत्याग किया जाता है वह सात्विक स्वार्थत्याग नहीं है । सात्विक यज्ञ उस स्वार्थत्यागका नाम है जो दूसरोंके हितार्थ निःस्वार्थ बुद्धिसे ही किया जाय । ऐसे कर्म करनेका अभ्यास डालना चाहिये । पहिले अपने संबंधियोंके साथ ही ऐसा व्यवहार करनेसे फिर और लोगोंपर भी उपकार करनेकी बुद्धि होती है और क्रमशः यह अभ्यास बहुत बढ़ जाता है । इस स्वार्थत्यागसे मनुष्यकी सात्विकी श्रद्धा बनती है और ऐसी श्रद्धा बननेसे मृत्यु समयमें सदिच्छा उत्पन्न होती है और अगले जन्ममें उन्नतिका मार्ग सुगम होता है ।

तप और दान ।

तप तीन प्रकारके हैं; कायिक, वाचिक और मानसिक । ब्रह्मचर्यसे तथा नित्यप्रति जल, वायु तथा सूर्यस्नानसे शरीरको पवित्र रखकर उसका उपयोग दुर्गोंसे निर्धलीको बचानेमें और शिष्टोंके पालनमें करना सात्विक शरीर तप है । मितभाषण करना, कोई ऐसी बात न कहना जिससे किसीका दिल दुखे, सात्विक प्रकारका वाचिक तप है । और मनमें सदा शुद्ध विचारको स्थान देना, अभिमान और इन्द्रियवशताको हटाना,

और प्रसन्न रहना सात्विक प्रकारका मानसिक तप है । मनुष्य यदि इस तपसे अपने शरीर, मन और बुद्धिकी उन्नति करे तो विना बात किये ही वह दूसरोंपर अपना प्रभाव डाल सकता है । स्वयं प्रसन्न रहनेसे बढ़कर दूसरोंको प्रसन्न करनेका और कोई उपाय नहीं है । दान भी सात्विक, राजस और तामस हांत्स है । सात्विक दान वह धन अथवा विद्यादान है जो देश, काल और पात्रका विचार करके दिया जाय । जिसके पेटमें भूखकी ज्वाला धधक रही है उसके मुंहका कौर छीन लना और लक्ष्मण-पतियोंकी दावत करना अथवा परान्नपुष्ट मनुष्योंको भोजन देना महाघृणित दान है । देश, काल, और पात्रका विचार कर दान देनेकी रीति भारतवर्षसे मानो उठ ही गयी है । अतिथि-सत्कार तो यहां नहीं होता; पर नीचवृत्ति अहंमन्य घुराधारियोंको संतुष्ट करनेमें कोई बात उठा नहीं रखी जाती । दान दिया जाता है उन लोगोंको जो कोई काम नहीं करते ; दिनरात दूसरोंकी निन्दा और शिश्नोद्गर सेवा ही किया करते हैं । जो लोग खूनका पसीना बहाकर गरमीकी झल्लाती धूपमें भारतवर्षके अमीर और गरिबके लिये, युरोप और अमेरिकाके लिये भी अन्न पैदा करनेमें अपनी देहको घिस डालते हैं उन्हें कोई फूटी आंखसे भी नहीं देखता ! हां देखते हैं उन लोगोंको जो दूसरोंका माल हड़पते हैं । अभी जरूरत है उन कंगाल किसानोंको विद्या और धनदान देनेकी जो आपके लिये अन्न पैदा करते हैं जिस अन्नके बिना आपके भूखों मरनेकी नौबत आ सकती है । दीनोंको दान देना ही हमारा धर्म है ।

* * *

सारांश ।

संसारमें जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब कोई न कोई

काम करते हैं। निकम्मा पदार्थ यहां रह नहीं सकता। मनुष्य भी कर्म करनेके लिये उत्पन्न होता है। जो मनुष्य निकम्मा बैठा रहेगा वह सड़ जायगा। परन्तु कर्म भी समझकर करना चाहिये; नहीं तो उस 'उद्योगी' मनुष्यकीसी अवस्था होगी जिसने शास्त्रोंके सिद्धान्त न समझकर, अपनी स्त्रीके केश काट डाले थे। ऐसे उत्पाती लोग संसारमें कम नहीं हैं। कर्म करना स्वभावका धर्म है; परन्तु कर्मकी दिशा न मालूम हानेसे लोग ऐसे कर्म करते हैं जिनसे उनका और उनके समाजका रूपरंग बिगड़ जाता है। इसलिये पहिल यह समझ लेना चाहिये कि कौन कर्म करना चाहिये।

मनुष्य कहाँसे आता है और कहाँ जाता है? इस संसारमें उसका क्या काम है?

अद्वैतासिद्धान्त है कि प्रत्येक जीव परमात्मा ही है परन्तु वह अपना परमात्मरूप तब तक नहीं देख सकता जबतक वह परमात्माकी अनन्य भक्ति नहीं करता अथवा परमात्माके अनुकरणसे ज्ञानमय नहीं हो जाता। परन्तु यदि यह सत्य है कि जीव परमात्मा है तो उसका कर्म भी स्पष्ट है। परमात्माका क्या काम है? कौन नहीं जानता कि परमात्मा ही इस सृष्टिको धारण करता है—वही इसका आधार है; वही अन्यायको पैरों तले कुचलकर न्यायका साम्राज्य फैलाता है। यही कार्य जीवका है; परन्तु जीवका ज्ञान जितना फैला होगा उतना ही कल्याण उससे बन पड़ेगा। तात्पर्य, प्रत्येक जीवका धर्म है कि वह लोककल्याण और संसारकी सुस्थितिके लिये सत्कर्मका प्रचार करे। श्रीमत् शंकराचार्यने अपने भाष्योपोद्घातमें यही लिखा है:—
जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षाद्भ्युद्यनिःश्रेयसोदतुर्थः स धर्मः.....।' यह धर्मकी व्याख्या है।

इसी धर्मके पालनसे—इसी ईश्वरी कर्मके अनुकरणसे जीव

जीवदशाके महासागरको पार कर स्वतंत्र हो जाता है । इस कर्मके दो भेद हैं ; एक सामान्य और दूसरा विपश अथवा श्रुति-स्मृतिद्वारा प्रतिपादित नित्य करनेके कर्म और संसारकी विशेष परिस्थतिके अनुकूल लोकापकारी कर्म । इनमेंसे पहिल प्रकारके कर्म तो सन्यासांतक नहीं छोड़ सकते फिर सामान्य मनुष्योंकी बात ही क्या है । क्योंकि यदि नित्यके कर्म छोड़ दिये जायं तो चर्मका नामनिशान भी समाजसे मिट जायगा । ये कर्म केवल कर्म समझ कर ही किये जाते हैं—इनसे फलप्राप्ति नहीं । दूसरे प्रकारके कर्म समाजका दुःख दूर करनेके लिये विशेष परिस्थितिमें विशेष प्रकारसे किये जाते हैं । जो लोग निःस्वार्थभावसे इस प्रकार समाजसेवा करते हैं उनके भी कर्मबंधन सन्यासीके समान टूट जाते हैं और वे त्यागी कहाते हैं । कर्म जो दुःख मूलक कहा गया है वह इनके दुःखका कारण नहीं हो सकता ; क्योंकि ये फलकी आशासे काम नहीं करते । कर्मफल उन्हींको भोगने पड़ते हैं जो त्याग करना नहीं जानते । ऐसे लोग अपने कर्मोंके अनुसार इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फल भोगते हैं ।

जीवोंके कर्म भिन्न भिन्न प्रकारके क्यों हो जाते हैं ? यह समझनेके लिये कर्मका कारण जानना चाहिये । मनुष्य अपने शरीर, मन अथवा बुद्धिसे जितने काम करता है उन कामोंके होनेके लिये इतनी वस्तुएं आवश्यक हैं (१) शरीर, (२) जीव, (३) वारह इंद्रियां (५ कर्मेन्द्रिय, ५ ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि), (४) प्राणायानादि वायुओंकी श्रेष्ठा, और (६) दैव । सबके शरीर, वासनाएं, बुद्धि, इंद्रियां, वायुमंडल और दैव समान नहीं हैं; इसलिये सबके कर्म भी सदान नहीं हैं ।

दैव ।

दैव क्या है ? ब्रह्मसत्तासे संसारमें जो उलटफेर होते हैं,

